



Municipal Library,
NAINI TAL.



Class No. 912

Book No. R 2211

मार्कोपोलो का यात्रा विवरण



अनुयादक - श्री रामनाथ लाल सुमन

ग्रन्थ संख्या-—५१

प्रकाशक तथा विकेता

भारती-भरडार
लीडर प्रेस, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण

वि० '९४,

मूल्य ५/-

मुद्रक

कृष्णराम मेहता
लीडर प्रेस, इलाहाबाद।

संसार के जिन पयेटकों तथा यात्रियों ने अपनी यात्राओं के विवरण लिख कर अपनो भावी पोड़ियों का उपकार या मनोरंजन किया है, उनमें इटली के मार्कोपोलो का नाम बड़ा विख्यात है। सन् १२७१ई० में वेनिस-नियासो द्वे भाई, निकोलो पोलो और मैकिओ पोलो, व्यापार के लिए एशिया को ओर रवाना हुए। उनके साथ निकोलो का पुत्र मार्को भी था, जिसकी अवस्था उस समय केवल १७ वर्ष की थी। समुद्र के मार्ग में वे कुस्तुन-तुनिया आए और वहां से कारबांओं के मार्गों का अनुसरण करते हुए चीन पहुँचे। रास्ते में उन्हें गोबी का रेगिस्तान भी पार करना पड़ा। चौन में उन दिनों किलार्ड खाँ की बादशाहत थी, जिसने पोलो बन्धुओं के साथ बड़ा अफ़ला व्यवहार किया और मार्को पोलो को अपने यहाँ नौकर भी रख लिया। उन दिनों लम्बी यात्रा करने में कितनी कठिनाइँ और खतरों का सामना करना पड़ता था, इस बात की आज मोटर और बायुयान के युग में कल्पना भी नहीं को जा सकती। पोलो बन्धुओं को चीन पहुँचने में ३१ वर्ष लग गए थे और यह भी एक सौभाग्य की ही बात थी कि वे बहाँ तक सकुशल पहुँच गए। इसके बाद वे सोलह वर्ष तक चीन ही में रहे।

सन् १२९५ में पोलो बन्धु और मार्को पोलो लौट कर वेनिस जा पहुँचे। २४ वर्ष में स्वभावतः उनमें काफ़ी परिवर्तन हो गया

था । मार्कों पोलो, जो घर से रवाना होते समय १७ वर्ष का लड़का था, अब अधेड़ उम्र का आदमी था । आश्चर्य नहीं कि उनके मित्रों तथा सम्बन्धियों ने उन्हें न पहचाना । चन्द्र रोज बाद नवागन्तुकों ने अपने पुराने मित्रों को एक दावत दी । दावत के बीच उन्होंने अपने बे फटे-पुराने कोट और लवादे निकाले जिन्हें पहिने हुए उन्होंने बापिसी सफर किया था, और फिर उन्हें फाड़ना शुरू किया । उनमें से हीरा, पन्ना, मोती, लाल आदि कीमती जवाहरात गिरने लगे जिनकी चमक-इमक से उनके मित्रों की आँखें चौंधिया गईं ।

कुछ समय बाद वेनिस और जिनोआ के बीच युद्ध खिल गया, और जिनोआ वालों ने और बहुत लोगों के साथ मार्कों पोलो के भी कैद कर लिया । कैदखाने में दिन बिताते समय मार्कों पोलो ने अपने एक साथी कैदी को अपनी विदेशों की यात्राओं की कथा सुनाई, और उसने उसे लिपिबद्ध कर दिया । इस प्रकार मार्कों पोलो की यात्रायों सम्बन्धी पुस्तक तैयार हुई । जब यूरोप के लोगों ने इस पुस्तक में एशिया के देशों की अपार सम्पत्ति का हाल पढ़ा तो उन्हें आश्चर्य के साथ उसके साथ व्यापार करने की इच्छा भी हुई । साहसी नाविकों ने पूर्वीय देशों के लिए जल-मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया । इन्हीं में एक कोलम्बस था, जिसने पूर्वीय देशों का मार्ग खोजने के प्रयत्न में अमेरिका का महाद्वीप ढूँढ निकाला, जिससे संसार के इतिहास में एक नया युग का प्रारम्भ हो गया ।

(३)

मार्कों पोलो की पुस्तक अब छः सौ वर्ष पुरानी हो चुकी है, परन्तु आज भी वह दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती है। संसार की प्रायः सभी सभ्य भाषाओं में उसके अनुवाद हो चुके हैं। इस हिन्दी अनुवाद के अनुवादकर्ता महोदय हिन्दी के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लेखक हैं। हमें विश्वास है कि पाठकों का इस पुस्तक से यथेष्ट मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही उनके ज्ञान की भी वृद्धि होगी। हिन्दी-भाषा-भाषी जनता में पर्यटन-प्रेम की बड़ी कमी है। और इस कमी को दूर करने में साहसी पर्यटकों के भ्रमण-वृत्तान्तों का हिन्दी में प्रकाशित होना कुछ न कुछ अवश्य सहायक हो सकता है।


— प्रकाशक

विवरण

	पृष्ठ
अनुक्रमण और परिचय	१
आरसीनिया का वृत्तान्त	१४
ईरान का वृत्तान्त	२१
अन्य देशों का हाल	२९
चीन के वृत्तान्त	४०
चंगेज़ खाँ और तातारी	५०
तूजान का वर्णन	६०
खाँ आज़म का प्रीष्म भवन	६२
किबलाई खाँ का दरबार	६८
भारतीय चीन	११२
कांटन का वर्णन	१३०
इण्डोचीन के अन्य नगर	१३६
जापान	१३९
चम्बा	१४५
अन्य द्वीप	१४७
भारतवर्ष का वर्णन	१५६
कोलम इत्यादि देशों का हाल	१७०
भालाबार और गुजरात	१७३
खम्बात और सोमनाथ	१७५
सकोंत्रा और मेहागस्कर	१७६
अवन देश	१८२
टर्की साम्राज्य का हाल	१८५
रूस का वर्णन	१९३

मार्कों पोलो का यात्रा-विवरण

मार्कोपोलो की यात्रा का मार्ग-विवरण



अनुक्रमण और परिचय

सन् १२५० ई० (१३०७ वै०) में, जब कि कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) में बाल्डविन द्वितीय राज्य करता था, वेनिस के दो मनूष्य जो पोलो वंश में उत्पन्न हुये थे, अपने साथ नानाभाँति के व्यापारिक दृव्य ले जहाज पर रखाना हुये, और रूम सागर तथा वास्फोरस के मुहाने से होते हुये कान्स्टेंटीनोपल (कुस्तुन्तुनिया) पहुँचे। यहाँ वे थोड़े दिन विश्राम कर आगे बढ़े और पौण्यस, यूक्सनियस को पार करके खालदाविया (वर्तमान सहाक) में, जो उस समय का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था, जा पहुँचे। यहाँ से वे थल मार्ग से बरहा (बारक खां अथवा बारक) नामक तातारियों के एक बड़े बादशाह के दरबारकों में उपस्थित हुये। बारक खां के आगे उन्होंने अपने बहुमूल्य रत्नादि उपहार के साथ उपस्थित किये।

—वह दरबार ‘सास’ और ‘सराय’ बलशारा में था। ‘सराय’ के बँझहर अलनूब नदी के किनारे (जो रूस की बीगा नदी की एक शाखा है) जरीफ नगर के पास अब भी पाये जाते हैं। यह बलगार (जिसे बुलगार भी कहते हैं) बीगा नदी के किनारे वाले बँझहरों से थोड़ी ही दूर पर है।

बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें स्वाक्षर किया और उसके बदले में अनेक कीमती जावाहिंगत प्रदान किये, उसके दरबार में वे दोनों यात्री पूरे एक साल तक रह गये और वहाँ से उन्होंने अपनी तमाम चीजों उसी शहर में बैच बैनिस लौट जाने का विचार किया किन्तु उनकी इच्छा पूरी न हो मर्का। कारण यह हुआ कि उनके बैनिस को चलने के पहले ही बारक खां और तातारियों के एक दूसरे बादशाह हलाकू खां में युछ आरम्भ हो गया जिसमें बारक खां की पराजय हुई। अब नो दोनों यात्री बहुत चिन्तित हुये। उनकी समझ में न आता था कि किस तरह अपनी जन्म-भूमि (बैनिस) को लौटें। निदान जब कोई राम्ता अपने देश लौटने का न दिखाई दिया तो उन्होंने चुपके में निकल भागने का विचार किया और एक दिन वहाँ से चल निकले। अनेक मार्गों से होते हुये वे 'गोथा काम' नामक स्थान पर पहुँचे। यह दजला नदी के किनारे था। यहाँ से बं अनेक विस्तृत मरुस्थलों को पार करते हुये १७ दिन में फारस की सीमा पर बुखारा में पहुँचे। वहाँ उस समय शाह हलाकू खां पड़ा हुआ था। उसने दोनों यात्रियों की बड़ी आव भगत की। यहाँ वे दोनों तीन साल रह गये। इसी बीच हलाकू खां ने, खां आजम क़ुकिबलाई खां (जो तमाम तातारी शासकों का शासक था) की सेवा में एक दूत भेजने का विचार किया। चूँकि दोनों यात्री तातारी भाषा बोलने में अभ्यस्त हो गये थे और वे प्रसन्नचित्त और हँसमुख थे अतएव दूत ने उन्हें उत्साहित किया कि वे शाहनशाह

*— किबलाई खां का राज्य उत्तर में उत्तरी एशिया से लेकर दक्षिण में सुमात्रा, पूर्व में अमूर नदी और एक्सोसी से लेकर पश्चिम में हैन्डूब नदी तक फैला हुआ था। उसके अधिकार में पौलैण्ड, रस और हंगरी भी था।

तातार के दरबार में चलें। दूत को आशा थी कि किबलाई सांसन्हें देखकर प्रसन्न होगा और ये दोनों यात्री मालामाल हो जायेंगे। दोनों यह समझ कर कि इस कार्य से स्वदेश जाने में सुविधा होगी, जाने के लिये तैयार हो गये और कुछ अन्य ईसाइयों को साथ लेकर (जो कि वेनिस से उनके साथ आये थे) उस दूत के साथ रवाना हुये और एक वर्ष की यात्रा के बाद शाहन्शाह तातार के दरबार में जा पहुँचे। सामने उपस्थित होने पर बादशाह उनके साथ बड़ी प्रसन्नता से मिला। उसने बहुत सी बातें उन यात्रियों से पूछीं। जैसे—पश्चिमी देशों का हाल, कैसर रूम और अन्य बादशाहों की साम्राज्य-व्यवस्था तथा युद्ध की प्रणाली। यह कि उनमें कैसी सुलह—न्याय और मेल जोल पाया जाता है। रूमियों के आचार-विचार किस प्रकार के हैं। पोप का कैसा प्रभुत्व है। मास्टर निकोलो और एम-मीजियों (दोनों यात्रियों के नाम हैं) बड़े चतुर थे। उन्होंने इन सब बातों का उत्तर बड़ी उत्तम रीति से स्पष्टता-पूर्वक दिया। सग्राट उन्हें प्रायः दरबार में बुलाया करता था क्योंकि यूरोप के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये वह अत्यन्त उत्सुक था। दोनों यात्रियों के उत्तरों को सुन कर उसे बहुत कुछ जानकारी होगई। थोड़े ही दिनों में उसे रूम की परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान हो गया।

बादशाह अपनी ग्रजा को बरकरार करा, ज्योतिष, साहित्य व्याकरण, गणित, प्रकृति विज्ञान और पदार्थ विज्ञान इत्यादि की शिक्षा देना चाहता था और ये विद्यायें योरोप में बहुत कुछ फैल चुकी थीं अतएव उसने इरादा किया कि दोनों यात्रियों को 'पोप' की सेवा में दूत की भाँति भेजे। इसलिये उसने अपने समासदों से सलाह करके दोनों को अपने एक सरदार 'चगताल' के साथ रवाना कर दिया कि अपने साथ बहुत से यूरोपियन विद्वान लाये

जो उसकी प्रजा को भलीभाँति शिक्षित कर सकें। दोनों ग्राम्य ब्रादशाह का पत्र लेकर पोप के पास रवाना हुये।

नवीन पोप और निकोलो

साम्राज्य-व्यवस्था के अनुसार उन्हें पत्र के माथ एक मुनहली तरहो (जिसे आज्ञापत्र कह सकते हैं) दी गई जिस पर शहंशाह के हस्तान्तर थे और साथ ही यह लिखा हुआ था कि “ये दोनों यात्री जिस नगर या सूबे में पहुँचें, वहाँ के राज्य कर्मचारी को उचित है कि उन्हें सवारी दे, उनके व्यय का प्रबन्ध करें और जिस वस्तु की उन्हे अथवा उनके साथियों को आवश्यकता हो, अत्यन्त शीघ्र इकट्ठी की जायें।” दोनों यात्री शहंशाह का यह परवाना (आज्ञापत्र) लेकर चल पड़े। लगभग २० दिन की यात्रा के पश्चात्, चराताल सख्त बीमार पड़ा। उस सरदार को उन्होंने वहाँ एक नगर में छोड़ दिया और आगे चल पड़े। प्रत्येक स्थान पर उनके लिए उत्तम प्रबन्ध किया गया। एक बात ऐसी अवश्य थी जो उनके पोप तक पहुँचने में अनेक कठिनाइया उपस्थित करती थी। बड़ी बड़ी नदियों में जब बाढ़ आती थी तो उन्हें एक ही स्थान पर कई दिन तक ठहर जाना पड़ता था। यही कारण था कि उन्हें आरम्भिनिया के ‘ज्याजाह’ बन्दूशगाह सक पहुँचने में ही ३ साल लग गये। ‘? ’ वे अप्रैल १२६५ ई० (१३१६ ई०) में ‘अकरा’ जा पहुँचे।

‘अकरा’ पहुँचकर सुनने में आया कि २९ नवम्बर १२६८ ई० को चतुर्दश पोप कलेमण्ट की मृत्यु हो गई अतापि उन्होंने शहंशाह तातार का पत्र ‘थ्यूबोल्ड बिन्सकोरटी डी व्यासेजा’^१ को दिया जो मिश्र देश में पोप का वकील था और अकरा, में रहा करता था।

१—इसका दूसरा नाम ‘टीवाल्डो’ अथवा ‘टीडाल्डो’ भी है। ...

वहाँ पहुँच कर दोनों ने अपनी यात्रा का मुख्य मतलब उसे कह सुनाया। 'ध्यूबोल्ड' ने उन्हें नये पोप के चुने जाने तक ठहर जाने की सम्मति दी। इसी समय दोनों यात्री अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिलने के लिये वेनिस चले गये। वहाँ जाकर ज्ञात हुआ कि मास्टर निकोलो की लड़ी का देहान्त हो गया किन्तु १५ साल का एक लड़का 'माके' है। यही लड़का इस यात्रा-पुस्तक का प्रधान नाथक 'मार्को पोलो' है। संयोग वश पोप के चुने जाने में २ साल का समय लग गया। दोनों यात्री यह सोचकर कि शहंशाह तातार उनकी प्रतीक्षा करता होगा फिर पोप के वकील 'ध्यूबोल्ड' की सेवा में उपस्थित हुये परन्तु कुछ ठीक न होने के कारण लौटने के लिये 'ज्याजह' बन्दरगाह की ओर रवाना हुये। इसी समय 'कार्ड मीनलोन' (कैथलिक महन्थ) को सभा से 'ध्यूबोल्ड' के पास दूत यह समाचार ले आया कि वह पोप चुना जायगा और उसका नाम अब से 'पोप ग्रेगोरी' (Gregory) होगा, यह घटना १२७१ई० (१३२८ब०) की है। 'ध्यूबोल्ड' वो स्योही यह समाचार मिला त्योहारी उसने दूत दौड़ाये कि शहंशाह किबलाई खां के उन वेनिस बाले दूतों को वापस लाओ। वापस आने पर उसने सम्राट किबलाई खां के नाम पत्र लिखे और उन्हें यात्रियों को देकर उनके साथ दो विद्वान शिक्षक (जिनमें से एक का नाम 'फ्रायर निकोलो डी वेसेज्जा' और दूसरे का 'फ्रायर गोलेलमो डी ट्रिपोली' था)---भी कर दिये। चलते समय पोपने अपनी ओर से प्रसन्नता प्रकट करते हुये इस मैत्री के लिए शहंशाह तातार को धन्यवाद दिया और कुछ वस्तुएँ

२—कर्नल गूल ने मार्को पोलो का जो यात्राविवरण लिखा है, उसमें दीनां शिक्षकों के नाम क्रमशः 'फ्रायर निकोलस डी वेसेज्जा' और 'फ्रायर विलियम डी ट्रिपोली' लिखे हैं।

भेट भी कीं। ये लोग पोप से विदा होकर 'त्याज्ञन' अथवा 'ज्याज़' बन्दर में पहुँचे किन्तु इसी समय सुलतान शाहुल ने 'अरभीनियां' पर आक्रमण कर दिया। दोनों शिक्षक (जो पोपने साथ कर दिये थे) बड़े भयभीत हुये और वहाँ से लौट गये।

शेष तीनों यात्री (१-ग्रन्थ निकोलो २-ग्रन्थ मार्कियो ३-मार्कोपोलो) हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने हुये लगभग दृढ़ वर्ष पश्चात 'मोसल', 'ब्रावाद', 'हुरमुज़', 'करमान', 'खुरासान', 'बलग्व', 'बदखशां', 'यारकन्द', 'ख़तन' और 'केपिन गफो' (आजकल इसका नाम शांगटो है) होते हुये तातारियों के प्रसिद्ध नगर 'क्लेमंसो' में पहुँच गये। उनके आने का समाचार सुनकर क़िबलाई खां ने उन्हें सम्मानपूर्वक लिवालाने के लिये आदमी भेजे। दरबार में पहुँचने पर शाहंशाह ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया। रास्ते की सम्पूर्ण घटनाएँ सुनीं। पोप की भेट की हुई चीजों को पाकर तथा उसका पत्र पढ़कर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। यूरोपियन विद्वानों के न आने से उसे दूख हुआ^१। शाहंशाह ने मार्को^२ पोलो के बारे में निकोलो से पूछा कि "यह कौन है?" मास्टर निकोलो ने कहा:- "श्रीमान! यह मेरा पुत्र है!" शाहंशाह उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ।

मार्को पोलो ने बहुत शीघ्र चार प्रकार की तातारी भाषाओं सीख लीं और तातारियों के युद्ध-कौशल, राज्यव्यवस्था भथा आचार विचार से भी अभिज्ञता प्राप्त की। बहुत जल्द उसने

१—कहते हैं कि यूरोपियन विद्वानों के न आने पर सन्नाट तिक्ष्णत गये और अनेक बौद्ध भिज़ुकों को अपने साथ प्रवास को उपदेश देने के लिये ले आये।

शहनशाह के हृदय में घार का लिया। शहनशाह ने उसकी योग्यता से प्रसन्न हा उसे दूसरे दरजे का कमिभर (राजदूत) बनाया और अपने दरबार का खाम मुसाहिब बनाकर बड़ों की सभा में सम्मिलित कर लिया। वहीरे २ शहनशाह का विश्वास उस पर हड्ड होता गया और उसने उसे एक भारी काम पर (जो नातार राज्य के 'शानसी', 'शेनसी', 'शिनचवान', 'ग्रन्तन', 'क्यूचू' इत्यादि सूचों के राज्य-प्रबन्ध में सम्बन्ध रखता था) नियन्त किया। मार्को पोलो इन प्रदेशों में गया और बड़ी सुन्दरता से अपना कार्य पूरा किया। वह जहाँ जहाँ में गुजारा वहाँ की विचित्रताये, वहाँ के निवासियों के आचार-विचार तथा सामाजिक गतियाँ, उनके न्यूनता और उन जगहों की प्राकृतिक अवस्था तथा जलवायु इत्यादि के बारे में पूरा विवरण लिखना गया। अपने काम को पूरा करके वह बहुत जम्ब लौट आया। उसके कम-बढ़ यात्रा-विवरण को सुनकर शहनशाह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और अब मार्कोपोलो की इज्जत पहले से भी ज्यादा होने लगी। शहनशाह उसकी योग्यता से इतना प्रसन्न हुआ कि २६ साल तक लगातार राज्य-प्रबन्ध-सुधार तथा अन्यान्य कामों के लिये उसे विभिन्न देशों में भेजता रहा। मार्कोपोलो ने इन कामों को बड़ी खूबी में पूरा किया और उसे इन यात्राओं से बड़ा लाभ हुआ। यों भी उसने शहनशाह से आङ्गा लेकर सुदूर पूर्वीय देशों की यात्रायें कीं और इस प्रकार पूर्वी देशों के सम्बन्ध की अनेक अज्ञात बातें उसे मालूम हुईं। कितानी ही लाभदायक बातें उसने ल्पयं सीखीं। उसकी इन सब यात्राओं का कमबढ़ वर्णन पाठक इस पुस्तक में पढ़ेंगे।

यह पढ़ता यात्री था जिम्में एशिया के अनेक देशों की यात्राएँ कीं और उनका पूरा वर्णन लिखा। उसने ईरान (फारस)

मार्कोपोलो का यात्रा-विवरण

के महस्थलों और हरे भरे मैदानों को देखा, उसने चीन और उसकी बड़ी २ नदियों, उसकी धनी आबादी, उसके पंश्वर्यशाली नगरों और व्यापारिक वस्तुओं का व्योरेवार बर्णन किया। उसने तिब्बत, लाऊस, (लासा), ब्रह्मा, श्याम, चीन, कोचीन, जापान, सुमात्रा; जावा, बोर्नियो (पूर्वी द्वीप समूह), सीलोन, (लङ्गा) भारतवर्ष, अड़मन, अफरीका, जंजीवार, मेडागास्कर तथा साइबेरिया और आरकटिक ओशन (उत्तरी महासागर) इत्यादि अनेक स्थानों के वृत्तान्त जो इस समय तक किसी को मालूम न थे अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किये हैं। इन स्थानों का वृत्तान्त जानने में लोग मार्कोपोलो के प्रश়ঁণी हैं। इनमें बहुतेर स्थान तो ऐसे हैं जिनके बारे में मार्कोपोलो के पश्चात आजतक किसी ने युछ नहीं लिखा।

स्वदेश की यात्रा

तीनों यात्री बहुत दिनों तक शहन्शाह तातार के दरधार में रहने के कारण बहुत धनी हो गये। अब उनके हृदय में स्वदेश जाने की इच्छा। उत्पन्न हुई। सम्राट बहुत बुढ़ा हो गया था इस-लिये यात्रियों ने सोचा कि अभी से ही चले चलना ठीक है। अन्यथा सम्राट के मरने के बाद शायद हम लोगों को जाने की आज्ञा न मिले अतएव उन्होंने शीघ्र वेनिस लौट जाने का पक्का इरादा कर लिया और एक दिन जब बादशाह बहुत प्रसन्न था मास्टर निकोलो ने वेनिस लौट जाने की आज्ञा माँगी। शहन्शाह ने कहा कि “तुम इतनी लम्बी चौड़ी भयानक यात्रा में क्यों पछाना चाहते हो ? यदि तुम्हें धन की इच्छा है तो मैं तुम्हें इससे दुगुनी दौलत और दे सकता हूँ जितनी तुम्हारे पास है।” बहुत दिनों के

सहवास से एक वकार का प्रेम उनमें उत्पन्न हो गया था अतएव उसने आङ्गा न दी ।

इसके थोड़े ही दिन बाद ऐसा हुआ कि ईरान के बादशाह 'अरगोन' की स्त्री 'खातून बुलगाना' (बलोगा) का देहान्त हो गया । ईरान का बादशाह शहन्शाह तातार का भतीजा था । अरगोन ने अपनी मृत स्त्री की वसीयत के अनुसार किंवलाई खाँ की सेवा में तीन दूत रखाना किये और प्रार्थना की कि "मैं अपनी स्त्री के ही बंश की एक १७ साल की लड़की से शादी करना चाहता हूँ" अतएव शहन्शाह तातार की सम्मति से 'खातून कोकाच्चन' (कोकाच्ची या तौकीकी) 'अरगोन' से शादी करने के लिये चूंची गई और इनके साथ भेज दी गई । किन्तु इस समय तातारियों में जोरों की लड़ाई हो रही थी । इसलिये वे दूत ८ मास की यात्रा के बाद लौट आये और किंवलाई खाँ से प्रार्थना की कि इस रास्ते से जाने में सुभीता नहीं है । इसी समय 'मार्को-पोलो' भारतवर्ष के उन हिस्सों से वापस आ गया जहाँ वह कुछ जहाजों के काम पर गया हुआ था । लौट कर उसने शहन्शाह से निवेदन किया कि भारतवर्ष के वे स्थान अत्यन्त सुरक्षित पर्वं विचित्र हैं । यह बात कहीं ईरानी दूतों के कान पड़ गई अतएव उन्होंने शहन्शाह से प्रार्थना की कि हम लोग समुद्र के मार्ग से वापस जाना चाहते हैं इन तीनों वेनिस निवासियों को जो समुद्र यात्रा में निपुण हैं हमें वापस जाने के लिये दे दिया जाय । पहले तो शहन्शाह उनकी इस प्रार्थना पर अप्रसन्न हुआ परन्तु पीछे से आङ्गा दे दी । एक बेड़ा चौदह जहाजों का तैयार कराया गया और शिवाई के दिन शहन्शाह ने तीनों यात्रियों को बुला कर अपना प्रेम और अलग होने का दुःख प्रगट किया । चलते

समय उन्हें एक सुनहरी तखती दी जो बाभिनव में आज्ञा-पत्र था और जिस पर यह लिखा हुआ था:—

“ये यात्री जहाँ जहाँ मेरे साम्राज्य में से होकर गुज़रे उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक जो चाहे करने दिया जाय। इनके प्राण और धन की हर तरह से रक्षा की जाय। इनकी सवारों और यात्रा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाय और जिस वस्तु की जिस समय आवश्यकता हो वह उसी समय लाई जाय”। उन्हें शाहंशाह ने यह भी आज्ञा दी कि तुम लोग मेरी ओर से ‘पोप’, फ्रॉस, स्पेन तथा इंगलैण्ड एवं अन्य क्रिश्चियन राज्यों में राजदूत समझे जाओ। यह सब समझा गुम्भा कर तथा बहुत सा धन, हीरा जबाहिर देकर उन्हें विदा किया।

यह भुगड़ ‘जैतून’ बन्दर से (जिसे अब संचू कहते हैं) १२९२ई० (१३४९ वै०) में रवाना हुआ किन्तु तूफान की अधिकता से २६ महीने पश्चात् निश्चित स्थान पर पहुँच भका (१३५४ई० अथवा १३५१ वै०)। रास्ते में उन दूतों का देहान्त हो गया जो ईरान से आये थे। जब ये तानो मनुष्य उम र्ही को लेकर शाह ईरान के दरवार में हाजिर हुये तो मालूम हुआ कि ‘अरगोन’ (जिसके लिये वह र्ही लाई गई थी) मर गया अतएव उस र्ही की शादी तलकालीन शाहनशाह, ‘कीखातू’ के बेटे ‘गाजन’ के साथ कर दी गई। तीनों यात्री ५ मास तक वहाँ रहे। इसके बाद, शाह ‘कीखातू’ का आज्ञापत्र लेकर स्वदेश बेनिस को लौटे। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि शाहनशाह तानार मर गया।

तीनों यात्री ‘तराबज्जन्द’ होते हुये कुस्तुनतुनिया पहुँचे। कुस्तुनतुनिया से ‘नियो पौएट’ और ‘नियोपौएट’ से १२५९ ई० (सन् १३१६ वै०) में बेनिस जा पहुँचे।

मार्कोपोलो पर मकट

इस समय 'वेनिस' और 'जनेवा' दो प्रजातंत्र राज्य थे, जो भरतपर शत्रुता खेलते थे। जोनो ही स्वतंत्र थे और 'लोकाण्ड', कोमिया तथा ज्वम सागर के आस पास के प्रदेश उनके अधिकार में थे। वे एक दूसरे से तथा 'पोसा' के स्वतंत्र राज्य में सर्वदा लड़ा करते थे। जब युद्ध शुरू होता था तो इन राज्यों के घनिकों से, युद्ध की सामग्रियाँ, जहाज़ी बेड़े और सैनिकों के इकट्ठा करने में गहायता माँगी जाती थी। प्रायः सामुद्रिक युद्ध होने से जहाजों का ही अधिक काम पड़ता था। ये जहाज़ बहुत बड़े नहीं होते थे भान्तु किशियों की अपेक्षा अधिक लम्बे चौड़े और मज़बूत होते थे और फौलाद के पतले पत्तरों से जड़कर बनाये तथा लम्बे लम्बे, पतवारों में चलाये जाते थे।

ऐसी ही एक लड़ाई में पोलो वंश को भी सम्मिलित होना पड़ा क्योंकि वह एक प्रभिष्ठ और धनी वंश था। यह लड़ाई एक मन्दिर के लिये हुई थी जो 'मेरेट मच्चा' के नाम से प्रसिद्ध नथा वेनिस ग़वं जनेवा राज्यों की सम्मिलित सोसा पर स्थित था। मार्कोपोलो (जिसकी उस समय अत्यधिक प्रसिद्धि थी) एक जहाज़ी बेड़े का कमाण्डर (नायक) नियत किया गया। अभाग्यवश, वह एक लड़ाई में बन्दी कर लिया गया (जो जनेवा बालों के जहाज़ी बेड़े से हुई थी) — यह लड़ाई 'डलमाशीन' के किनारे पर 'करजोला' (असकर-जोला) द्वीप से १२९८ ई० में हुई थी।

इस भीषण पराजय के पश्चात् (जिसमें ७ हज़ार 'आदमी कैद कर लिये गये थे) मार्कोपोलो बन्दी बनाकर 'जनेवा' भेज

दिया गया। वहाँ उसे कुछ नमय तक कागगृह में रहना पड़ा किन्तु दूसरे साल जब अगस्त १२५१ ई० (अपाहृ १३५६ वै०) में दोनों शज्जों में सन्धि हो गई तो मार्कोपोलो फिर मुक्त करके बैनिस भूज दिया गया। मार्कोपोलो को इससे जो कुछ कष्ट हुआ हो परन्तु यह निश्चित है कि उसके बन्दी होने से संसार का उपकार अवश्य हुआ क्योंकि, यदि मार्कोपोलो 'करज़ोला' अथवा किसी अन्य सामुद्रिक युद्ध में बन्दी न होता—जो इन दोनों गज्जों में हुये थे—तो हमें आज उन देशों के वृत्तान्त कुछ भी मालूम न होते जिसका उसने 'विवरण' लिखाया। जो लोग उसमें उसकी यात्राओं के बारे में कुछ पूछने आते, उन्हें वह बता दिया करता था किन्तु जब वह जनेवा के कागगृह में कैद कर दिया गया तो उसने अपने साथ के एक कैदी 'अस्टीस्यानो' अथवा 'स्टीशैलो' से परिचय प्राप्त किया। स्टीशैलो पीसा नामक राज्य का रहने वाला था और युद्ध में कैद कर लिया गया था। वह एक प्रसिद्ध पंथ लेखक था। उसने मार्कोपोलो की उन दूर दूर की यात्राओं को सविस्तर लिख डालने की आज्ञा भाँगी। यह बात दिसम्बर १२५८ ई० की है।

यद्यपि उस समय के धनिक लोग किसी बात को लिपिबद्ध करना बुरा समझने थे परन्तु मार्कोपोलो ने प्रसन्नता से उसे उन यात्राओं का विवरण लिख डालने की आज्ञा दी थी और अपनी यात्रा की सब बातें उसे बतला दीं तथा 'अपनी डायरी भी उस सहायतार्थ सौंप दी। 'स्टीस्यानो' ने मार्कोपोलो से सुनकर जो विवरण लिखा उससे हमें पूर्वी देशों के वृत्तान्त ज्ञात हुए जिन पर इस समय तक बहुतेरी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। चूंकि मार्कोपोलो ने इस विवरण को अपनी आंदोलन नहीं लिखा थरन् दूसरे के द्वारा लिखाया अतएव प्रायः इस पुस्तक में

मार्कोपोलो का नाम अन्य पुरुष में आया है। जिन स्थानों में उसकी डायरी से कुछ उद्धृत किया गया है, वहाँ वह उच्च पुरुष में भी प्रशुक्त हुआ है।

यात्रा का आरम्भ आरमीनिया के वृत्तान्त

आरमीनिया देश (जो फुरात Euphrat—नदी और 'अरागोट' पहाड़ की धाटी के बीच का देश है) के दो हिस्से हैं :—(१) आरमीनिया कोचक (२) मुख्य आरमीनिया। आरमीनिया कोचक का बादशाह 'सबासट' नगर में रहता है, वह अत्यंत न्यायी और उत्तम शासक है। इस देश में बहुत से मजबूत किले और बड़े बड़े नगर हैं। पृथ्वी अत्यंत उपजाऊ और सभी आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण है। यहाँ दर तरह के पक्षी और पशु पाये जाते हैं। सभी बातें अच्छी हैं परन्तु एक बात ऐसी है जो यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती है—वह यहाँ की जलवायी की खराबी है।

थोड़े दिन पूर्व इस राज्य के कर्मचारी बड़े बार तथा साहसी थे। किन्तु मदिरापान की अधिकता से इस समय ये लोग बिल्कुल शक्तिहीन हो गये हैं। आजकल आपस की लड़ाई में ही इनका दिन बीतता है। समुद्र तट पर 'लायास' (एक लेखक ने इसका नाम 'ज्याज्ह' लिखा है) नामक एक प्रसिद्ध व्यापारिक बन्दरगाह है। मसाले, रेशमी कपड़े, सोना तथा इस देश की अन्यान्य सब बहुमूल्य वस्तुएँ, इस देश के सब भागों से यहाँ बिकने के लिये आती हैं। बेनिस, जनेवा एवं अन्य

स्थानों के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ क्रय-विक्रय करने के लिये आया करते हैं। जो लोग इस देश की यात्रा करने जाते हैं, वे प्रायः इस शहर में अवश्य आते हैं।

तुर्कमानिया (तुकां) में ३ जातियाँ रहती हैं। एक का नाम तुर्कमान है, जो मुहम्मदी हैं। ये लोग विल्कुल जंगली एवं अशिक्षित हैं और पहाड़ों में ऐसी जगह पर रहते हैं, जहाँ किसी का गुजार भी नहीं हो सकता और चरागाहे होती हैं क्योंकि इनका गुजारा सिर्फ मवेशियों पर है। इस देश में तुर्की नस्ल का घोड़ा अच्छा होता है और खच्चर भी। शेष दो जातियों के नाम 'यूनानो' और 'अरमनी' हैं। ये लोग कला-कौशल और व्यापार में बहुत बढ़े हुए हैं। यहाँ संसार में सबसे अच्छे कलालीन बनते हैं। ये लोग अनेक नगरों और क्लस्बों में आवाद हैं जिनमें मुख्य २ नगरों के नाम 'कोगानो', 'अकोनियम', 'कैसरिया' और 'साबासट' (जहाँ सेंट ब्लेस मसीह के लिये शहीद हुए थे) हैं। इनका शासक एक तातारी राजा है।

मुख्य अरमनीनिया एक बड़ा देश है। इसमें बहुत से शहर और क्लस्बे हैं। इसकी राजधानी 'अरज़ंगा' (अरज़ंगान) है। (एक अन्य लेखक ने इस शहर का नाम अरज़ोस्यां लिखा है) यहाँ दुनिया भर में सबसे अच्छा म्यान बनता है। यहाँ गर्म पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें नहाने से स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस देश में 'अरमनी' नस्ल के लोग बसे हुए हैं। राजधानी के अतिरिक्त 'अरसौरोन' और 'दारफैज' भी बहुत बड़े शहर हैं। ग्रीष्म ऋतु में बहुत से तातारी अपने मवेशियों और भेंडों के गल्लों को लेकर यहाँ के हरे-भरे मैदानों में आ जाते हैं और फिर शरद ऋतु में,— जब बर्फ अधिक गिरने

लगती है कुछ दिनों के लिये लौट जाते हैं। पीरनथगढ़ भूमि जो तराबजन्द और तारस या उत्तरी रूम के रास्ते में है (जिसे इस समय बेरूत कहते हैं) चौदी की खाने हैं। इसलाग धर्म की यह एक किम्बदन्ति है कि नूह के टूकान के समय हजारत नूह की किस्ती आरम्भिनिया के अराट पहाड़ी की चोटी पर ठहरी थी किन्तु १७००० फीट ऊँचा होने और सर्वदा बर्फ से ढके रहने के कारण किसी को साहस न हुआ कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़े और किस्ती का पता लगाये।*

इस देश के दक्षिण में मूसल का राज्य है जिसमें 'याकूबी' और 'नस्तूरी' सम्प्रदाय के इसाई रहते हैं। पहाड़ों में 'कुर्द' और 'अरमनी' जातियों के अतिरिक्त अरबी जाति के लोग (जो मुहम्मदी हैं) पाये जाते हैं। कुर्द लूट मार करके जीवन निर्वाह करते हैं। इस देश में एक इसाई महन्थ भी रहता है जिसे 'जेकोल्ट', 'जैतोलिक' अथवा 'कैथलिक' कहते हैं। वह उपदेशकों को चुन २ कर इसाई धर्म का प्रचार करने के लिये दूसरे देशों में भेजता है। इस देश के उत्तर में जार्जिया स्थित है जिसको सोमा पर तेल का एक स्राता पाया जाता है। यह तेल खाने के काम में नहीं आता बरन् जलाने और अन्य कामों में। लोग दूर दूर से आकर उसे ले जाते हैं क्योंकि उस देश में और किसी प्रकार का तेल नहीं पाया जाता। 'सोते से तेल इतनी अधिकता के साथ निकलता है कि एक

* सन् १८२६ई० में एक जर्मन यात्री प्रोफेसर पेरट इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ा था।

१—कथाचित यह वही वशमा है जो कास्पियन सागर के पश्चिमी सट पर बाहु प्रायद्वीप में है और अब रूस के अधीन है।

जार में १०० जहाज भर लिये जा सकते हैं। 'जार्जिया रस्सि' का एक सूचा है। जार्जिया-निवासी सुन्दरता, बाण-विद्या और सैनिक कार्यों के लिये प्रसिद्ध हैं। वे क्राफ़ पर्वत के वास्तविक निवासी हैं। शताब्दियों तक पूर्वी देशों के शासक इस देश से व्याह के लिये खूबसूरत औरतें लाते रहे। ये लोग यूनानियों के ढंग के एक विचित्र धर्म को मानते हैं और छाँटे हुये बाल रखा करते हैं। प्राचीन समय में यहाँ के सम्पूर्ण बादशाहों के भस्तक पर आकाश की शकल बनी होती थी।

जार्जिया का बादशाह 'डेविड' है। प्राचीन समय में यहाँ के बादशाहों का नाम डेविड ही होता था जैसे कि शताब्दियों तक रोम के राजा कैसर कहलाते थे। यह वही देश है जिसे पार करके सिकन्दर, पोनेराट (तातारियों का पश्चिमी राज्य) में प्रवेश करना चाहता था किन्तु उसे पार न कर सका क्योंकि एक ओर समुद्र तथा दूसरी ओर ऊँचे २ पर्वत एवं उनके बीच की तंग घाटियाँ थीं। उसने इस स्थान पर दूसरी ओर के लोगों को अपने ऊपर आक्रमण करने से रोकने के लिये एक सुदृढ़ मीनार बनवाई जिसका नाम 'लोहे का फाटक' पड़ा और जिसे 'हड़ सिकन्दरी' कहना उपयुक्त होगा। अरब निवासी इस फाटक को 'बाबुल अबवाब' (फाटकों का फाटक) कहते हैं। इस घटना का वर्णन सिकन्दर की पुस्तक में भी यों पाया जाता है कि उसने दो पवर्तों के भध्य में तातारियों को किस प्रकार बन्द कर दिया। इस प्रान्त में एक प्रकार की लकड़ी उत्पन्न होती है, जिसे 'बैक्स' कहते हैं। इससे अनेक प्रकार की सुन्दर नकाशादार चीजें बनाई जाती

१—यह देश कार्तियन सागर और बाले सागर के बीच में है। उसका घेय २८०० मील है।

हैं। यहाँ आनेक प्रसिद्ध नगर और कसबे हैं जिनमें रेशमी और जरी के कपड़ों की दस्तकारी होती है। यहाँ का बाज़ दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। सभी लोग कारीगर और व्यापारी हैं। यह पर्वतीय देश घाटियों और सुहृद गढ़ों के कारण ताता-रियों से कभी पराजित न हो सका। इस देश में कुवाँरी इसाई युवतियों की एक सभा है जो “सेन्टल्यूनार्ड ज़कोबी नंस आफ नट्स” के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सम्बन्ध में एक विचित्र घटना यहाँ लिखी जाती है :— “गिरजे के समीप ही पर्वत से सटी हुई एक झील है जिसमें सिवाय लेणट (रोजे के दिन :— ईस्टर से ४० दिन पहले से आरम्भ होता है) के वर्ष के और किसी महीने में मछलियाँ दिखलाई नहीं पड़तीं। लेणट के पहिले ही दिन अत्यन्त सुन्दर २ मछलियाँ पानी पर तैरती हुई दिखलाई देती हैं। और वे ईस्टर (ईसामसीह के द्वितीय बार जीवित होने का दिन) की संध्या तक रहती हैं।” यह एक बड़ी आश्र्यमयी घटना है। इस देश के पर्वत से जो झील भिली हुई है उसका नाम ‘बहरे गैलौं’ (कास्पियन सागर) है। और ७०० मील तक चली गई है। यहाँ का रेशम प्रसिद्ध है जिसे गौली कहते हैं। यह रेशम बहुत सुन्दर होता है।

वगदाद—एक बड़ा ऐश्वर्यशाली तथा सुन्दर नगर है। यह सम्पूर्ण इस्लाम संसार की राजधानी था। यहाँ ‘दाहलाअल्लूम’ (विद्यापीठ) है जिसमें प्रत्येक विपय की उच्च शिक्षा दी जाती है। नगर के बीच में होकर एक नदी हिलोरे मारती हुई चली गई है। अगणित व्यापारी प्रतिदिन क्रय-विक्रय के लिये यहाँ आते हैं। यहाँ प्रायः रेशमी और जरदोजी के बछ बुने जाते हैं जिनपर पक्षियों और जानवरों के काल्पनिक चित्र खिचे होते हैं। इन्हें ‘नासज’ और ‘नाख’ कहते हैं। वगदाद से

चलकर अठारह दिन की यात्रा के पश्चात् 'क्लैस' नगर आता है। यहाँ से हिन्दमहासागर में प्रवेश करते हैं। बरादाद से 'क्लैस' तक एक नदी चली गई है और इसके तट पर 'बसरा' नामक एक नगर बसा हुआ है जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ का छुदारा (एक मेवा जो सूखे बेर की तरह हीता है) प्रसिद्ध है। हलाकू खां (जो पूर्व में तातारियों के देश का शासक है) सन् १२५५ ई० में एक बड़ी भारी सेना लेकर इस 'बरादाद' पर छढ़ आया और आक्रमण करके इसपर अधिकार कर लिया। उस समय बरादाद में ज्यादों के अतिरिक्त केवल एक लाख सवार थे। जब हलाकू खां ने 'खलीफा' के महल पर अधिकार कर लिया तो उसे वहाँ इतना अधिक धन तथा हीरे जवाहिर मिले कि उसकी आँखें चकरा गईं। उसने 'खलीफा' से पूछा कि "तूने इतना बड़ा खजाना क्यों इकट्ठा किया? तू इससे क्या काम लेता? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं तेरा शत्रु हूँ और तेरे देश को लेने आ रहा हूँ? तूने उसे सेना और सरदारों में क्यों नहीं व्यय किया जिससे कि तेरे देश की रक्षा की जा सकती थी?" खलीफा ने कुछ उत्तर न दिया। इस पर हलाकू खां ने उससे कहा:—“खलीफा! चूंकि तुम्हे धन से प्रेम है अतपव तुम्हे वही खाने को मिलेगा।” इसके पश्चात् उसने खलीफा को खजाने में बन्द कर दिया। वह चार दिन कैद में रह कर मर गये। इस खलीफा का नाम 'बिल्ला' था।

बरादाद राज्य के सूबे इराक में एक बड़ा भारी शहर 'तमरेज' है। यहाँ शिल्प और व्यापार का काम बहुत अधिक होता है और लोग सुन्दर एवं बहुमूल्य रेशमी तथा चारदोजी के कपड़े बुनते हैं। व्यापार में यह शहर बहुत बड़ा हुआ है। जनेवा भारतवर्ष, बरादाद, गजमीर तक के व्यापारी इकट्ठे होते हैं।

यहाँ कई नस्ल के लोग पाये जाते हैं। 'आरमनी,' 'नरतूरी,' 'याकूबी,' 'ज़रज़ानी,' 'ईरानी' और 'मुहम्मदी'। शहर के चारों ओर दूर दूर तक सुन्दर बगीचे हैं जिनमें अनेक प्रकार के मेवे पाये जाते हैं। मुसलमानों के ज़माने में यह नगर दार्शनिकों, ज्योतिषियों, डितिहासकारों तथा धर्मज्ञों का एक विशेष स्थान हो गया था। 'तबरेज़' की सीमा पर इसाइयों के एक मान्य उपदेशक रहते हैं। उनके साथ एक महन्थ और कई और उपदेशक भी होते हैं। वे ऊनी पट्टियाँ बुनते हैं और जब भिक्षार्थ बाहर निकलते हैं तो लोगों को बाँट देते हैं। क्योंकि उनसे शरीर की पीड़ा दूर हो जाती है।

ईरान का वृत्तान्त

फारस या ईरान किसी समय में बड़ा बलवान और उन्नत देश था। उसमें एक शहर है जिसे 'सावा' कहते हैं। यह नगर 'तेहरान' (ईरान की राजधानी) से ५० मील दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। यहाँ तीन मक्कबरे हैं जिनमें लाशें जैसी की तैसी रक्खी हुई हैं। उनके बाल और दाढ़ियों में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने पाया है। उस देश वाले, उन्हें तीन बादशाहों की कब्र मानते हैं। इस नगर से एक दिन के रास्ते पर १६ मील दक्षिण पूर्व में एक नगर 'आवा' है जहाँ अभिपूजक लोगों का एक सुहङ्ग किला है। यहाँ मार्कोपोलो को ज्ञात हुआ कि ये मक्कबरे उन तीन आदमियों के बताये जाते हैं जो मसीह की उत्पत्ति का सितारा देख कर उसके दर्शन को गये थे। उनके नाम 'यास्पर,' 'मल्कायर' और 'बेलगरर' बताये जाते हैं (भिन्न भिन्न जगहों में उनके नाम भी अलग अलग हैं)। इसके सम्बन्ध में एक किम्बद्वन्ती सुनी जाती है। कहा जाता है कि ये तीनों आदमी क्रम से सोना, लोहबान और मुर ले करके इस-लिये चले कि यदि मसीह में ईश्वरीय शक्ति है तो वह लोहबान, यदि हक्कीम है तो मुर और यदि बादशाह है तो सोना ले लेंगा। जब वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मसीह पैदा हुआ था तो सब से छोटा यात्री अन्दर गया और उसे अपनी उम्र का पाया। यही हालत दूसरे और तीसरे के जाने पर भी हुई, परन्तु जब सब मिल कर एक साथ उसे देखने अन्दर गये तो उसे एक बच्चे की

तरह खेलता हुआ पाया । सब को बड़ा आश्चर्य हुआ । तीनों को चीजें (सोना, लोहा और मुर) उसने स्वीकार कर लीं जिससे सब ने समझा कि वह सच्चा शक्तिमान, सच्चा आदशाह और सच्चा हकीम है । मसीह ने उन्हें एक बन्द डिन्हा दिया जिसे लेकर वे लौट गये । कुछ दूर जाने पर उनकी उत्कण्ठा अत्यन्त तीव्र हुई कि देखें इसमें क्या है ? खोलने पर उसमें से एक पत्थर निकला । उनको समझ में न आया कि इस पत्थर का क्या अर्थ है । लोगों का ख्याल है कि उससे यह मतलब था कि 'जो विश्वास तुम्हें उत्पन्न हुआ है वह चट्टान को तरह हड़ और चिरस्थायी हो ।' उन्होंने उस पत्थर को कुँए में छोड़ दिया । कहते हैं कि उसी समय आसमान से एक प्रकार की आग निकल कर उस कुँए पर उतरी । वे तीनों इस घटना को देख कर बहुत भयभीत और चकित हुए और पत्थर के इस तरह खो देने पर अकसोंस करने लगे । कहा जाता है कि उस आग का बड़े आदर के साथ ले जाकर उन्होंने एक पवित्र स्थान पर रखा । वह स्थान 'किला गवरा' कहलाता है जहाँ वह अग्नि बराबर जलती रहती है, कभी बुझती नहीं । पारसी लोग उसे ईश्वर की एक ऊँची शक्ति मान कर उसकी पूजा करते हैं । यदि आग कभी बुझ जाती है तो आस पास के किसी अन्य स्थान से (जहाँ उसी विश्वास के आदमी भिलते हैं) आग लाकर बड़ी धूमधाम से वहाँ फिर स्थापित की जाती है । तीनों आदमियों में सं एक 'साधाह' दूसरा 'आव' और तीसरा 'गवरा' का रहने वाला था । उस देश के लोगों में अग्नि पूजा की उत्पत्ति के विषय में यही किम्बदन्ती प्रचलित है । परन्तु इस घटना में बहुतेरी बातें ऐसी हैं जिनसे उस घटना की निस्सारता सिद्ध होती है । एकाएक विश्वास करने को जी नहीं चाहता ।

ईरान एक बड़ा देश है। इसमें आठ सूचे हैं—^(१) (१) इराक
 (२) कुर्दिस्तान (३) लोरिस्तान (४) शलम्तान (५) तेहरान
 (६) शीराज (७) मध्य ईरान (८) शाबं गारह। फारस के
 घोड़े प्रसिद्ध हैं किन्तु गधे, घोड़ों की अपेक्षा, अधिक अच्छे और
 बड़े होते हैं जो भारत की परिचमी सीमा पर बंचे जाते हैं। इस
 देश के लोग लालची, चोर, खर्न करने याले होते हैं। यहाँ प्रति
 दिन हत्यायें हुआ करती हैं और सौदागर लूटे जाते हैं। ये लोग
 इस्लाम धर्म को गानते हैं। बड़े शहरों के निवासी व्यापारी और
 कारीगर हैं, वे रेशम और जारदोजी का काम अच्छा करते हैं। इस
 देश में गेहूँ, रुई, जौ, बाजरा, शराब, मेवे और रेशम के कीड़े
 बहुत पैदा होते हैं। यजो (याजावो) एक बड़ा और ऐश्वर्यशाली
 नगर है। यहाँ व्यापार बहुत अधिक होता है। रेशम की दस्तकारी
 खूब होती है। यजो से आगे बढ़ने पर एक बड़ा मैदान है जिसमें
 अच्छे अच्छे मेवे लगे हुए हैं। 'यजो' से आगे चलकर ७ मंजिल
 अर्थात् १५५ मील का मैदान पार करने पर 'किरमान' मिलता
 है। 'किरमान' में ईरान के बादशाह की ओर से एक अफसर
 रहता है। यहाँ फीरोजा तथा अन्य बहुमूल्य मणियाँ पहाड़ से
 निकलती हैं। यहाँ फौलाद (जो हिन्दवान के नाम से प्रसिद्ध है)
 भी निकाला जाता है। निवासी शिल्पकार हैं। कच्च, जोन,
 लगाम, तलवार, धनुप, तरकस और हर प्रकार के हथियार
 अच्छे बनते हैं। स्त्रियाँ, लड़कियाँ विभिन्न रंग के रेशमी बख्तों पर
 सूचीकारी का काम करती हैं, और उनपर बेल-बूटे हस्तादि
 बड़ी सुन्दरता से बनाती हैं। परद, तकिये, सोशक, रजाइयाँ
 बहुत अच्छी बनती हैं। पहाड़ों पर अच्छे बाज़ पाये जाते हैं।
 किरमान से चलकर ८ दिन की यात्रा के बाद (जिसमें एक हरा-
 भरा और उपजाऊ मैदान तथा अनेक सुन्दर कसबे मिलते हैं)

एक पहाड़ के पास पहुँचते हैं। पहाड़ को पार करके एक ढालुओं मैदान मिलता है जिसे पार करने में दो दिन लगते हैं। इसके बाद एक चौड़े मैदान में 'कमाऊं' या 'कमान्दो' (हम्मी या हमदान जो बादशाह ओकयानूस डेक्टस के अधिकार में हैं) में जा पहुँचते हैं। यहाँ जाड़े के दिनों में पिस्ता, बादाम, सेब, नासपाती तथा अंगूर इत्यादि बहुत होते हैं।

यहाँ के बैल ऐसे सुन्दर और मजबूत होते हैं कि दुनियाँ के किसी और हिस्से में नहीं होते। यहाँ की भेड़ गधे के बराबर और उसकी हुम चक्कों के पाट की सी होती है। यहाँ एक दोगली जाति निवास करती है जो पथिक समूह पर डाका डाल कर अपना निर्वाह करती है, उसका नाम 'करोना' अथवा 'करानी' (दोगल) है। ये लोग घोड़ों पर सवार होकर समूर्ध देश में फैल जाते हैं, पशु और मनुष्य जो मिलता है, उसे पकड़ लेते हैं। औरतों और मर्दों को गुलामों (दास) को भाँति बेच डालते हैं। जिस देश में होकर ये निकलते हैं उसे नाश ही कर डालते हैं।

इन डाकुओं का सरदार 'नुकदर' कहलाता है। यह अपने चचा चगताई खां के यहाँ रहा करता था। कुछ दिनों के पश्चात् चचा का घर छोड़ कर और सवारों की एक बड़ी सेना ले 'बदख्षां', 'पाशायदेर' और 'हरदरी' (सिंध और पंजाब की सीमा पर है) को लूटता उजाड़ता हुआ सूचा 'बाल्योर'^{१५} में

* बाल्योर—मार्स्टन साहब लिखते हैं कि यह लाहौर है। 'लानीकफ' और टाड साहब के मत से यह 'बाल्योर' भावलपुर रियासत में एक गाँव है। जेनरल कनिंघम लिखते हैं कि यह भेलम नदी के निवारे दरियापुर के पास एक गाँव है। इसमें जेनरल कनिंघम और मार्स्टन के हो मत हमें ठीक जान पड़ते हैं क्योंकि जो प्रान्त 'नुकदरलों' ने विजय किये थे, लाहौर भी उनमें था। (१२६० ई०)

पहुँच गया। उसे जीत कर देहली के मुलतान रायासुदीन बलबन से शासन की बागडोर छीन अपने हाथ में ले ली। मार्कोपोलो के मुएड को भी उसने लूटा था किन्तु मार्कोपोलो उसके हाथ नहीं लगा। उसने 'कौसाली'—ग्राम में भाग कर अपनी रक्षा की। उसके साथ के लगभग सभी मनुष्य मार डाले गये।

'कौसाली' ग्राम के बाद फिर एक मैदान आता है जिसका रास्ता ५ दिन का है। इसमें डाकुओं की अधिकता है। इस मैदान को 'रुदधारुल अस' ('रुदखाना' धाटी जो रुदवार के समीप है) कहते हैं। इसके पश्चात् 'फारमूस' नाम का एक बड़ा मैदान मिलता है जो सुन्दर प्राकृतिक हृश्यों—सरिताओं और निर्झरों से अत्यंत शोभाशालो होगया है। इस मैदान में नाश-पातो, सेब, नारंगी, अंगूर और केले इत्यादि के वृक्ष हैं, जिनमें फले हुए फलों पर बैठे हुए सुन्दर पक्षी किलोल किया करते हैं। इस मैदान को दो दिन में पार करके समुद्रतट 'हुरमुज' (यह बन्दरगाह वर्तमान 'बन्दर अब्बास' के निकट था) बन्दर में पहुँचा जहाँ जहाँ और व्यापारियों का जमघट लगा रहता है और जहाँ से बहुमूल्य रक्खादि, रेशमी कीपड़े, हाथीदाँत और मसाले भारतवर्ष को भेजे जाते हैं। यह अनेक नगर और कस्बों को राजधानी है। बादशाह का नाम हक्कुदीन अहमद (इसका दूसरा नाम फखुदीन अहमद भी पाया जाता है) है। यहाँ की रीति है कि जो व्यापारी गरमी की अधिकता से यहाँ मर जाते हैं, बादशाह उनके माल पर अधिकार कर लेता है। खजूर और मसाले से यहाँ एक प्रकार की शराब बनती है जिसके पीने से पहले तो दस्त होने लगते हैं, और फिर आदमी धीरे धीरे नीरोग तथा स्वस्थ हो जाता है। यहाँ के निवासियों में यह विवितता है कि वे तनुहस्ती की अवस्था में कभी मांस-

और गेहूँ की रोटी नहीं खाते क्योंकि ऐसा करने से वे बीमार हो जाते हैं। परन्तु बीमारी की हालत में वे इसे अवश्य खाते हैं। उनका साधारण और वास्तविक भोजन खजूर, मछली और प्याज है। इन लोगों के जहाज भज्जबूत न होने के कारण तूफान का सामना नहीं कर सकते। उनमें यात्रा करना बड़े जोखिम का काम है क्योंकि वे प्रायः समुद्र में छूट जाते हैं। यहाँ के लोग भारतवर्ष से नारियल के रेशे मँगा कर रसियाँ बनाते और उससे बाँध कर जहाज के तरले मिलाते हैं। यहाँ के निवासी प्रायः मुसलमान हैं। इनका रंग काला होता है। गरमी के दिनों में ये लोग शहर छोड़ देते हैं क्योंकि गरमी बहुत अधिक पड़ती है, दिनभर जहरीली लू चला करती है। लोग पानी के अन्दर घुसकर जान बचाते हैं, ऐसा न करें तो मर जायें।

मार्कोपोलो ने एक घटना लिखी है जिससे उस विपैली लू की ताकत का कुछ अनुमान किया जा सकता है। वह लिखता है :—

“शाह हुरमुज़ ने शाह किरमान को कर नहीं दिया था। शाह किरमान ने सोचा जब नगर निवासी नगर छोड़ कर चले जाते हैं उस समय एक बड़ी सेना भेज कर वसूल किया जावे अतएव ५६०० सवार और पांच हजार प्यादे नियत समय पर भेज दिये गये। पथ प्रदर्शक (रहबर) की भूल से वे वास्तविक रास्ते को भूलकर दूसरी ओर जा निकले और एक उजाड़ स्थान में डेरा डाल दिया। प्रातःकाल दस बजे के लगभग जब वे यात्रा कर रहे थे ‘समूम’ (जहरीली लू और आँधी भिश्रित हवा) ने उन्हें आ देरा। असह गरमी से दम घुट जाने के कारण उनमें से एक भी जीता न बचा और यों सिर्फ़ कठिन गरमी के कारण

सात हजार आदमी मर गये। जब 'हुरमुज' लिवासियों ने यह खबर सुनी तब उन गरमी से मरे हुए लोगों को दफन करने को इसलिये वहाँ पहुँचे कि कहाँ उनकी लाशों के रह जाने के कारण बीमारी न फैले। वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह सेना दम घुट जाने के कारण मरी हुई पड़ी थी किन्तु जब लाशों के बाजू पकड़ कर गढ़े की तरफ घसीटने लगे तो उनके रुगड़ (धड़) जो बिलकुल भुन गये थे, भुजाओं से अलग हो गये! अतएव लोगों ने लाशों के पास ही गढ़े खोदकर उन्हें दफन किया।" संसार के इतिहास में गरमी की असहायता का इससे बढ़कर और कोई उदाहरण मिलना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव है।

"इस देश में गेहूँ, जौ और अन्य अनाज नवम्बर में बोये तथा मार्च में काटे जाते हैं। ख़जूर की फसल मई मास में होती है। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी स्त्री को चार साल तक प्रतिदिन एक बार शोक मनाना पड़ता है। यह मात्रम रखनी औरतों से भी कराया जाता है। 'किरमान' और 'हुरमुज' के मध्य में एक सुन्दर मैदान है। भोजन की बस्तुएँ सस्ती हैं किन्तु यहाँ का पानी इतना अधिक कड़वा है कि जो भोजन इस पानी से बनाया जाता है वह भी कड़वा ही जाता है। यहाँ ऐसे स्नानागार भी बनाये जाते हैं कि जिनमें नहाने से स्वास्थ्य सुधरता है। पेट का दर्द और फोड़े इत्यादि अच्छे हो जाते हैं। 'किरमान' से आगे बढ़ने पर एक बालुकामय उजाड़ मैदान पड़ता है जिसे 'लूटका रेगिस्तान' कहते हैं। यह तीन दिन में समाप्त होता है। इस रेगिस्तान में पानी, मसुद्य और जानवरों का नाम तक नहीं है। केवल एक सोता भिलता है जिसे 'हुद' कहते हैं। उसका पानी इतना कड़वा है कि पिथा नहीं जाता। यदि पी भी लिया जाय तो मनुष्यों और पशुओं का दस्त आने लगते हैं। जानवर तो प्रायः

मर हो जाते हैं। इसके पार करने के पश्चात् एक सुन्दर भूमि, तथा मोठे और ताजे पानी का एक चश्मा (सोता) मिलता है जिसकी सतह पर कहाँ कहाँ छेद होते हैं। यह चश्मा थके माँदे मुसाफिरों का बड़ा आराम देता है। इसके पश्चात् एक और उजाड़ खण्ड मिलता है जो चार दिन में समाप्त होता है और ठीक पहले रेगिस्तान को तरह है किन्तु इसमें जंगली गधे मिलते हैं। इस मैदान को पार करके मुसाफिर शहर 'कोहबुनान' (किवियान) में जा पहुँचते हैं।

अन्य देशों का हाल

‘कोहबुनान’ एक बड़ा नगर है। निवासी मुसलमान हैं। यहाँ लोहा और फोलाद बहुत अधिक पाया जाता है। बड़े बड़े सुन्दर आइने (दर्पण) बनाये जाते हैं। तूतिया भी तैयार किया जाता है। एक प्रकार को मिट्टी यहाँ खानों से निकाली जाती है, इसे आग की भट्टी में रखकर आग लगा देते हैं। भट्टी के ऊपर लोहे का जंगला लगा होता है। इस मिट्टी में से जो भाप धुआँ निकलकर जंगले में बैठ जाती है उसी को तूतिया कहते हैं। यह आँखों के लिए अत्यन्त लाभदायक है।

‘कोहबुनान’ से चलकर ‘तन व कोन’ सूबे तक पहुँचने में एक उजाड़ खण्ड से होकर ८ दिन तक यात्रा करनी पड़ती है। इस उजाड़ भूखण्ड में वृक्ष नहीं मिलते। पानी बहुत कड़वा होता है अतएव ताजा खाना और पानी यात्री अपने साथ ले जाते हैं। सूबा ‘तन व कीन’ के बृहत् मैदान में एक ‘अरबरी सूल’ पाया जाता है जिसे लोग ‘अरबरी सेक’ भी कहते हैं। यह एक लम्बा और मोटा वृक्ष होता है। इसकी छाल एक ओर को काली और दूसरी ओर सफेद होती है। लकड़ी पीली होती है। इसके आसपास सौ सौ मील तक वृक्ष दिखलाई नहीं पड़ते। केवल एक और दस मील के अन्तर पर तुम्हें कुछ छोटे वृक्ष मिलेंगे। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर सानाट सिकन्दर ने दारा को पराजित किया था।

इस सूबे के नगरों और देहातों में प्रत्येक वस्तु अधिकता के साथ उत्पन्न होती है। निवासियों का मज़ाहब इस्लाम है। ये लोग दुनिया-भर में सब से खूबसूरत होते हैं।

इसके पश्चात् एक देश आता है, जहाँ प्राचीन समय में एक नास्तिक रहा करता था; इसीलिए उसका नाम 'मसकिन मुलाहदा' पड़ गया क्योंकि मसकिन फारसी में निवास-स्थान को कहते हैं। वह अपने को 'शेखुल जब्बाल' के नाम से पुकारता था। उसका नाम वास्तव में अलाउद्दीन था और वह मुहम्मदी धर्म का अनुयायी था। वह कहा करता था कि मुहम्मद साहब ने मुझे एक विहिष्ट (स्वर्ग) देने का वचन दिया था और वह मुझे मिल गया। उसके समीप के मुसलमान उसके मकान को ही स्वर्ग समझते थे। उसने दो घाटियों के मध्य एक सुंदर उपवन बनवाया था जिसमें अनेक प्रकार के भेंटे और फल फूल पाये जाते थे। उसका मकान अत्यन्त सुंदर था। गृह-कौशल दर्शनीय था। दीवारों पर अनेक प्रकार की लतायें बेलबूटे की काढ़ी गयी थीं। नलों द्वारा मकान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पानी, दूध, शराब और शहद भेजा जाता था, सर्वदा नाच-रंग हुआ करता था। सुंदरी युवतियाँ प्रत्येक समय वहाँ उपस्थित रहती थीं जो हर तरह के बाज़ बजा सकती थीं तथा अच्छी तरह नाच गा सकती थीं तथा दर्शकों का प्रसन्न रखने में सब प्रकार समर्थ थीं।

इस बाटिका में केवल वही लोग आ सकते थे जोकि भाँग पीना स्वीकार कर लेते थे। बाटिका में जाने का केवल एक रास्ता था किन्तु उस दरवाजे पर उसने एक ऐसा सुहृद किला बनवाया था कि उसे सारी दुनिया भी नहीं अधिकृत कर सकती थी। उसके दरबार में १२ से २० वर्ष तक की आयु के युवक (जिन्हें

लड़ने भिड़ने से ग्रेम होता था) रहते थे । वह उन्हें स्वर्ग की कहानियाँ सुनाया करता था जिसे वे लोग अत्यंत विश्वास की दृष्टि से देखते थे । वह दो चार आदमियों को भांग पिला कर सुला दिया करता और फिर बेहोशी की अवस्था में ही उन्हें वाटिका में एक सजे-सजाए स्थान पर लिटा दिया करता था । जब वे लोग जागते तो अपने को एक ऐसे विचित्र स्थान पर पाते जहाँ चारों ओर सुंदर वाद्यधनि हो रही है । परियों-सी सुन्दरियाँ नाच रही हैं । मलय समीरण का संचार हो रहा है, अतएव उन्हें विश्वास हो जाता था कि वे बैकुण्ठ में हैं, इस तरह उसने वहाँ के निवासियों के हृदय पर यह बात बैठा दी थी कि “हम नवी हैं” । जब वह किसी आदमी को कहाँ भेजना चाहता तो उसे भंग पिला कर तथा बेहोश करके किले में ले आता, जागन पर वह आदमी अपने को एक ऐसे स्थान पर पाता जो उसके ख्याल से बाहर था और इसलिये वह घबड़ा जाता, इस पर वह अलाउद्दीन के सम्मुख उपस्थित किया जाता । अलाउद्दीन पूछता कि “तू कहाँ से आया है ?” वह जवाब देता कि “बिहिशत (स्वर्ग) से—जैसा कि मुहम्मद साहब ने बताया है ।” इन सब विचित्र बातों के कारण जो लोग अब तक उसमें नहीं प्रवेश कर सके थे, उन्हें भी उसे देखने की इच्छा होती । इस ढंग से उस धोखेबाज अलाउद्दीन ने अपने शत्रु शासकों को दबाने की एक विचित्र युक्ति निकाली थी । जब उसे किसी समान शक्ति वाले शासक को मारना होता तो वह किसी जबान को आझ्ञा देता कि “जाओ, अमुक मनुष्य को मार आओ, लौटने पर फिरिश्ते तुम्हें स्वर्ग में पहुँचा देंगे ।” वह युवक स्वर्ग तक पहुँचने की उत्कृष्टा में सम्पूर्ण कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हो जाता था । इस युक्ति का फल यह

हुआ कि सम्पूर्ण शासक उससे पराजित हो गये और उसे कर देने लगे। उसके दो और भी प्रधान सहयोगी थे जो लोगों को घोखा देकर इन्द्रजाल विखाया करते थे। एक 'बमिशक' और दूसरा 'कुर्दिस्तान' में नियत किया गया था। किन्तु हलाकू खां^५ ने उसके इन अत्याचारों का हाल सुनकर अपने बहुत से सरदार १०७२ई० में उसको पराजित करने के लिये नियत किये जिन्होंने तीन साल तक बराबर किला धेर रखा। जब गढ़ निवासियों के पास भोजन का कुछ सामान न रह गया सेना डारा सरदारों ने गढ़ जीत कर अलाउद्दीन को कळा कर डाला और उस बाटिका को भी अपने अधिकार में कर लिया।

इस किले से आगे चल कर सुन्दर मैदानों, हरी-भरी बाटियों, खूबसूरत पहाड़ियों और मेवदार बगीचों तथा कभी कभी पचास या साठ मील के जलहीन मरुस्थलों में होते हुये ६ दिन पश्चात् 'बुशहर गान' में (जो बलख से ५० मील पश्चिम है) पहुँचते हैं। यहाँ के खरबूजे दुनिया भर में सब से मीठे होते हैं।

यहाँ से आगे चल कर 'बलख' आता है जो एक बहुत बड़ा शहर है। कहा जाता है कि सम्राट् सिकन्दर ने दारा की लड़की से यहाँ शादी की थी।

इसके पश्चात् 'दोगाना' (‘दीहानाह’) पड़ता है। 'बलख' से यहाँ तक पहुँचने में १२ दिन लगते हैं किन्तु रास्ते में आवादी

* जान पड़ता है कि यह कोई दूसरा हलाकू खां था क्योंकि मार्कोंपोलो ने हलाकू खां का हाना तेरहवीं सदी में लिया है। इस गुस्तग में इससे पूर्व दोनों यात्रियों का हलाकू खां से भेंट होना लिया गया है। और ये यात्री १२५५ के लगभग उससे भिन्ने थे ॥

का नाम भी नहीं है क्योंकि डाकुओं के डर से लोगों ने पहाड़ी किलों में निवास-स्थान बना लिया है। इसलिये भाग में शिकार और पानी के अतिरिक्त कोई चीज खाने को नहीं मिलती।

बारह दिन के बाद एक मोरचाबन्द स्थान 'टालीकान' में पहुँचते हैं जहाँ नमक के पहाड़ हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ नमक लेने आते हैं। दूसरे पर्वतों पर बादाम और पिस्ता बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। यहाँ से चल कर तीन दिन पश्चात् एक ऐसा देश आता है जिसमें अंगर, सेब, नासपाती इत्यादि सम्पूर्ण भेवे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं।

आवादी बहुत अधिक है। निवासी सुसलमान हैं किन्तु बड़े झगड़ालू और दुष्ट हैं। शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। सर पर केवल एक छोटी सी रस्सी लपेटे रहते हैं। ये लोग बड़े अच्छे शिकारी होते हैं और जानवरों के खाल के कपड़े तथा जूते बनाकर पहनते हैं। इसके पश्चात् 'कशम' नामक एक नगर आता है। इस शहर में से होकर (जो एक अमीर की राजधानी है) एक बड़ी नदी बहती है। 'कशम' अपने ही नाम के सूबे की राजधानी है। किसान पहाड़ों की कन्दराओं में रहते हैं। यहाँ से चलकर एक ऐसे प्रदेश में से होकर जाना पड़ता है जो बिलकुल उजाड़ है। तीन दिन में इसे पार करके 'बदख्शां' की सीमा में प्रवेश करते हैं।

बदख्शाँ

बदख्शाँ एक ऐश्वर्यशाली राज्य है और बहुत दिनों से एक ही वंश के हाथ में इसका अधिकार चला आता है। यह वंश, सम्राट सिकन्दर और दारा की बेटी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस वंश के लोग अपने को 'जूड़ल करनीन' कहते हैं। इस

राज्य में मुहम्मदी मज़ाहिय के तुर्क, तातारी और अरब वसते हैं जो तुरकी और ईरानी भाषायें बोलते हैं। यहाँ का लाल (हीरे की जाति का एक मणि) प्रसिद्ध है। ये लाल अति सुन्दर एवं बहुमूल्य होते हैं और पास की एक पहाड़ी से निकाले जाते हैं किन्तु अमीर बदखशां को छोड़कर और किसी को इसके खुदवाने को आङ्गा नहीं है। यदि कोई मनुष्य चोरी से ऐसा करे तो पता चल जाने पर उसे जान और माल दोनों से हाथ धोना पड़ता है। अमीर बदखशां इन लालों को उपहार में देता तथा बेचता है।

इस देश में एक पहाड़ है जिसमें से नीलम निकाला जाता है। यहाँ का नीलम संसार में सबसे उत्तम होता है। दो चार पहाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिसमें से कच्ची चाँदी निकलती है। यहाँ के घोड़े अपनी सुन्दरता और तेज़ चाल के लिये प्रसिद्ध हैं और ढालुवे पहाड़ी रास्तों पर काम देते हैं। मार्कोपोलो लिखता है कि इस प्रान्त में सिकन्दर (Alexander) के घोड़ों की नस्ल भी पाई जाती थी जिनके ललाट पर एक विशेष पैदाइशी निशान होता था। बदखशां के अमीर के चचा के अधिकार में यह नस्ल थी। उससे बादशाह ने माँगा। उसने देने से इनकार कर दिया। इस पर बादशाह ने अपने चचा को क़त्ल कर डाला किन्तु उसे घोड़े न मिल सके क्योंकि उसकी विधवा चाची ने उन घोड़ों को क़त्ल करवा दिया। सम्राट सिकन्दर के इन घोड़ों के सम्बन्ध में एक किम्बद्वन्ती सुनी जाती है कि “एक कन्दरा में आकाश लोक से उतर कर हरसाल एक घोड़ा आता था। उस घोड़े के पास लोग अपनी अपनी घोड़ियाँ लाकर छोड़ जाते और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसे ले जाते थे।” यह कहानी चीनियों को किम्बद्वन्तियों में से एक है।

इस देश के पहाड़ों में तेज़ बाज़, नाना प्रकार के पश्च और

पक्षी, गेहूँ, जंगली भेड़ और बे छिलके के जौ पाये जाते हैं। इन सम्मिलित पहाड़ियों की चोटी पर एक मैदान है। एक दिन की चढ़ाई में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस बृहत् मैदान में पौदे पाये जाते और अगणित सोते बहते हैं जिनमें भिन्न भिन्न, प्रकार की मछलियाँ होती हैं। हवा ऐसी स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है कि जो लोग पहाड़ के नीचे ज्वर इत्यादि रोगों से पीड़ित रहते हैं, वे पहाड़ के ऊपर के इस मैदान में चले जाते हैं और दो तीन दिन में स्वास्थ्य लाभ कर नीचे चले आते हैं। मार्कोपोलो अपनी डायरी में लिखता है कि “मैंने स्वयं अपनी बीमारी की अवस्था में इसका अनुभव किया था।”

इस देश के शहर और कस्बे प्रायः पहाड़ों पर होते हैं। घाटियों, रास्तों तथा दरों के दुर्गम होने के कारण लोगों को बाहरी आकर्मण का कुछ डर नहीं है। निवासी अच्छे तीरन्दाज तथा शिकारी हैं। प्रायः लोग जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं क्योंकि कपड़े वहाँ बहुत कम हैं तथा बहुत महँगे बिकते हैं। स्त्रियाँ धेरेदार बड़ा पाजामा पहनती हैं।

बदख़शां के दक्षिण में ‘पाशायदेर’ नामक प्रान्त है। बदख़शां से दस दिन की यात्रा में वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ के निवासी गन्दुमी (गेहूँ के सदृश) रंग के होते हैं। ये मूर्तिपूजक हैं। जादू और भूतप्रेत पर विश्वास करते हैं। पुरुष कानों में सोने की बालियाँ और गले में जवाहिरात जड़े सोने चाँदी के जुगन् पहनते हैं। ये लुटेरे और धोखेबाज हैं। यह देश अत्यन्त गर्म है। यहाँ से चल कर ७ दिन की यात्रा के पश्चात् दक्षिणपूर्व में काश्मीर सूखे में पहुँचते हैं।

कश्मीर में भी मूर्तिपूजक हैं। इनकी भाषा अलग २ है। ये

जादू और प्रेत विद्या के बड़े जानकार हैं। प्रेतों के द्वारा ये कितनी ही बातें मालूम कर लेते हैं। जादू से वह अस्तुगँ बदल देते, अन्धकार उत्पन्न कर देते तथा अनेक प्रकार की विचित्र बातें (जो असम्भव सी जान पड़ती हैं) कर दिखाते हैं। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि सब से पहले हर्मीं लोगों ने दुनियाँ में मूर्ति पूजा का प्रचार कियागँ। यहाँ के मर्द दुबले पतले और गन्दुमी रंग के होते हैं किन्तु खियाँ उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा सुन्दर होती हैं। जलवायु उत्तम है। यह देश पहाड़ी है और अगम्य घाटियों तथा दरों के कारण बाहरी हमलों से सुरक्षित है। निवासी स्वतंत्र प्रकृति के हैं तथा सुखपूर्वक जीवन निर्बाह करते हैं। यहाँ एकान्त वासी योगी पाये जाते हैं जो संयम, इन्द्रियनियन्त्रण, उपासना तथा सन्तोष के साथ दिन बिताते हैं। उनकी आयु प्रायः लम्बी होती है और उन्हें लोग शुद्ध और निष्पाप समझते हैं। यहाँ के निवासी खून और बलि नहीं करते। यदि मांस कभी खाने भी हैं तो पड़ोसी मुसलमानों से कटवा कर। ये मुँगा बहुत पसंद करते हैं। किसी समय कशमीर में बुद्ध धर्म का बड़ा जार था। हर्ष देव यहाँ का प्रसिद्ध राजा होगया है।

बदखशाँ से समरकंद

मार्कोंपोलो लिखता है कि ‘‘इसके पश्चात् मैं बदखशाँ गया और वहाँ से उत्तर पूर्व की ओर रवाना हुआ। बारह दिन

*प्रसिद्ध पुस्तक ‘तारीक़ फिरिशता’ में एक स्थान पर लिखा है कि “काश्मीर, जादू, मूर्तिपूजा और काल्पनिक शंकाओं का विता है।” यद्यपि इस लेल से मार्कोंपोलो के बर्यन का समर्थन होता है किन्तु हम इसे ठीक नहीं मान सकते।

की यात्रा के पश्चात् (जिसका मार्ग अमीर बदखशां के देश में से होकर जाता है) एक छोटे से देश में जा पहुँचा और वहाँ से लगातार ३ दिन चलकर 'घस्तान' में प्रवेश किया। यहाँ के निवासी मुहम्मदी और बड़े बीर सैनिक होते हैं। उनका सरदार अमीर बदखशां का कर्मचारी है। इस देश में हर तरह के जंगली रक्तलोलुप हिंसक पशु पाये जाते हैं। यहाँ से उत्तरपूर्व चलकर ३ दिन की पहाड़ी यात्रा के पश्चात् मैं उस उच्च स्थान पर पहुँचा जिस 'बामे दुनिया' अर्थात् "संसार की छत" कहते हैं। इस जगह दो पहाड़ियों के बीच एक झील है जिससे एक नदी निकलकर सुन्दर मैदान में बहती हुई आगे निकल जाती है। यहाँ हर तरह के पशु पाये जाते हैं। भेड़ वड़ी होती हैं और उनके सांग ६ वित्ते—१½ गजा लम्बे होते हैं। उन सांगों से चरवाहे पानी पीने के प्याले और पशुओं के लिए बाढ़े बनाते हैं। इस देश में आवादी और हरियाली का नाम भी नहीं है। यह देश इतना ऊँचा है कि पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं। सरदी का इतना जोर है कि आग अच्छी तरह नहीं जल सकती। यदि जलती भी है तो उससे गर्मी बहुत कम मिलती है और भोजन भो भलीभाँति नहीं पक सकता। यहाँ से मैं उत्तर-पूर्व की ओर रवाना हुआ। रास्ता विलक्षण उजाइ है। आवादी का कहीं निशान भी नहीं। इस देश को 'बूलर' कहते हैं। ४० दिन की लगातार यात्रा के पश्चात् इसे पार करके 'काशगार' में प्रवेश किया।"

क्ष०—बूलर—'बूलर' अथवा 'बिलोरिस्तान,' पामीर के दक्षिणी देश का नाम है। 'तारीखरशदी' में लिखा है कि 'बूलर' अथवा 'बूलर' एक देश है जिसमें कुछ समतल मैदान हैं। उसका पेरा, ४ मास की यात्रा के बर-बर है। उसकी पूर्वी सीमा 'काशगार' और 'गारकन्द' है। उत्तर में

“काशगर पहले ज़माने में एक बड़ा राज्य था किन्तु इस समय वह ‘खां आज़म’ को कर देता है। निवासी मुहम्मदी हैं। ये लोग व्यापार और कारीगरी अधिक करते हैं। देश में चारों ओर सुन्दर बाटिकायें और अंगूर के बड़े बड़े बगीचे हैं। कुछ समय पहले यहाँ थोड़े नस्तूरो इसाई रहते थे, उनके गिरजे भी थे किन्तु वे लोग बड़े गन्दे होते थे और अभक्ष्य वस्तुएँ खाते थे। इस देश को पार करने में मुझे पाँच दिन लगे।”

समरकन्द और यारकन्द का व्यान

“समरकन्द एक प्रसिद्ध धनी नगर है। इसमें अधिकांश आबादी मुसलमानों की है। इनका राजा किबलाई खां का भतीजा ‘कीदू खा’ है, किन्तु दोनों में गहरी शत्रुता है।”

‘समरकन्द’ का सूबा ५ दिन की यात्रा में समाप्त हो जाता है। निवासी, मुहम्मदी नस्तूरो और याकूबी हैं। यहाँ सभी वस्तुएँ खूब उत्पन्न होती हैं। जल वायु अधिक अच्छा नहीं हैं।”

“इस प्रदेश के पार करने के बाद मैं ‘खुतन’ नामक देश में पहुँचा। यह देश बड़ा उपजाऊ तथा हरा-भरा है। हर तरह की चीजें पैदा होती हैं। अंगूर के बगीचों की गिनती नहीं। शहर और कसबे खूब आबाद हैं। इस देश की राजधानी ‘खुतन’ नामक नगर है। निवासी सब मुहम्मदी हैं ये लोग बड़े व्यापारी और कारीगर हैं किन्तु अच्छे सैनिक नहीं हैं। यहाँ का राजा ‘खाँ आज़म’ है।”

वद्धशां, परिचम में काबुल और दिल्ली में कश्मीर है।” अभिप्राय यह है कि ‘बूलर’ वह उजाड़ देश है जिसमें ‘यारकन्द’, वालटी, यसीन और चिन्नाल आदि सम्प्रसिद्ध हैं।

“जगरा और आगे बढ़ने पर ‘पीन’ नाम का प्रान्त है जो हेत्रफल में ‘खुतन’ से कम नहीं है। निवासी मुहम्मदी मत मानते, व्यापार तथा कारीगरी करते हैं। इन लोगों में एक विचित्र रीति प्रचलित है।” यदि कोई मनुष्य यात्रा के लिए बाहर जाता है और २० दिन तक नहीं लौटता तो खी दूसरे मर्द से व्याह कर लेती है और मर्द वापसी पर जिससे चाहता है, शादी कर लेता है। इसी तरह यदि खी भी कहीं जाती है और २० दिन के अन्दर नहीं लौटती तो मर्द दूसरी खी से व्याह कर लेता है और लौटने पर वह खी भी किसी से शादी कर लेती है।”

“यह देश बड़ा उपजाऊ है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दीख पड़ती है। यहाँ हर तरह की चीज़ पैदा होती है। काशगर से ‘लोब’ तक सब देश किबलाई खां के अधिकार में हैं।”

“इसे पार करके मैंने तुकों के प्रसिद्ध सूबे ‘खाकान’ में पैर रखदा। इसके निवासी मुहम्मदी मत को मानते हैं। राजधानी का नाम भी ‘खाकान’ ही है। इस सूबे का अधिकांश मरुस्थल है। पानी कड़वा है। ‘खाकान’ से आगे ५ दिन चलकर ‘लोब’ नगर में पहुँचा। यह नगर चीन देश का परिचमी प्रवेश-द्वार अथवा फाटक है।

चीन के वृत्तान्त

“‘लोब’ (निवापू) नगर, संसार के प्रसिद्ध मरुस्थल ‘गोबी’ की सोमा पर है। जो लोग गोबी को पार करना चाहते हैं, वे प्रायः एक सप्ताह तक इस नगर में विश्राम करके पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तब यात्रा आरम्भ करते समय एक मास का खाने पीने का पूरा सामान ले लेते हैं क्योंकि रास्ते में कोई चीज खाने की नहीं मिलती, हाँ २, ३ जगह मीठा पानी अवश्य मिलता है किन्तु कहीं भी वह सौ आदमियों से अधिक के पीने के लिये पर्याप्त नहीं होता। इस मरुभूमि में जानवर नाममात्र को भी नहीं हैं। स्थान स्थान पर रेत के टीले और घाटियाँ पाई जाती हैं। यह मरुस्थल इतना बड़ा है कि एक साल में समाप्त होता है किन्तु कहीं कहीं इसकी चौड़ाई इतनी कम हो गई है कि एक महीने में ही आसानी के साथ पार कर सकते हैं। इस मरुभूमि के सम्बन्ध में एक विचित्र बात बतलाई जाती है कि “जब यात्री रात को यात्रा करते हैं और उनमें से कोई पीछे रह जाता है और कारबान से मिलना चाहता है तो उसे आत्माएँ करते हुई

* मिस्टर आई० जे० सिथ अपनी पुस्तक में इसके सम्बन्ध में एक स्थान पर लिखते हैं :—

“मध्य एशिया निवासी जातियों का यह विश्वास है कि पृथ्वी और सम्पूर्ण वायुमण्डल ऐसी आत्माओं से भरा हुआ है जो सम्पूर्ण विश्व को हानि लाभ पहुँचा सकती हैं। रेगिस्तान तथा उजड़े हुए खण्ड इनके मुख्य

स्थान समझे जाते हैं। इसलिए 'तूराल' और 'गोबी' के मरुस्थलों को मध्य एशिया वाले प्राचीन काल से ही इनकी खास जगह मानते आते हैं। उनका विश्वास है कि इन दो खण्डों में उन आत्माओं की संख्या बहुत अधिक है।" इस विवरण की पुष्टि चीनी इतिहासकार 'मात्वानलिन' के लेख से होती है। वह लिखता है :—

"चीन से काशगार को दो रास्ते जाते हैं, जिनमें एक लम्बा चौड़ा और दूसरा छोटा है। इस छोटे रास्ते में एक मरुस्थल है जहाँ रेत और ऊपर आसमान के अतिरिक्त कोई वस्तु जहाँ तक दृष्टि जाती है, दिखाई नहीं देती और न तो रास्ते का कोई चिन्ह ही पाया जाता है। हाँ, कहीं कहीं उन अभागे यात्रियों और जानवरों की हड्डियाँ अवश्य मिलती हैं जो इस निर्देश मरुस्थल में आकर प्राण गंवा चुके हैं। इस मरुभूमि की यात्रा में यात्री को स्थान स्थान पर झोर झोर से हँसने की तथा रोने पीटने की आवाजें सुनाई देती हैं और यात्री जिन्हें, इन यात्रांको मालूम करने तथा पता लगाने का शौक होता है, प्रायः इन आवाजों के फेर में पड़कर रास्ते से भटककर इधर उधर जा रहते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। ये आवाजें प्रेतात्माओं की धोखा देनेवाली आवाजें हैं।"

प्रसिद्ध चीनी यात्री 'ह्वानशांग' भी अपनी पुस्तक में मध्य एशिया की यात्रा का हाल लिखते हुए एक स्थान पर इस मरुभूमि के धारे में लिखता है :—

"इस बालुका-राशिमय उजाड़ खण्ड को पार करते समय मुझे सेनायें चलती और कृच करती हुई मालूम हुईं। हथियार चमकते और झरडे हिलते हुए दिखाई दिये। आदमी दिखलाई देते और शायब हो जाते थे। यह सब उन प्रेतात्माओं के कार्य थे जो यात्रियों के मर जाने से उत्पन्न हुई थीं। पीछे से एक आवाज़ आती थी कि "हरो नहीं, बरो नहीं" अतएव मैं अपने पवित्र धार्मिक धर्म से एक दूर्शवरीय मंत्र पढ़ने-

लगा। मंत्र पढ़ने ही यह सब दश्य शायब हो गया और तब कहीं मैं आगे बढ़ने में समर्थ हुआ। ”

आफिका के प्रधान रेगिस्तान में भी प्रेतात्माओं का दिल्लाई देना और किर शायब होना चयन किया जाता है। ‘मसजदी’ लिखता है :—

“ यात्रियों को गत के समय उनसे थोड़ी दूर पर रेगिस्तानी में प्रेतात्मायें चलतीं फिरसी दिखाई देती हैं। मुसाफिर उन्हें साथी अथवा राह-यात्री समझ उनके पीछे हो जाते हैं और रास्ते से भटक जाते हैं। ”

इतिहासकार ‘अपोलोयिनस’ लिखता है :—

“ उसने और उसके साथी यात्रियाँ ने ‘इराडम’ (सिन्ध) नदी के किनारे रेगिस्तान में संध्यासमय (जब कि चाँदनी निकल आई थी) प्रेतात्माओं का एक झुएड़ देखा। ये आत्माएँ चण चण में अपना स्वहप बदलती थीं। ”

‘इनबनूता’ अपने यात्रा विवरण में आफिका के मरम्भल के सम्बन्ध में लिखता है :—

“ अकेले यात्री को प्रेतात्मायें तरह तरह से सतातीं और रास्ता भुजाकर जान ले जाती हैं। ”

‘निकोलो कौटी’ जब ‘चालिंधा’ के रेगिस्तान में से होकर यात्रा कर रहा था तो एक रात को शोर सुनकर सोते से उठ बैठा तो क्या देखता है कि आदमियों का एक गोल उसके पास होकर चला जा रहा है। साथी यात्रियों ने उसे बताया कि यह प्रेतात्माओं का झुएड़ है जो रेगिस्तानों में चक्कर लगाता रहता है और यात्रियों को भुलाकर उनकी जान ले जाता है। ”

स्काटलैण्ड के पर्वतीय प्रदेश के पश्चिमी भाग में वहाँ के निवासी अब भी ऐसी बातें देखा करते हैं। जो आदमी उन्हें दिखाई देते हैं, उनमें से अधिक को एक हाथ, एक पाँव और एक आँख होती है।

सुनाई देती हैं। वह पिछड़ा यात्री उन आत्माओं को अपना सह-यात्री समझ बैठता है। कभी कभी आत्माएँ उनका नाम लेकर पुकारती हैं और इस प्रकार वह यात्री घबड़ाकर रास्ता छोड़ बैठता है और अपने साथी यात्रियों तक कभी नहीं पहुँचता। इस तरह बहुतों की जानें जा चुकी हैं। कभी कभी कुछ यात्रियों को रास्ते से थोड़े अन्तर पर आदिभियों के भुएड़ के पैरों की आहट और आवाजें सुनाई देती हैं। वे लोग यह समझकर कि ये हमारे ही मुएड़ के आदिभियों की आवाज़ें हैं (जो ज़रा आगे बढ़ गये हैं) उन आवाज़ों के सहारे उधर ही का रास्ता पकड़ते हैं जब सबेरा होता है तब उन्हें मालूम होता है कि हम धोखा खा गये और रास्ता भूलकर एक बला में आ फँसे। इन सूक्ष्म आत्माओं की आवाज़ें कभी कभी दिन में भी सुनाई देती हैं और कहाँ कहाँ तो अनेक प्रकार के सुरीले बाजों की मनोहारी तानें^३ सुन मन मुग्ध हो जाता है, इसलिये इस रेगिस्तान को पार करते समय प्रायः सब यात्री साथ ही चलते हैं और जानवरों को गर्दनों में घरिटियाँ बाँध दी जाती हैं जिससे वे रास्ता न भूल जायें और दूसरी

*—रेगिस्तानों की एक और बात बाजों की आवाज़ है। यह आवाज़ रेत के चलने और बड़ने से पैदा होती है, यह वैज्ञानिकों का मत है। वे ऐसी रेत को ‘रेगिवाँ’ अथवा चलने वाली रेत कहते हैं। इस प्रकार के रेतीले टीले कानुल के उत्तर में पाये जाते हैं। भारत के प्रथम मुग्ल सम्राट बबर ने एक ऐसे ही टीले का हाल लिखा है जो ‘सीना’ के रेगिस्तान में ‘जब्लनाकूस’ के नाम से प्रसिद्ध है। एक रेतीला टीला मका और मदीना के बीच में है। जिसे ‘जब्लुलतबल’ कहते हैं। सर० एफ० गोलद्वितीय ने अभी थोड़े दिन हुए एक ‘रेगिवाँ’ का पता लगाया है जो ‘सीसतान’ के उत्तर में उस स्थान पर स्थित है जहाँ ईरान और अफगानिस्तान की सीमायें मिलती हैं।

मंजिल के आदमियों के लिये रात के समय एक बड़े लट्टे में लालटेन बाँधकर इस तरह गाड़ देते हैं कि जिससे दूर दूर तक के पिछड़े हुये यात्रियों को रास्ता मालूम हो जाय और वे भूल कर अपनी जान न खो बैठें। इस तरह से गोबी का यह भयानक मरुस्थल पार किया जाता है।”

इस रेगिस्तान को पार करके ‘शाचू’ में प्रवेश करते हैं जो ‘तांगत’ नामक सूखे में ‘खाँ आजास’ के अधीन है। अधिकांश निवासी बुद्ध धर्म मानते हैं। कहीं कहीं दो चार नस्तूरी इसाई और मुहम्मदी भी पाये जाते हैं। बौद्ध लोग प्रायः कृपक हैं। उनके बहुत से मनिदर हैं जिनमें नाना प्रकार की मूर्तियाँ रक्खी ढुई हैं। बौद्ध लोग उनकी बड़ी भक्ति के साथ उपासना करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। एक प्रसिद्ध त्योहार को लोग अपने बच्चों के साथ एक भेंड़ को लेकर मूर्ति के सामने उपस्थित होते हैं। भेंड़ को बलि देकर उसे मूर्ति के सामने रखकर भाँति-भाँति की प्रार्थनायें करते हैं और थोड़ी देर बाद उस कटी हुई भेंड़ को लेकर अपने घर जाते हैं और अपने हित मित्रों के साथ बाँटकर खा डालते हैं। किसी के मरने पर एक जनाजा तैयार करके देशमी और जरी के कपड़ों से मँड़ा जाता है। सुर्दे के आगे शराब, गोश्त तथा अन्यान्य वस्तुएँ रक्खी जाती हैं। जनाजो के आगे-आगे नगर भर के गवैये गाते जाते हैं। जब जनाजा परघट में पहुँचता है तो उसके सम्बन्धी चमड़े या काराजा के बोड़े, ऊंट और अशर्फियाँ मुद्रे के पास इस विचार से रखते हैं कि उसका जितना हिस्सा जल जायगा उसी के अनुसार उस पृत व्यक्ति को सर्वग में गुलाम, मवेशी और नक़दी मिलेगी केन्तु जब तक ज्योतिषी से मृत व्यक्ति की उत्पत्ति का साल, देन, घरटा राशि और नक़ब नहीं पूछ लेते, उसे नहीं जलाते।

ज्योतिषी से पूछने के बाद उसके जलाने की तिथि नियत की जाती है। कभी कभी यह तिथि ६ महीने बाद पड़ती है। उस समय तक उसके सम्बन्धी, जनाजे पर भौति-भौति के बेल-बूटे बनाते और उसे तरह तरह की सुगन्धिपूर्ण वस्तुओं से सुगन्धित करते रहते हैं और उस मृत व्यक्ति के शरीर में एक प्रकार का मसाला लगाते हैं जिससे वह सड़ने न पाये। प्रतिदिन उस लाश के आगे खाने की चीजें रखी जाती हैं। कभी कभी ज्योतिषी, मुद्रे का दरवाजे से निकालना विपत्ति पड़ने का कारण बतलाते हैं, उस समय दीवार में नया दरवाजा निकालकर मुद्रा घर से बाहर किया जाता है। यह रीति अबतक चोन में प्रचलित है। इस रीति का नाम 'दोहलाई' है।

'कोमल' प्रान्त की राजधानी 'कोमल' नगर है। इस सूबे में नगर और क़स्बे अधिक संख्या में हैं। निवासी बुद्ध धर्म मानते हैं। कृषि करके वे जीवन निर्वाह करते हैं। अनाज, यात्रियों के हाथ भी बेचते हैं। वे किसी बात को शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें खेल-कूद तथा प्रसन्नतापूर्वक जीवन दिताने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। यह सूबा, दो रेगिस्तानों के बीच में फैला हुआ है। जिनमें से एक 'रेगिस्तान लोध' कहलाता है। जब कोई नया आदमी घर आता है तो यहाँ के लोग उसे अपनी छी सौंप देते हैं कि वह नया आदमी उस छी के साथ खुब मज़े उड़ाये। स्वयं घर से निकल जाते हैं और तब तक वापस नहीं आते जब तक कि वह नया आदमी वहाँ रहता है। इसे वे बेहर्याई नहीं घरन् बढ़ी इज़्जत समझते हैं। 'मंगो खाँ' ने अपने शासनकाल में नियम बनाकर इस अनर्थकारी रीति को एक दम बन्द कर दिया था। तीन साल तक तो लोगों ने किसी तरह इस आज्ञा का पालन किया किन्तु जब देखा कि जमीन से अब अच्छी पैदावार

नहीं होती और तरह तरह की दैबी विपक्षियाँ पड़ती हैं तो एक उपहार योग्य वस्तु लेकर बादशाह के पास गये और उससे ग्रार्थना की कि “यह रीति हमारे पूर्वजों के समय से चलो आई है और इस रीति से उनके देवता प्रसन्न होकर उन्हें हर तरह की अच्छी-अच्छी वस्तुएँ देते हैं। इस रीति के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अतएव कृपया आप अपना नियम उठा लीलिये।” ‘मंगों खाँ’ ने विवश होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार करली और नियम हटा लिया। यह भयंकर रीति अब तक उनमें प्रचलित है।

“सूबा ‘शंगुन्तला’ (‘आज कल इसे मंगोलिया कहते हैं) गोबी मरुस्थल के किनारे है। यह १६ दिन की यात्रा में समाप्त होता है। शहर और कस्बों की ज्यादती है। निवासी मुसलमान हैं पर बुद्ध धर्म मानते हैं। कहीं कहीं नस्तूरी इसाई भी पाये जाते हैं। यह देश ‘खाँ आज़म’ के अधिकार में है। इस देश की उत्तरी सीमा पर एक पहाड़ है जिसमें से अच्छा फौलाद निकलता है। लोगों का कथन है कि इस पहाड़ में से एक चीज़ निकलती है जिसे ‘सलामन्दर’ या ‘समन्दर’^{क्ष} कहते हैं। वह धातु है। मुझे अपने ‘जुलफ़िक़ार’ नामक एक मित्र से—(जिसके आधीन ‘खाँ आज़म’ की ओर से इस धातु के निकलवाने का काम था)—इस धातु के बारे में ज्ञात हुआ कि जब इस धातु (समन्दर) को दबाया जाता है तो उसमें से ऊन के से रेशे निकलते हैं।

*समन्दर—कुछ लोगों के कथनानुसार समन्दर चूहे की तरह का एक जानवर है जो ‘हिरात’ के समीप पाया जाता है। उसके बालों (रोओं) पर आग का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग इसे एक प्रकार का पक्षी भी बताते हैं।

वे रेशे सुखाकर तांबे के एक खरल में बूटे जाते हैं और फिर पानी से धोने पर वे ऊन की तरह हो जाते हैं। इस ऊन के रुमाल बनाये जाते तथा आग पर रखकर सफेद कर लिये जाते हैं। पर जब मैल हो जाते हैं तो आग रखने से ही उनकी मैल गायब हो जाती है और वे पुनः ज्यों के त्यों हो जाते हैं।” जैसा मार्कोपोलो ने लिखा है वैसा ही किस्सा अब भी ‘समन्दर’ के बारे में कहा जाता है। रुम में भी ‘समन्दर’ का बना हुआ एक रुमाल है जिसे ‘खँ आज़म’ ने पोप की सेवा में भेजा था।

“इस सूबे से चलकर दस दिन की यात्रा के पश्चात् मैंने ‘सोहचू’ नामक ग्रान्ट में पैर रखा। इस सूबे की राजधानी का नाम भी ‘सोहचू’ ही है। निवासी प्रायः बौद्ध हैं। यात्री अपने साथ मवेशी नहीं ले जाते क्योंकि यहाँ एक प्रकार की जहरीली घास होती है जो जानवरों को बेकाम कर देती है। इस देश के पश्च उसे पहचानते हैं और सर्वदा उससे दूर रहते हैं। निवासी पीलापन लिये हुए गेहूँ के रंग के होते हैं। ये लोग खेती और व्यापार करके अपना निर्वाह करते हैं।”

‘काचू’ या ‘कामीचू’, ‘तांगत’ सूबे की राजधानी है। यह सूबा कई छोटे छोटे सूबों से मिलकर बना है। निवासी बौद्ध, मुसलमान तथा ईसाई हैं। बौद्धों के मन्दिर में तरह तरह की मूर्तियाँ रखकी हुई हैं जो लकड़ी और पत्थर की बनी हुई हैं। ऊन पर बढ़िया चित्रकारी की हुई है। बहुतेरो मूर्तियाँ सोने में भड़ी हुई हैं। बौद्धों के महान् राजसी ठाट बाट के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यद्यपि भोग विलास को बुरा नहीं समझते फिर भी उससे दूर रहते हैं। प्रति मास में ५ दिन पवित्र माने जाते हैं। ऊनमें न तो जानवर काटे जाते हैं और न गोश्व

खाया ही जाता है। एक पुरुष ३० खियाँ तक रख सकता है परन्तु यदि खिला पिला सके। पहली बीबी का बड़ा सम्मान किया जाता है। पति उसे मवेशी, गुलाम तथा नक्करी देता है। यदि किसी को अपनी बीबी पसन्द न आये तो वह उसे छोड़ सकता है। ये लोग सिवाय अपनी माँ के (यहाँ तक कि वाप की विधवा को भी) रिश्ते की सब औरतों को बीबी बना सकते हैं। और भी किसने ही भयंकर नियम इनमें प्रचलित हैं।”

“काचू” से बारह दिन को यात्रा के पश्चात् ‘तपसना’ पहुंचते हैं जो गोबी मरुस्थल के उत्तरी सीमा पर सूबा ‘तोंगत’ मे है। निवासी बौद्ध हैं। ये लोग पशुओं को पालत और खेती करते हैं। ‘तपसना’ से चलकर चालीस दिन एक उजाड़ खण्ड में यात्रा करते हैं, जहाँ न आवादों का चिन्ह है न रहने का सुभीता। गर्भियों में कहाँ कहाँ दो एक आइमी मिल जाते हैं।”

‘कराकुरम’ तीन मील लम्बा चौड़ा है और उसके चारों ओर मिट्टी की चहारदीवारो है। भीतर एक सुन्दर महल है जहाँ व्यवस्थापक (गवर्नर Governor) रहता है। तातारी अपने देश से निकलकर पहले यहाँ आये और यहाँ उन्होंने पहला आक्रमण करके इस पर अपना अधिकार जमा लिया। तातारी एक लम्बे चौड़े देश में रहते थे जिसमें चारों ओर हरियाली थी। नदियाँ बहती थीं किन्तु नगर, गांव या कसबे न थे। उनका कोई राजा या शासक न था। हाँ वे एक आदमी को कर अवश्य देते थे जिसका नाम ‘बांग खाँ’ था और जिसे योरोप वाले क्षेत्रों में ‘प्रेस्टर जान’ कहते हैं।

* — ‘प्रेस्टर जान’ — यद्यपि योरोप निवासी ‘बांगला’ को इसां

जब तातारियों की संख्या बहुत बढ़ गई तो 'वांग खाँ' को उनसे भय उत्पन्न हुआ अतएव उसने तातारियों को रेगिस्टरान्स में निकाल देना चाहा और इस काम पर अपने एक 'अमीर' को नियम किया। 'वांग खाँ' की इस घृणित वासना को जान लेने पर तातारियों को बहुत बुरा मालूम हुआ और सब तातारियों ने एक दल बनाकर एक साथ ही उस देश के छोड़ दिया और फिर उसे कर न दिया।

समझते और ईराई नाम से याद करते हैं किन्तु यह उनकी गलती है। वह ईराई न था क्योंकि वह सबसे पहला तातारी विजयी शासक था और इतिहास इसका साक्षा है कि सब से पहला तातारी विजेता बोद्ध था। उसने 'गुरखा' नाम राजा होने के कारण रक्खा था, जिसका अर्थ उनकी भाषा में 'वादशाह' होता है। यह शब्द विग़इते २, 'कुरखाँ,' 'यरकान' किर 'यूकानान' और अन्त में 'जाहानास हो गया। 'जोहान' से 'जान' होगया।

चंगेज़ खां और तातारी

तातारियों ने ११८७ ई० में चंगेज़ खां को अपना बादशाह बना लिया जोकि बड़ा साहसी और वीर था। जब यह समाचार दूर दूर तक फैला तो सुराण के सुराण तातारी आकर उसके दल में सम्मिलित होने लगे। चंगेज़ खां ने सब तातारियों को सैनिक शिक्षा दी और उन्हें अख्ब-शख्ब से सुसज्जित करके आस पास के देशों पर दूट पड़ा। थोड़े ही समय में उसने ८ सूबे जीत लिये। चंगेज़ खाँ जिस सूबे को जीतता था, वहाँ के निवासियों को सताता नहीं था वरन् उनके और अपने आदमियों में से कुछ को चुन कर शासन-भार सौंप देता था। उसके नियम ऐसे थे जिससे प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। प्रजा को अपनी ओर मिलाकर उसने और भी बड़े बड़े देश विजय किये। सन् १२०० ई० में उसने 'बांगखां' के दरबार में अपना दूत भेजकर उससे यह इच्छा प्रकट की कि 'बांगखां' अपनी लड़की का व्याह उससे करे किन्तु 'बांगखां' ने उसे बहुत बुरा भला कहा और दूत को आव्वा दी कि अभी देश से निकल जाये। अतएव दूत ने लौटकर जो कुछ बांगखां ने कहा था, कह सुनाया। चंगेज़ खां सुनते ही बड़ा क्रोधित हुआ और उसके इस अनादरपूर्ण व्यवहार का समुचित दण्ड देने के लिये एक बड़ी सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया। 'बांगखां' ने भी खूब सेना इकट्ठी की और दोनों सेनाओं का सामना 'तान्दक' पर हुआ। दो दिन विश्राम करके युद्ध आरम्भ

हुआ। दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गये। अन्त में चंगेज़ खाँ की विजय हुई, 'बांगखाँ' लड़ाई में मारा गया। उसके राज्य पर चंगेज़ खाँ का अधिकार हो गया। इस लड़ाई के पश्चात् चंगेज़ खाँ क्षः वर्प तक जीवित रहा और इतने समय में उसने अनेक देश विजय किये। 'क्यागो' नाम का प्रसिद्ध गढ़ भी उसके अधिकार में आ गया किन्तु 'क्यागो' के इस प्रसिद्ध गढ़ के युद्ध के समय उसके घुटने में एक तीर लगा जिसकी चोट से ही अन्त में उसके प्राण गये।

चंगेज़ खाँ के बाद उसके वंशजों तथा राज्य के अधिकारियों में क्रमशः 'कोएखाँ', 'बातूखाँ', 'हलाकूखाँ', 'मंगोखाँ' और किब्लाई खाँ क्षः हुए। किब्लाईखाँ का राज्य संसार के सभी इसाई तथा अन्यान्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। चंगेज़ खाँ और उसके राज्याधिकारी वंशजों का मदफन (दफन करने अथवा गाड़ने का स्थान) अल्टाई पर्वत है। यह वह अल्टाई नहीं जो साइबेरिया की पर्वत माला के दक्षिण में हैं बरन् यह पर्वत, 'खंगान' नामक पर्वत का एक भाग है। अल्टाई पर्वत का वह भाग जहाँ ये लोग दफन किये गये हैं—राजधानी से १०० मील के रास्ते पर है। तातारी बादशाहों के जनाजे के सम्बन्ध में एक विचित्र रीति पाई जाती है कि जितने आदमी रास्ते में मिलते हैं, वे इस विचार से कल्प कर दिये जाते हैं कि परलोक में वे मृत

*चंगेज़ खाँ के पश्चात् वास्तव में आरम्भ के तीन व्यक्ति (कोए खाँ बातू खाँ, हलाकू खाँ) उसके राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हुए। उस समय 'बातू खाँ', 'कपचाक' का अधिकारी था और हलाकू खाँ ईरान का। चंगेज़ खाँ के चार उत्तराधिकारियों के नाम ये हैं :—

(१) शोफादी खाँ (२) क्यूयक खाँ (३) मंगोखाँ (४) किब्लाई खाँ।

बादशाह की प्रजा बनेंगे। इसी प्रकार उनकी सवारी के घोड़े भी क़ल्ल कर दिये जाते हैं। 'मंगोखाँ' का जनाजा ले जाते समय रास्ते में २०००० (बीस हजार) आदमी क़ल्ल किये गये थे।

तातारियों की यह रीति है कि गरमी के दिन तो मैदान में विताते हैं जहाँ उन्हें पशुओं के लिये चरागाहें मिल सकें किन्तु जाड़े में वह पहाड़ों और घाटियों में चले जाते हैं जहाँ पानी के अतिरिक्त जलाने के लिये लकड़ी, छाया के लिये जंगली वृक्ष तथा मवेशियों के लिये चरागाहें मिल सकें। उनके रहने के घर नमदे से बनाए जाते हैं। वे गाड़ियों पर (जिन्हें बैल खीचते हैं) लकड़ियाँ लगाकर उनपर नमदे मढ़ लेते हैं और इस भाँति एक सुखप्रद घर बना लेते हैं जिनमें औरतें और बच्चे यात्रा कर सकते हैं। खियाँ क्रय बिक्रय करतीं और अपने २ पतियों तथा घर बालों के लिये भोजन की वस्तुएँ एकत्र करती हैं। मर्द शिकार खेजते ; आवश्यकता आ पड़ने पर युद्ध में सम्मिलित होते अथवा जंगली करतबों का अभ्यास करते हैं। उनका निर्वाह पालतू पशुओं के दूध और शिकार के गोश्त पर होता है। वे हर तरह का गोश्त खाते हैं यहाँ तक कि घोड़े और कुत्ते का भी। वे घोड़ियों का दूध पीते हैं। एक प्रकार के चूहे का गोश्त भी खाते हैं जिसे वे 'फिरड़न का चूहा' कहकर पुकारते हैं। यह चूहा इस देश में बहुत पाया जाता है। तातारी किसी दूसरे की खी से किसी प्रकार की हँसी दिल्लगी नहीं करते और न तो उसे छेड़ते ही हैं क्योंकि इन सब बातों को वे बहुत बुरा समझते हैं। खियाँ पतिक्रता होती हैं। वे गृहस्थों के कार्यों में निपुण तथा घर सजाने में तेज़ हैं। दस दस, बीस बीस खियाँ एक जगह शान्ति के साथ रहती हैं। उनमें किसी प्रकार का भागड़ा, द्वेष अथवा गाली गलौज़

नहीं देखा जाता। दूसरे के प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग वे पाप समझती हैं।

तातारी, जो चाहे जितनी औरतों से शादी कर सकते हैं इसकी सीमा १०० तक है यदि वे उनका पालन भली भोति कर सकें किन्तु पहली लड़ी और उसके लड़कों का आदर विशेष होता है। वारिस वही होते हैं। पति अपनी सास को, व्याह में खूब धन देता है और बीबी अपने साथ घर से कुछ भी रुपये अथवा गहने नहीं लाती। अधिक लियों से शादी करने के कारण उनमें संतान भी अधिक होती है। तातारी अपनी चचेरी बहन से भी शादी कर लेते हैं और यदि बाप मर जाय तो वडे बेटे को अपनी माँ के अतिरिक्त बाप की सब लियों से शादी कर लेने का अधिकार है, किन्तु यह अधिकार केवल सब से वडे बेटे को होता है। एक भाई दूसरे की मृत्यु पर उसकी लड़ी से व्याह कर सकता है। उनके यहाँ शादियाँ वडी धूम-धाम से होती हैं।

तातारी एक ईश्वर को मानते और पूजते हैं। उनकी पूजा का उद्देश्य केवल यह होता है कि वह, उन्हें शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ दे। उनके यहाँ एक देवता माना जाता है जिसे वह 'नातोके' कहते हैं। यह देवता पृथ्वी का स्वामी है और उनके घर्षणों, मवेशियों और फसल की रक्षा करता है। तातारी उसका घड़ा आदर सम्मान करते और पूजते हैं। घर में उस देवता की एक मूर्ति होती है जो नमदे या कपड़े से बनाई जाती है। लड़ी और लड़ों की मूर्तियाँ भी होती हैं जो एक ही जगह रख दी जाती हैं। देवता की मूर्ति दाहिने हाथ, लड़ी की बायें हाथ और लड़ों की मूर्तियाँ, देवता के सम्मुख रखती जाती हैं। जब तातारी भोजन करने बैठते हैं तो मांस की चिकनाई लेकर, देवता, उसकी बीबी

और उसके बच्चों की मृत्तियों के मुँह से मिला देते हैं और वहीं थोड़ा सा अलग निकाल एक जगह रख देते हैं। ऐसा करने से वे समझते हैं कि देवताओं को उनका भाग मिल गया।

धनबान तातारी जरदोजी के और रेशमी कपड़े पहनते हैं, उनमें जानवरों के समूर लगाते हैं। वे घोड़ी का दूध पीते हैं। और उससे सफेद शराब की तरह की चीज़ पीने के लिये बनाते हैं जिसे वह 'कोमजन' कहते हैं या 'केमज' कहते हैं। यह 'कोमजन' उनके बड़े काम आता है। उसे वह भिन्न २ स्थानों पर व्यवहृत करते हैं।

तातारियों का युद्ध-कौशल प्रशंसनीय है। युद्ध के सामान बहुमूल्य उपयोगी तथा सुन्दर होते हैं। तीर, कमान और तलवार, तथा और कितने ही प्रकार के हथियार उनके पास होते हैं। तातारी, तीर चलाने में निपुण होते हैं। उनका निशाना अचूक होता है। वे पीठ पर चमड़े का एक कपड़ा कवच की भाँति पहनते हैं जो भैंस अथवा किसी और जानवर की खाल को उबाल कर बनाया जाता है और उसपर खुब चित्रकारी की जाती है। वे बड़े अच्छे सिपाही होते और रणचेत्र में बड़ी वीरता से लड़ते हैं।

*केमज बनाने में पहले घोड़ी के दूध को एक बरतन में रखकर उसमें गाय का मट्ठा साबुन की भाँति डाल देते हैं और उसे आग पर रख देते हैं। जब उसमें डाल आता है तो उसमें एक और चीज़ डाल कर खूब मिलाने हैं। किर उसे सुखा डालते हैं। जब काम पड़ता है तो ज़रा सा सूखा दूध पानी में घोल लेते हैं और पी जाते हैं। इसी का नाम 'केमजन' है। लड़ाई के समय तातारों उसे काम में लाते हैं, इससे वे भोजन का बहुत सा सामान साथ ले जाने से बच जाते हैं। यह 'केमज,' शाज कल के Horlick's Malted Milk की भाँति होता था।

महीनों, घोड़े के ऊपर सवार चले जाते हैं और यदि खाने को न मिले तो कोई परवाह नहीं। रास्ते में जो गश्त अथवा पक्षी मिलते हैं उनका शिकार करके निर्बाह करते हैं। उनकी तरह उनके घोड़े भी विपत्ति भेलने में तेज होते हैं। उनको दाना देने की आवश्यकता नहीं होती। मैदान की घास से ही उनकी भूख मिट जाती है। अपने सवार को बहुत प्यार करते हैं और उनसे शरारत नहीं करते। कभी कभी, आवश्यकता पड़ने पर सवार घोड़े पर ही रात बिता देता है और घोड़ा चरता रहता है।

संसार भर की सेनाओं से तातारियों की सेना सुसङ्गठित और उत्तम है। वह अधिक परिश्रम और थकावट बर्दृशत कर सकती है। जब कोई तातारी शासक कोई देश विजय करने जाता है तो अपने साथ लगभग एक लाख सेना रखता है। १० सैनिक के हर एक झुंड पर एक नायक नियत किया जाता है। फिर सौ सौ सिपाहियों पर एक अफसर होता है। हजार जवानों पर एक छोटा सेनापति और दश हजार पर एक साधारण सेनापति होता है। इस प्रबंध में एक विशेषता यह है कि प्रत्येक बड़े अफसर को केवल दश ही आदमियों को आज्ञा देनी पड़ती है। और यों ही क्रम से सब प्रबन्ध ठीक हो जाता है। तातारी अपने अफसरों के बड़े आज्ञापात्र होते हैं।

जब उनकी फौज कूच करती है तो चुने हुये दो सौ सवार 'हरावल' या 'लैन्डोरी' को भाँति दो मंजिल आगे चले जाते हैं। वे देश को अच्छी तरह देखते भालते हैं। इसी प्रकार दो दो सौ सवार इधर उधर भी चलते हैं। ऐसा इसलिये किया जाता है कि एकाएक शान्त उन पर हमला न कर सकें। जब वे बहुत दूर किसी लड़ाई पर जाते हैं तो चमड़े की दो बोतलें पानी के लिये और एक बर्तन खाना पकाने के लिये तथा एक हल्का

सा खेमा धूप और वर्षा से अपनी रक्षा के लिये साथ ले लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे दस दस, बारह बारह दिन तक सबार चले जाते हैं और खाना भी नहीं खाते। ऐसे समय पर वे सिर्फ अपने घोड़े के ख़ुन पर निर्वाह करते हैं। वह उनकी रगें खोल देते हैं और ख़ून पी लेते हैं। ख़ून पी लेने पर रगें बन्द कर देते हैं।

तातारी केवल थोड़ा सा 'केमज्जन' पानी में घोलकर पी लेने हो से कई दिन तक रह सकते हैं इसीलिए जब वे किसी लड़ाई में जाते हैं तो लगभग ५ सेर 'केमज्ज' अपने साथ ले जाते हैं। जब वे शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं तो विचित्रीति से उन पर विजय प्राप्त करते हैं।

पहले तो वे चक्र लगाते और चारों ओर वाणों की वर्षा करते हैं और फिर शत्रु को धोका देने के लिये एक साथ युद्ध स्थल से भाग निकलते हैं। शत्रुदल के सैनिक यह समझकर कि ये लोग हार मानकर भाग रहे हैं, ढीले और सुस्त हो जाते हैं। ऐसे ही समय वे अपने मुँह घोड़े की पिछाड़ी की ओर कर लेते हैं और शत्रु दल पर वाणों की वर्षा करने लगते हैं। इस तरह शत्रु दल के बहुतेरे सैनिक आहत होकर बेकाम हो जाते हैं। उनके घोड़े बड़े मज्जबूत और चलाक होते हैं। भागते समय जमीन से लग लग जाते और दुहरे हो हो जाते हैं। जब इस तरह शत्रु के बहुत से सैनिक धायल हो जाते हैं तो दल बाँधकर आगे बढ़ते हैं और इतनी तेज़ी के साथ वाणों की वर्षा करते हैं कि शत्रुदल के सैनिक भाग खड़े होते हैं और इस भाँति वे शत्रुदल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लड़ते समय वे जोर जोर से चिल्लाते हैं। उन तातारियों के

स्वभाव जो 'खता' (पश्चिमी मध्य एशिया) में जा बसे हैं, असली तातारियों से बदल गये हैं। 'खता' देश के तातारियों ने बुद्ध धर्म के आचार-विवाह प्रहण कर लिये हैं और दूसरे तातारी इस्लाम के भक्त हैं।

तातारियों में न्याय का ढंग भी निराला है। यदि कोई मनुष्य चोरी करता है तो उसे डरडे लगाये जाते हैं। चोरी के माल के परिमाण के अनुसार सात, सत्रह, सत्ताईस, सैंतीस, सैंतालीस इसी भाँति १०७ डरडे अथवा बेंत लगाये जाते हैं। इस सजा से कभी २ चोर मर जाता है। यदि कोई किसी तातारी घोड़े की चोरी करता है अथवा किसी गुरुतर अपराध में पकड़ा जाता है तो वह तलबार से दो टुकड़े करदिया जाता है किन्तु चोर यदि चोरी के माल से नौगुना धन दे और फिर चोरी न करने की प्रतिज्ञा करे तो उसे छोड़ दिया जाता है। जिन तातारियों के पास अधिक मवेशी होते हैं, वे उन पर एक विशेष चिन्ह कर देते हैं जिससे वे चुराये न जा सकें और खो जाने पर अथवा दूसरों के मवेशियों से मिल जाने पर सरलतापूर्वक पहचान लिये जायें। उनकी भेड़ों और बकरियों को चरवाहे चराते हैं। तातार के मवेशी सुन्दर, मिहनती, सीधे और बड़े होते हैं।

व्याह के सम्बन्ध में तातारियों में एक विवित रीति प्रचलित है। यदि लड़की शादी होने से पहले मर जाय और लड़का भी मर जाय तो मरने पर भी वे एक दूसरे का व्याह कर देते हैं और उन दोनों के नाम के साथ एक प्रतिज्ञापत्र लिखा जाता है जो आग में इस विचार से जला दिया जाता है कि परलोक में दोनों को अपनी शादी की खबर हो जायेगी और दोनों में स्त्री पुरुष का सम्बन्ध स्थापित रहेगा। जो कुछ दहेज (यौतुक) ऐसी

शादियों में दिया जाता है उसकी तस्वीरें कागज पर बनाकर आग में इस विचार से जलाई जाती हैं कि ये चीजें उन्हें मिल जायेंगी।

‘कराकुरम’ से रवाना होकर (जहाँ तातारी बादशाह दफन किए जाते हैं) चालीस दिन तक उत्तर की ओर यात्रा करने के पश्चात् ‘बराकू’ मैदान मिलता है। जहाँ ‘मेकरत’ जाति बसी है। यह एक जंगली जाति है। इनका निर्वाह केवल मवेशियों पर होता है, विशेषतः बारहसिंघों पर, जिन पर कि ये सवारी भी करते हैं। इनकी रीति, नीति, आचार-विचार तातारियों ही जैसे हैं। ये ‘खांआजम’ की प्रजा हैं। उनके देश में न अनाज पैदा होता है न शराब बनती है। ये लोग पक्षी और मछलियाँ भी खाते हैं।

चालीस दिन और यात्रा करने के बाद एक पहाड़ी देश आता है जो समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि मनुष्यों और पशुओं का नाम तक नहीं। हाँ एक ग्रकार का पक्षी बहुत पाया जाता है। ‘बाज’ भी होता है। ‘खां आजम’ यही से ‘बाज’ पकड़कर मँगाता है। यह देश इतने उत्तर में है कि यहाँ से ‘कुतुब तारा’ दक्षिण की ओर दिखाई देता है।

अब हम यहाँ ‘खां आजम’ के देश का वर्णन करेंगे अतएव हम पुनः ‘कामेचू’ लौटते हैं। ‘कामेचू’ से ५ दिन की यात्रा के पश्चात् हम ‘तांगक्युयल’ नामक सूबे में प्रवेश करते हैं जो ‘तांगत’ नामक बड़े सूबे का एक भाग है। यहाँ के निवासी नस्तूरी इसाई, मुसलमान और बौद्ध हैं। इस सूबे में नगरों की संख्या अधिक है। ‘तांगक्युयल’ राजधानी है। राजधानी से थोड़ा दक्षिणपूर्व चलने से ही मुख्य ‘खता’ में पहुँच जाओगे और अगर

एक दम दक्षिणपूर्व चले जाओ तो 'सचं' (जिसे 'सनंग' अथवा 'रलंग' कहते हैं) देश में जा निकलोगे। यीह देश भी सूबा 'तांगत' में सम्मिलित और 'खां आज्ञम' के अधिकार में है। इसमें भी इसाई, मुसलमान और बौद्ध रहते हैं। यहाँ हाथी के डीलडौल के मवेशी होते हैं। उनके रोपें रेशम की भौंति मुलायम होते हैं। इनसे यहाँ के निवासियों का बड़ा काम निकलता है। ये जानवर बोझ ढोने और हल जोतने के काम में भी आते हैं।

'तांगत' में उत्तम कस्तूरी पाई जाती है। निवासी व्यापारी, कारीगर और कृषक होते हैं। ऊपर के ओष्ठ भाग पर थोड़े बाल होते हैं। नाक चिपटी होती है। बाल काले होते हैं। खियाँ प्रायः चंचल और सुन्दर होती हैं। सुन्दर खियों का उनके समाज में बड़ा आदर है। वे चाहे कितने ही नीच कुल में उत्पन्न हों, बड़े से बड़े मनुष्य के साथ भी इच्छानुसार शादी हो सकती है। पुरुष कई खियों से शादी कर सकता है। तीतर यहाँ बहुत होते हैं। किसी किसी की दुम ५ हाथ लम्बी होती है। उनके भोर के से रंगीन पर होते हैं। बहुतेरे साधारण तीतरों की भौंति होते हैं।

'तांगक्यूयल' से चलकर पूर्व की ओर ८ दिन की यात्रा के पश्चात् 'अरकामा' में प्रवेश करते हैं। यह सूबा 'तांगत' का एक भाग है। राजधानी 'कालाजान' है। निवासी अधिकांश बौद्ध हैं। इस देश पर भी 'खां आज्ञम' का ही अधिकार है। बहुतेरे झॅट की ऊन के कम्बल बनाते हैं जो विभिन्न देशों को भेजे जाते हैं।

‘तूजन’ का वर्णन

‘तूजन’ पूर्व में है और उसकी राजधानी भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का बादशाह ‘वांगखां’ के बंश में है और इसाई उस ‘प्रेस्टर जान डयोर्ज’ के नाम से पुकारते हैं। इस देश के शासक, खां आजम क्रिवलाई खां अथवा उसी बंश के अन्य शासकों की लड़कियों से शादी करते हैं। इस देश में खानों से उत्तम जाति का ‘नीलम’ निकलता है। यहाँ के कम्बल बहुत अच्छे होते हैं। मुसलमान, बौद्ध और इसाई यहाँ के बाशिन्दे हैं।

शंकर वर्ण (दोगले) के कुछ लोग भी हैं जो ‘अरणोन’ कहलाते हैं और मुहम्मदियों एवं बौद्धों के सम्मिलन से उत्पन्न हुए हैं। इन लोगों में बड़े २ व्यापारी होते हैं। वे औरों की अपेक्षा अधिक सुन्दर होते हैं और अपनी बुद्धिमानी तथा परिश्रम से ऊँचे से ऊँचे दरजे पर पहुँच जाते हैं।

‘गोग’ और ‘मीगोक’ नाम के ग्रान्त भी इसी देश में सम्मिलित हैं जिन्हे ‘सदयाजोज’^{५४} और ‘माजोज’ भी कहते हैं। यहाँ से

* ‘गोग’ और ‘मीगोग’ को ‘आंग’ और ‘मंगोल’ नाम से भी याद करते हैं। ये स्थान चाहे जिन नामों दे पुकारे जाय परन्तु इसमें सम्पूर्ण इतिहास-कारों और यात्रियों की राय एक है कि ये दोनों स्थान चीन की बड़ी दीवार के किनारे हैं। ‘आवृत किंदा और ‘इच्छन घतृता’ के कथनामुसार इनके नाम ‘सदयाजोज’ और ‘माजोज’ ही होने चाहिये।

७ दिन की यात्रा के पश्चान् 'खता' नामक सूबे में पहुँच जाते हैं। इस यात्रा में बहुत से गाँव और क़सबे मिलते हैं। इन गाँवों और क़सबों के निवासी ही प्रायः व्यापारी और कारीगर हैं। वे 'जरबक्स' (सुनहला रेशमी कपड़ा) के बहुमूल्य कपड़े पहनते हैं जिन्हें वे 'नाख' और 'नासज' के नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार हमारे देश में अनेक प्रकार के ऊनी और सूती कपड़े बनते हैं उसी तरह उस देश में रेशम और 'जरबक्स' के कपड़े। इस देश की पर्वत माला में 'आयफो' स्थान पर चांदी की खान है। यहां से चलकर ३ दिन में 'चागाननूर' पहुँचते हैं।

'चागाननूर' में 'खां आज़म' का एक सुन्दर महल है। यह महल अपने सभीप की भीजों और नदियों के कारण 'चागाननूर' अर्थात् 'स्वेतभील' कहलाता है। यहाँ जलीय जन्तुओं की अधिकता है अतएव 'खां आज़म' प्रायः शिकार के शौक में यहीं भड़ा रहता है। महल के पास एक घाटी है जहाँ बहुत से मकान चकोरों के लिये बनाये गये हैं।

खाँ आज़म ग्रीष्म भवन

फिल्माई खाँ का ग्रीष्म महल शांगटो में है। यह महल संग-मरमर का बना हुआ है। कमरों में सुनहरा पानी फेरा गया है और मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, तथा नाना प्रकार के फूल पत्तों के सुन्दर चित्र दीवारों पर खाँचे गये हैं। जिनके देखने से हृदय नाच उठता है। यह महल सोलह मील के घेरे में फैला हुआ है और उसके भीतर अनेक चश्मे, नदियाँ, फव्वारे और हरे भरे मैदान हैं जिनमें हिंसक पशुओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के जानवर पाये जाते हैं। खाँ आज़म को बाज़ों के पालने का बड़ा शौक है। ये जानवर उनकी खूराक के लिये रखते गये हैं। कभी कभी खाँ आज़म इस हरे भरे मैदान में अपने घोड़े पर सवार होकर और एक पालतू चीते को अपने पीछे बिठा कर सैर करने जाता है और जो जानवर दिखाई देता है उसे चीते के द्वारा शिकार कर के बाज़ों को खिला देता है।

मैदान में एक जगह एक सुन्दर कुंज है। उसमें एक छोटा सुन्दर महल बनाया गया है जिस पर सुनहरा भूला चढ़ाया गया है। यह महल बड़ी चतुराई और कारीगरी से बनाया गया है। वह कई खंभों पर खड़ा किया गया है जिन पर सुनहरी कलर्ड की गई है। हर खंभे पर एक अज़दहा (अजगर) है जिस पर सोने की कारीगरी की गई है। उसकी हुम खंभे से लगी हुई है। और सर तथा पंजों पर महल की इमारत उठाई गई है। छत, बनेतों से

बनाई गई है और उसमें एक ऐसा मसाला लगाया गया है कि पानी का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इन बनेतोंके का धेरा १-१२ हाथ और लंबाई १० से १५ कदम तक है। बनेतों के गाठों पर से टुकड़े कर लिये जाते हैं। टुकड़ों को बीच से चीर कर खपरैलें बनाई जाती हैं। और तब उनसे छत मढ़ी जाती हैं। फिर वह केलों से पाट ढी जाती है। यह महल बड़े काम का है और इस तरह बनाया गया है कि जब चाहे बड़ी सरलता से उखड़ सकता और फिर खड़ा किया जा सकता है, उसे टुकड़े २ करके जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। इस स्थान पर 'खां आज़म' हर साल ३ महीने अर्थात् जून, जुलाई और अगस्त में रहता है क्योंकि यहाँ गरमी का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जब अगस्त का अंतिम सप्ताह बीतने को होता है तो यह महल उखाड़ दिया जाता है और 'खां आज़म' यहाँ से चला जाता है। जिस दिन 'खां आज़म' रवाना होता है उस दिन एक विचित्र रीति पूरी की जाती है। जिसका वर्णन नीचे किया गया है।

'खां आज़म' के पास बहुत से सफेद घोड़े और घोड़ियाँ हैं जिनके शरीर पर कोई दाग नहीं। इनकी संख्या १०००० हजार से अधिक है। इन घोड़ियों का दूध खां आज़म तथा उसके घराने के लोग पीते हैं। एक और गिरोह भी है जो इसे पीता है। उसे इसके पीनेका स्वत्व प्राप्त है। यह अधिकार उस गिरोह को चंगेज़ खां ने प्रदान किया था क्योंकि इस गिरोह के लोगों की सहायता से चंगेज़ खां ने एक बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी।

*बनेते नहीं बरन बांस ठीक होगा क्योंकि अब तक जो जातियाँ चीन और भारतवर्ष के बीच में बसी हुई हैं, वे बांसों के घर बनाती हैं। वे बांसों से जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

इस सुंद का नाम हरीद है। जब ये घोड़ियाँ यात्रा में होती हैं तो उस देश का बड़े से बड़ा सरदार भी उनके समीप नहीं जाने पाता। यदि कोई मनुष्य यात्रा कर रहा हो और उसे घोड़ियाँ मिल जायं तो वह आदमी या तो उनके (घोड़ियों के) आगे निकल जाने तक ठहरा रहता है या आधे दिन का चक्र लगा कर निकल जाता है। इन घोड़ियों का बहुत आदर सम्मान किया जाता है अतएव कोई मनुष्य उनके समीप नहीं जाने पाता। जब २८ अगस्त को 'खां आज़म' इस मैदान से रवाना होता है तो इन घोड़ियों का दूध छुटकर जमीन पर छिड़का जाता है। यह बुद्धमत की रीति है। उनका यह विश्वास है कि उस दिन उस दूध को जमीन पर छिड़कना चाहिये, इससे जमीन, हवा और पितरादि सब अपना २ हिस्सा ले लेते हैं और ऐसा करने से 'खां आज़म', उसके परिवार, उसकी स्त्रियों तथा उसके धन धान्य की, देवता लोग रक्षा करते हैं॥ ५। यह रीति पूरी करके 'खां आज़म' वहाँ से चल देता है।

इन तीन महीनों में यदि पानी बरसता रहे या आकाश स्वच्छ न रहे तो ज्योतिषी और 'जादूगर' जो 'खां आज़म' के

*'बाघर' लिखता है कि मुगाल कौज़ में भी यों ही केम्ज छिड़कते हैं। इस समय के एक आरम्भीनियन यात्री ने लिखा है कि "तातारी फिसी वस्तु को पीने से पहले चारों दिशाओं में तथा आकाश की ओर छिड़कते थे।" पिस्टर 'शटकिंस' ने लिखा है कि 'करग़ज़' जाति में भी यही रीति पाई जाती थी।" और कर्नल यूल लिखते हैं:—"यंगाल में खसिया पहाड़ी के निवासी प्राचीन समय में पीने से पहले वह वस्तु चारों ओर छिड़कते थे।"

'जादूगर—मुगालों में 'धादह' अथवा 'जादहताश' एक पर्थर था जिसमें जादू के गुण पाये जाने थे और ऐसे काम करते समय कुछ अन्य

साथ रहते हैं, बादलों, तूफानों और वर्षा सम्बन्धी अन्य आपत्तियों को अपनी जादू विद्या के बल से महल से दूर रखते हैं। ये जादूगर कश्मीरी अथवा तिब्बती होते हैं और जो कुछ बे करते हैं, शैतान अथवा प्रेतात्माओं की सहायता से करते हैं किन्तु लोगों का ऐसा विचार है कि वे, यह सब आश्चर्यमयी बातें अपनी शाकिति तथा ईश्वरीय सहायता के बल पर करते हैं। ये लोग गन्दे रहते हैं, नहाते नहीं और मैले कुचले कपड़े पहनते हैं। यदि कोई मनुष्य क़र्त्तल किया जाता है तो ये लोग

‘क्रियाये’ कर के उसे पानी के एक बत्तन पर लटका दिया जाता था अथवा बत्तन में रख दिया जाता था। ‘जादू’ ‘यादू’ ‘यादूशी’ ‘जादूगरी’ इन सब शब्दों को ‘जादू’, अथवा ‘जादूगरी’ के अर्थ में प्रयुक्त करना वचित होगा। एक अरेबियन समुद्र यात्री ‘इन महलों’ ने लिखा है कि “इस तरह का एक पथर तुकों के ‘क्लीमाक’ नामी एक झुराड़ के पास भी था और जब चंगेज़ खां तथा ‘बांगखां’ के बेटे ‘संगीनखां’ में लड़ाई हुई तो ‘संगीन खां’ ने जादू के द्वारा बर्फ़, पाला और अंधकार उत्पन्न कर चंगेज़ खां की सेना का नाश कर दिया।” रशीदुद्दीन लिखता है कि “जब सन् १२३१—१२३२ ई० में तुलाई खां ने ‘हवनान’ पर चढ़ाई की तो उसे जादू के पथर ही के कारण विजय प्राप्त हुई। तैमूर लिखता है :— “जाटों ने जादू के बल से पानी बरसाकर मेरी फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया। जब उनमें से एक जादूगर को ज़र्त कर दिया गया तो तृप्तान जाता रहा।” बाबर ने एक स्थान पर लिखा है कि “मेरा एक मित्र जादू से मेह और बर्फ़ पैदा कर देता है।” चीन के चाइशाह ‘शीशंग’ ने (सन् १७२४—२५ ई०) भगोलों के नाम यह हुक्म जारी किया कि “अब से वे मेह पर जादू न किया करें।” अब भी तातार में जादू की यह पथा पाई जाती है।

उसका मांस खा लेते हैं किन्तु जो मनुष्य अपनी मौत से भरता है उसे नहीं खाते।

‘खां आजम’ के सम्बन्ध में एक और विवित्र रस्म का उल्लेख किया जाता है। उसे ‘बख्शी’ भीलोग करते हैं। जब ‘खां आजम’ राजधानी अथवा ग्रीष्म प्रासाद में दस्तर-खान (पाक-बख) पर भोजन करने वैठता है (जो जमीन से आठ हाथ ऊँचा होता है) तो उसके सामने दस कदम के अन्तर पर प्याले रखे जाते हैं जिनमें अनेक प्रकार की शराबें भरी होती हैं। जब खां आजम प्याले की शराब पीना चाहता है तो जादूगर, जादू के बल से प्याले को चलाते हैं और वे प्याले बिना हाथ लगाये ‘खां आजम’ के पास चले जाते हैं। यह बात भूठ नहीं, बिल्कुल सच है और इसे हजारों आदमियों ने देखा है। मार्कोपोलो लिखता है कि “मेरे देश में भी लोग ऐसा करते हैं”। अभी तक भारतवर्ष के अनेक घटानों में ऐसे जादूगर मौजूद हैं जो ऐसा करते हैं।”

जब किसी देवता के सम्बन्ध का कोई त्योहार पड़ता है तो बख्शी ‘खां आजम’ के सामने उपस्थित होकर उससे कहते हैं कि “आज इस देवता का त्योहार है। यदि उसे (देवता को)

*—बख्शी—बख्शी शब्द वस्तुतः संस्कृत ‘भिन्न’ से निकलता है जिसका अर्थ धार्मिक ‘उपदेशक’ अथवा ‘फकीर’ है। यह शब्द मंगोलो (मुगल) जाति में ‘जानकार’ के अर्थ में प्रयुक्त होता था और कारसी-भाषा में ‘लेखक’ के अर्थ में और मुसलमानों के शासन काल में भारत-वर्ष में एक विशेष प्रकार के अफसर के लिए प्रचलित था और अब भारतीय सेना में वेतन बाँटने वाले के अर्थ में आता है किन्तु पहले तिक्ष्णत में लामाओं के लिये और फ़ारस तथा अरब में विद्वान के लिये प्रयुक्त होता था।

भेंट न मिलेगी तो वह खराबी करेगा।” अतएव ‘खां आज्जम’ से पृछकर वे जितनी भेड़ें, सुगन्धित वस्तुएँ तथा अन्य चीजें रहते हैं, लेकर उस देवता का त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार में वे फकीरों को खिलाते भी हैं परन्तु पहले भोजन बनाकर उसमें से थोड़ी २ चीजें देवता की मूर्ति के आगे रखती जाती हैं और इस प्रकार उनकी पूजा कर लेने के बाद तब लोग खाते पीते हैं। उस दिन खूब रोशनी की जाती है।

बग्लियों के बड़े २ मठ होते हैं। कितने ही तो छोटे नगर के बराबर होते हैं और उनमें दो दो हजार से भी अधिक भक्त रहते हैं जो औरों की अपेक्षा मैले कुचैले कपड़े पहनते और सर तथा दाढ़ियाँ मुड़ाये रहते हैं। उनमें से कोई कोई शादी भी कर लेते हैं और कई स्त्रियाँ रखते हैं।

तातारियों में एक और तरह के फकीर होते हैं जिनको तातारी भाषा में क़‘शनशन’ (संन्यासी) कहते हैं। ये बड़े त्यागी होते हैं। सब दिन पानी में चोकर मिलाकर खाते और पानी पीकर निर्वाह करते हैं। बौद्ध लोग उन्हें ‘बटारनस’ कहते हैं। ये लोग शादी कभी नहीं करते। और ‘पटसन’ का बना हुआ काला अथवा नीला वस्त्र पहनते हैं। चटाई पर सोते हैं। उनकी देवमूर्तियाँ खियों की होती हैं अर्थात् मूर्तियाँ खियों के नाम से पुकारी जाती हैं।

— शनशन — ‘ताव’ नामक दर्शनिक का सिद्धान्त था कि ‘जो लोग मुस्ति प्राप्त कर लेते हैं वे ‘शीनशीन’ में पहुँच जाते हैं अतएव पीछे से उनके अनुगामियों का नाम ‘शनशन’ पढ़ गया जिसका अर्थ संन्यासी भी है।

किंबलाई खां का दरबार

किंबलाई खां, चंगेज़ की छोटी पीढ़ी में है। वह सन् १२५६ई० में गढ़ी पर बैठा। उसे राज्याधिकार उसकी शक्ति के कारण मिला। यद्यपि उसके भाइयों तथा अन्य सम्बन्धियों ने राज्य के लिये झगड़ा किया परन्तु अन्त में विजय किंबलाई खां की ही हुई। सन् १२९८ ई० तक उसे राज्य करते हुए ४२ वर्ष बीत चुके हैं। इस समय उसकी अवस्था ८५ साल की है, इससे जान पड़ता है कि गढ़ी पर बैठते समय उसकी अवस्था ४३ साल की रही होगी। राज्य पाने से पहले उसे कई बार युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा था। जहाँ जहाँ वह गया वहाँ उसे अपनी वीरता और अद्भुत सैनिक शक्ति दिखाने का अवसर मिला था किन्तु सिंहासन पर बैठने के पश्चात् वह केवल एक बार सन् १२८६ ई० में युद्ध में सम्मिलित हो सका।

किंबलाई खाँ का एक चचा था (चचा नहीं चचेरा भाई, जो चंगेज़ के छोटे लड़के के वंश में था) उसकी अवस्था ३० वर्ष की थी। वह कई देशों का शासन करता था। यद्यपि वह किंबलाई खां के अधीन था और उसे कर देता था परन्तु धनमद-

* किंबलाई खां का जन्म अगस्त १२१६ ई० में हुआ था अतएव १२८६ ई० तक उसकी अवस्था ८२ साल की होती है किन्तु मुहम्मदी इतिहासकार उसकी तत्कालीन अवस्था ८५ साल ही बताते हैं।

तथा सेना को अधिकता के कारण वह अभिमानी हो गया। उसके पास ३ लाख से भी अधिक सवार थे और बहुत अधिक पैदल सेना थी अतएव वह किंबलाई खाँ को तंग करने लगा। उसने एक तातारी शासक कीदू खाँ के पास (जो खाँ आज़म को कर देता था परन्तु भीतर ही भीतर उससे जलता था) यह समाचार भेजा कि “मैं खाँ आज़म के विरुद्ध हो गया हूँ क्योंकि उससे मेरी हार्दिक शत्रुता है। मैं एक बड़ी सेना लेकर ‘खाँ आज़म’ पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। तुम भी शीघ्र एक बड़ी सेना लेकर आ जाओ जिससे दोनों सेनाएँ मिलकर उसका देश छीन लें।” जब कीदू खाँ के पास यह समाचार पहुँचा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि बदला लेने और अपनी आकांक्षा पूरी करने का समय आ गया है। उसने शीघ्र उत्तर भेज दिया कि “मैं आ रहा हूँ” और कई लाख सेना लेकर कूच कर दिया।

जब ‘खाँ आज़म’ को इस घट्यन्त्र का पता चला तो वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसे अपनी योग्यता, सैनिक शक्ति और साहस पर बड़ा विश्वास था। वह जरा भी न घबड़ाया वरन् उसने प्रतिज्ञा की कि “जब तक मैं इन दोनों कृतप्र विश्वासघातकों को तहस नहस नहीं कर दूँगा छत्र सिर पर न रक्खँगा।” प्रतिज्ञा करके वह युद्ध की तैयारियाँ करने लगा। तैयारियाँ इस ढंग से की गई कि उसके मुख्य मुख्य सरदारों के अतिरिक्त किसी को कुछ खबर न हुई। १० ही १२ दिन में सब काम ठीक हो गया और इतने ही समय में पास के देशों से तीन लाख ६० हजार सवार और एक लाख पैदल सेना इकट्ठी हो गई। उसकी सेना इतनी अधिक थी कि इतनी सेना उसके आगे कुछ न थी परन्तु सेना का अधिकांश दूर दूर देशों को विजय करने के लिये गया हुआ था और उसके आने में विलम्ब था। यदि खाँ आज़म सम्पूर्ण सेना के

लौट आने की प्रतीक्षा करता तो उसकी संख्या इतनी अधिक हो जाती कि जिसका गिनना असम्भव था ।

कूच करते समय उसने ज्योतिषियों से पूछा कि उसकी विजय दोगो या पराजय । ज्योतिषियों ने सोच विचार कर उत्तर दिया कि विजय होगी । इस पर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और सेना को कूच की आज्ञा दे दी और लगातार २० दिन की यात्रा के पश्चात् उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ 'नायन खाँ' ४ लाख सवारों की सेना लिये पड़ा हुआ था । खाँ आज़म की सेनाएँ इननी जल्द वहाँ जा पहुँची कि दूसरों को खबर भी न हुई । विपक्षियों के जासूसों पर खाँ आज़म की बड़ी कड़ी निगाह थी । वे जहाँ कहीं मिलते पकड़ लिये जाते थे । यही कारण था कि खाँ आज़म के आने की खबर भी उसके विपक्षियों को न हुई और इस तरह उसने 'नायन खाँ' को अचानक धर दबाया । जिस समय 'नायन खाँ' क़ैद किया गया उस समय वह अपनी एक नव-विवाहिता बेगम के साथ भोग-विलास में लिप्र था ।

जब दिन भली भाँति निकल आया तो 'खाँ आज़म' अपनी सेना के साथ पहाड़ी पर छटा हुआ दिखाई पड़ा जहाँ से वह सम्पूर्ण मैदान दिखाई देता था जिसमें 'नायन खाँ' खीमा डाले पड़ा था । उसे जरा भी रुग्णता नहीं था कि कोई उस पर चढ़ा चला आता है । इस बात से वह इतना निश्चित था कि इधर उधर कहीं चौकी-पहरा कुछ नहीं रखता था । सब रास्तों पर उसने अधिकार कर लिया था और उसे 'खाँ आज़म' के एकाएक यों आ जाने का कुछ पता न था क्योंकि यह मैदान विलकुल उजाड़ और 'खाँ आज़म' की राजधानी से तीस दिन की यात्रा पर था ।

पहाड़ी के ऊपर 'खाँ आज़म' एक अम्बारी में सवार था जो

चार चार हाथियों के ऊपर कसी गई थी। अम्बारी के ऊपर ऊँचा भरणा लहरा रहा था जो चारों ओर से दिखाई पड़ता था। फौज तीन तीन हजार की टोलियों में विभक्त की गई थी और प्रत्येक सवार के पीछे एक 'भालावरदार' प्यादा खड़ा किया गया था। खाँ आजम ने इस तरह सेना-ब्यूह की रचना की थी कि सारे मैदान में फौज ही फौज नजार आती थी।

जिस समय 'नायन' और उसकी सेना ने यह देखा तो पहले घबड़ा गई परन्तु फिर हथियार ठीक करने लगी और थोड़ी ही देर में तैयार होकर क्तार से खड़ी हो गई। जब दोनों सेनाएँ एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं तो अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और दोनों सेनाएँ गाने लगीं क्योंकि तातारियों की यह रीत है कि जब तक ढंके (नक्कारे) पर चोट नहीं पड़ती, तब तक दोनों सेनाएँ दो सारे पर गाना गाती रहती हैं। नक्कारे पर चोट पड़ते ही सेनाएँ लड़ने लगती हैं।

जब लोग गा रहे थे उसी समय दोनों ओर से रण-बाद बजने लगे। लड़ाई आरम्भ हुई। सैनिक धनुष, बाण, गदा, बर्छियाँ और तलवारें ले आगे को झपटे। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगा। शत-शत सैनिक कट-कटकर गिरने लगे। धायतों के आर्तनाद से आकाश गूँज उठा। जहाँ तहाँ नर-मुण्ड लोटने लगे। खन की नदियाँ बह चलीं। रण-भूमि अत्यंत भयंकर बोध होने लगी।

मारकाट का बाजार बहुत गर्म था। प्राण हथेली पर रख दोनों सेनाएँ लड़ रहीं थीं। बड़ी भयंकर लड़ाई थी क्योंकि दोनों ओर से ७ लाख ६० हजार सवार लड़ रहे थे। पैदल फौज की तो गिनती ही न थी। दोपहर तक घमासान युद्ध होता रहा। किसी की विजय के लक्षण दिखाई न पड़ते थे किन्तु दोपहर के बाद

‘खाँ आजम’ के भाग्य ने पलटा खाया और उसकी सेना एक नये उत्साह के साथ लड़ने लगी। उसके सामने ‘नायन’ की फौज टिकी न रह सकी, उसके पैर उखड़ गये और भगदड़ पड़ गई। ‘नायन खाँ’ अपने सरदारों के साथ बन्दी कर लिया गया।

बन्दी होने के पश्चात् ही वह मार डाला गया। उसे एक कालीन में लपेटकर इधर उधर ज़मीन पर पटका गया, यहाँ तक कि वह मर गया। इस ढंग से मारने का कारण यह था कि राजवंश का खून पृथ्वी और सूर्य के सामने न बहने पाये। ‘नायन’ की सम्पूर्ण प्रजा ने खाँआजम की अधीनता स्वीकार कर ली और यों नायनखाँ का देश उसके अधिकार में आ गया जिसमें चार सूबे थे। (१) चोरचा (२) कोरिया (३) बार-कोल (४) सिकंग तंग कंग।

विजय के पश्चात् ‘खाँ आजम’ राजधानी को लौट गया। कीदूखाँ ने जब ‘नायन’ की पराजय और मृत्यु का समाचार सुना तो बहुत घबड़ाया। ‘खाँ आजम’ इस युद्ध के अतिरिक्त किसी युद्ध में स्वयं कभी सम्मिलित नहीं हुआ। जब काम पड़ता था तो अपने लड़कों अथवा सेनापतियों को ही भेज दिया करता था। इस युद्ध को भयानक समझकर वह इसमें स्वयं सम्मिलित हुआ था।

५ तातारियों की यह रीति है कि एक शासक दूसरे को क़त्ल करके उस पर अधिकार जमा लेगा किन्तु इसका बड़ा ध्यान रखेगा कि खून ज़मीन पर न गिरने पावे क्योंकि वे इसे बुरा समझते हैं अतएव वे किसी विजित बादशाह को इस ढंग से मारते हैं कि खून न निकलने पाये। मिस्टर कैम्पर अपनी यात्रा-पुस्तक के प्रथम भाग पेज १६ पर लिखते हैं कि शाम के बादशाह के दो भाई, राजगढ़ी पर अधिकार जमाने के उड़गन्त के दरह में चन्दन की लकड़ियों से पटवा कर मार दाले गये।

राजधानी में पहुँचकर 'खां आज़म' ने उन लोगों को जो युद्ध में दिल खोलकर लड़े थे पुरस्कार दिये और उनके दर्जे बढ़ाये। जो सौ पर थे उन्हें हजार पर और जो हजार पर थे उन्हें दस हजार पर सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। प्रत्येक सैनिक को उसकी वैयक्तिक वीरता के अनुसार ऊंचे दर्जे दिये गये। खूब धन बांटा गया। सौ के अफसर को चांदी, हजार को नकली सुनहरी जेवर दस हजार के अफसर को सोने की तस्तियाँ मिलीं, जिनपर तातारी भाषा में इस आशय के वाक्य लिखे हुये थे कि—“ईश्वर सर्वदा हमारे सम्राट् को सुरक्षित रखें और उसके शत्रुओं का नाश हो।” सब तस्तियों पर ये वाक्य लिखे हुए हैं किन्तु दस हजार के सेनानायक की तख्ती पर इन वाक्यों के नीचे शेर की और उसके नीचे सूर्य तथा चन्द्र की तस्वीर बनी हुई है। जिसके पास दस हजार की यह तख्ती है वह जहाँ कहीं जाता है उसके सर पर एक प्रकार का छत्र होता है और उसे सुन्दर कुर्सी पर जगह दी जाती है। इसके अतिरिक्त खां आज़म के मुख्य २ सदस्यों के पास भी तस्तियाँ हैं जिनपर उनके नाम, दर्जे और अधिकार लुढ़े हुए हैं। यदि इन विशेष सदस्यों में से कोई कहीं हरकारा भेजना चाहे तो जी चाहे जिसका घोड़ा, हरकारे को पकड़कर दे सकता है—चाहे वह बादशाह ही का क्यों न हो।

'खां आज़म', मझोले कङ्क का प्रतिभाशाली जवान है। उसका शरीर सुडौल, रंग लालिमामय श्वेत, आँखें काली और बड़ी तथा नाक सुन्दर है। उसकी चार बेगमें हैं। हरएक के लिये तीन तीन सौ लौंडियाँ, बहुतेरे सेवक तथा 'दास' नियत हैं। प्रत्येक बेगम के अधिकार में लग-भग दस हजार आदमी हो जाते हैं। बेगमों के महल अलग अलग हैं। जब वह (खां आज़म) किसी बेगम से भेंट करना चाहता है तो उसे अपने यहाँ बुलवा लेता है-

अथवा स्वयं उसके महल में चला जाता है। इन बेगमों की संतान में सबसे बड़ा बेटा गही का अधिकारी माना जाता है। 'खाँ आजम' के रनिवास में और भी कितनी ही सुन्दरी खियाँ हैं। प्रतिवर्ष सौ सुन्दर तातारी खियाँ चुनकर 'खाँ आजम' की सेवा में भेजी जाती हैं जो पहले लौंडियों के पास इस विचार से सुलाई जाती हैं कि उनके शरीर से दुर्गन्धि तो नहीं निकलती और उनके अंग सुडौल हैं या नहीं। इस परोक्षा में जो अच्छी निकलती हैं वे बारी बारी से 'खाँ आजम' के पास भेजी जाती हैं। ६, ६ एक साथ उसके सामने उपस्थित की जाती हैं। तीन दिन को और तीन रात को उसकी सेवा के लिये उपस्थित रहती और उसकी आज्ञा का पालन करती रहती हैं।

चारों बेगमों से 'खाँ आजम' को बाईस बेटे हैं जिनमें सबसे बड़े का नाम 'तरजीखाँ' था, वही 'खाँ आजम' के पश्चात् गही पर बैठता परन्तु 'खाँ आजम' के सामने ही मर गया। 'तरजी खाँ' से 'तैमूर' नाम का एक लड़का है जो 'खा आजम' के पश्चात् राज्य का स्वामी होगा। २२ बेटों में से ७ बड़े २ सूबों में शामन करते हैं और बड़े बीर, साहसी तथा सुन्दर हैं।

'खाँ आजम' दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में 'खता' देश की राजधानी 'कम्बालोक' में रहता है। इस नगर के भीतर एक राज प्रासाद (शाही महल) है जिसके चारों ओर एक वर्गाकार मैदान है। चहार दीवारी की हरएक दीवार एक मील लम्बी है जो बहुत मोटी और दस क़दम ऊँची है। प्रत्येक कोने पर एक सुन्दर महल है जिसमें 'खाँ आजम' के सुशिक्षित सैनिक रहते हैं। हर दो किनारों के बीच में भी एक एक महल है। इस

प्रकार महल के रूप में आठ प्रबल शास्त्रागार बन गए हैं। एक में एक ही तरह का हथियार है जैसे एक में बिलकुल तलबार ही तलबार है। इस हाते की दक्षिणी दीवार में पाँच बड़े बड़े दरवाजे हैं। बीच का तीसरा दरवाजा तभी खुलता है जब खाँ आजम बाहर जाता अथवा बाहर से भीतर आता है। बड़े हाते के भीतर एक और छोटा हाता है जिसकी सभी बाँतें पहले की सी हैं। अन्तर के बीच इतना ही है कि वह वर्गाकार न होकर आयताकार है।

यह महल बहुत बड़ा है। उत्तर की ओर वह दीवार से मिला हुआ है किन्तु दक्षिण ओर कुछ जगह खाली है। महल दो मंजिला नहीं है बरन् वह एक २५ गज ऊँचे फर्श पर है। महलकी छत बहुत ऊँची है और दीवारें सोने चाँदी से मढ़ी हुई हैं, उनपर नाना प्रकार के पश्तुओं, जंगल, पहाड़, नदी, झील तथा फल फूलों के चित्र बने हुये हैं। महल की चारों दीवारों पर संगमरमर की सीढ़ियाँ दीवार की चोटी पर पहुँचने के लिये लगाई गई हैं।

महल का एक कमरा इतना बड़ा है कि साठ हजार आदमी उसमें बैठकर खाना खा सकते हैं। महल की इमारत इतनी सुन्दर बनी है कि शायद सम्पूर्ण संसार में उससे सुन्दर इमारत न मिलेगी। दीवार के बाहरी हिस्से भी पीले, नीले, हरे लाल तथा कितने ही रंगों से इस ढंग से रंगे हुए हैं कि दूर से ही चमकते हैं। महल की छत बहुत मजबूत और सुन्दर है।

महल के भीतर बहुत सी इमारतें हैं जिनमें बेगमें और खाँ आजम की जरूरी चीजें रहती हैं। खाँ आजम के अतिरिक्त अथवा बिना उसकी आज्ञा के कोई मनुष्य इनमें नहीं जा सकता। दो दो दीवारों के बीच में सुन्दर बाटिकार्य

हैं जिनमें भाँति-भाँति के मेवों के बृक्ष लगे हुए हैं और बारहसिंघे, हिरन इत्यादि जानवर रहते हैं। इन वाटिकाओं की सड़कें पक्षी और २ फीट ऊँची हैं और इस दंग से बनाई गई हैं कि उन पर पानी न ठहर सके। हाते के उत्तर पश्चिम कोने के सभीप एक भील है जिसमें से होकर एक नदी बहती है किन्तु उसमें लोहे के ऐसे जंगले लगे हुए हैं कि मछलियाँ भील से बाहर नहीं निकल सकतीं।

महल के उत्तर ओर एक पहाड़ी है जो भील की मिट्टी से बनाई गई है। यह कई सौ क़दम ऊँची और एक भील के घेरे में है। इस पहाड़ी पर सदा हरे रहने वाले बृक्ष लगाये गये हैं। जहाँ कहीं किसी सुन्दर बृक्ष का पता 'खांआजम' को लगता है वह उसे खुदवाकर चाहे कितना ही बड़ा हो—मँगाता और पहाड़ी पर लगवाता है। इस तरह उसने दुनिया भर के सुन्दर वृक्षों का एक उपचन तैयार कर लिया है और सारी पहाड़ी को हरे रंग से ढक दिया है। पहाड़ी के बृक्ष ही हरे नहीं हैं वरन् वहाँ की जमीन का रंग भी हरा है। इसीलिए इस पहाड़ी को 'कोह सब्ज़' अर्थात् 'हरित पर्वत' कहते हैं। इस पहाड़ी पर एक महल भी है जो बाहर भीतर चारों ओर हरे रंग से रंगा हुआ है।

खांआजम ने अपने इस महल की भाँति एक और महल भील की दूसरी ओर अपने उत्तराधिकारी युवराज के लिये बनाया है।

महल के सभीप ही नगर है। ज्योतिषियों ने 'खांआजम' को बताया था कि पुराने नगर के निवासी बिद्रोह करेंगे अतएव उसने एक नया शहर नदी के उस पार बसाया जिसका नाम

‘तीतू’ रक्खा। कुछ लोग पुराने शहर के, शेष नये आदमी इस नगर में लाकर बसा दिये। यह नवीन नगर २४ वर्गमील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और उसके चारों ओर छः छः मील लम्बी ‘शहर पनाह’— (नगर की रक्खा करने वाली मजबूत चहारदोवारो) है जो दस किलोमीटर ऊँची है। शहर पनाह पर मारचे बने हुए हैं। इसमें (शहर पनाह में) १२ फाटक हैं। प्रत्येक फाटक के दोनों ओर दो दो बुर्ज हैं। इस तरह प्रत्येक दिशा में ३ फाटक और पाँच बुर्ज हैं। ये बुर्ज शस्त्रागार का काम देते हैं। नगर में जगह २, सुन्दर इमारत, मकान और सरायें हैं। सड़कें इतनी चौड़ी, साफ़ और सोधी हैं कि एक फाटक से ६—६ मील दूरी का दूसरा फाटक साफ़ दिखाई पड़ता है। सड़कों के द्वारा वर्गाकार मुहल्ले बनाये गये हैं और इस तरह वे शतरंज के खानों की भाँति वर्गाकार कट गये हैं। शहर में अनेक सुन्दर घणीचे हैं। शहर के बीच में एक घरटा है जो रात में ३ बार बजाया जाता है जिसके पश्चात् कोई मनुष्य बाहर नहीं जाने पाता किन्तु बीमारों को चिकित्सा के लिये अथवा कोइ बहुत आवश्यक काम एक बारगो आ पड़ने पर लालटेन साथ लेकर जा सकता है। प्रत्येक फाटक पर एक हजार सेना रहती है जो नगर रक्खा का काम करती है।

‘खां आज्जम’ के यहां बारह हजार सवारों का एक दल है जिसे ‘कशीकान’ कहते हैं। प्रति तीन हजार पर एक सेनाध्यक्ष होता है। हर तीन हजार को बारी बारी से तीन रात और तीन दिन तक ‘खां आज्जम’ के महल पर पहरा देना होता है।

जब खां आज्जम किसी बड़े भोज में ‘दस्तरखान’ (भोजन का कपड़ा) पर बैठता है तो उसका ‘दस्तरखान’ सब से ऊँची

जगह पर उत्तर की ओर लगाया जाता है। उसकी बाइंडोर सबसे प्यारी बेगम बैठती है। उसके सीधे, जरा नीची जगह पर उसके बेटों और राजवंश के अन्य सम्बन्धियों के बैठने की जगह होती है। यह जगह इतनी नीची रखी जाती है कि बैठने पर नीचे की पंक्ति वालों के सर 'खां आजम' के पैर तक रहते हैं। दूसरी पंक्ति वालों के नीचे बड़े २ सरदारों की जगह होती है। 'खां आजम' के लड़कों की स्थियाँ, भटीजियाँ भांजियाँ और दूसरी सम्बन्धी स्थियाँ, उससे दहने हाथ के नीचे वाले 'दस्तरखान' पर बैठती हैं और उनसे भी नीचे सरदारों की बीबियाँ। ये बातें इस ढंग से की जाती हैं कि 'खां आजम' की दृष्टि सब ओर पहुँचती रहे। कमरे के बाहर हजारों आदमी रहते हैं जो 'खां आजम' के नजारे देने आते हैं। 'खां आजम' के पास ही तीन वर्गाकार तख्ते तीन कढ़म के अन्तर से लगे होते हैं जिनमें सोने का फोल चढ़ा होता है और बेल बूटे बने होते हैं। बीच का तख्ता खाली होता है जिसमें एक सुनहला चौड़ा पात्र रखा जाता है जिसके चारों कोनों पर चार छोटे २ पात्र होते हैं। बड़े पात्र में स्वादिष्ट और सुगन्धित शराब भरी जाती है जो अपने आप चारों छोटे पात्रों में चली जाती है शेष दो तख्तों पर 'खां आजम' के सुनहले प्याले और सुराहियाँ रखी जाती हैं। एक सुराही आठ आदमियों के लिये काफी होती है। दो दो आदमियों के बीच एक सुराही और दो दो दस्ते लगे हुए प्याले रखे जाते हैं। ये सुराहियाँ और प्याले मई औरत सभी के पास एक ही तरह से रखे जाते हैं।

किसी किसी सरदार को यह काम सौंपा जाता है कि वह दूसरे देशों के निवासियों को जो शाही क़ायदों से अपरिचित हैं यथायोग्य स्थान पर बिठावें। ये सरदार इधर इधर घूमकर

अभ्यागतों की आवश्यकताओं को देखते और नौकरों से उनकी पूर्ति कराते रहते हैं। हर दरवाजे पर और मुख्यतः 'खाँ आज़म' के निकट के दर्वाजों के पास दो मजाबूत जवान आसा (लाठी) लिये हुए खड़े रहते हैं। उनका काम है कि वे किसो का ड्योढ़ा पर पैर न रखने वें क्योंकि ड्योढ़ी पर पैर रखना बुरा समझा जाता है। यदि कोइं भूल से पैर रख देता है तो उसे खूब पीटते हैं अथवा उसके कपड़े उतार लेते हैं और जब तक वह ज़मा नहीं भाँगता, कपड़े नहीं पा सकता। अपरिचित तथा अन्य देशों से आये हुए लोगों को पहले ही यह बतला दिया जाता है किन्तु शराब पीकर दर्वाजे से निकलते समय इसका विचार नहीं किया जाता क्योंकि मेहमान नशे में होते हैं और उनके पैर ठीक नहीं पड़ते।

'खाँ आज़म' के सामने खाने की तश्तरियाँ और शराब की सुराहियाँ सरदार लांग उपस्थित करते हैं किन्तु उस समय उनके मुँह और नाक पर रेशमी रुमाल बँधे होते हैं जिससे कि उनकी साँस अथवा शरीर की दुर्गन्ध से खाने अथवा शराब को कुछ हानि न पहुँचे। जब 'खाँ आज़म' शराब का प्याला उठाता है तो अनेक प्रकार के बांज बजने लगते हैं। उमरा और अभ्यागत सभी घुटनों के बल होकर उसे आशीर्वाद देते, उसको ग्रंथसा करते तथा 'शाही शिष्टाचार' पूरा करते हैं। खाँ आज़म के हर प्याले पर ऐसा ही होता है।

भोज के बाद 'बाजीगर' और तमाशा दिखाने वाले उपस्थित हो अनेक प्रकार के विचित्र करतब दिखा कर बादशाह तथा दर्शकों को प्रसन्न करते हैं। इसके पश्चात् सभा विसर्जित होती और प्रत्येक मनुष्य अपने अपने घर चला जाता है।

तातारियों की रीति के अनुसार 'खां आज़म' प्रति वर्ष २८ सितम्बर को अपनी वर्ष-गांठ का उत्सव मनाता है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से होता है। उस दिन वह बहुमूल्य जारदोजी और रेशमी वस्त्र पहनता है। १२ हजार सरदार भी उसी तरह के कपड़े पहनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक सुनहला पटका कमर में लगाता है। ये चीजें बड़ी मूल्यवान होती हैं और खां आज़मकी ओर से दी जाती हैं। प्रति वर्ष में १३ बार ऐसे सामान सरदारों को शाहंशाह की ओर से मिलते हैं। इन कपड़ों पर रंग हर बार बैसा ही होता है जैसा कि सम्राट की पोशाक का होता है। इस उत्सव के दिन सब सरदार 'खां आज़म' को अच्छो-अच्छी, चीजें भेंट देते हैं। जो लोग नौकरी के लिये आते हैं वे भी ऐसा ही करते हैं। प्रत्येक धर्म के अनुयायी उस दिन खूब रोशनी करते और ईश्वर से सम्राट की दीर्घायु के लिये प्रार्थना करते हैं।

'खां आज़म'—'जश्न नौरोज' (नये दिन का उत्सव) भी मनाता है जो कि फरवरी महीने में होता है। उस दिन 'खां आज़म' और सम्पूर्ण मनुष्य इस विचार से श्वेत वस्त्र पहनते हैं कि श्वेत वस्त्र सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। लोग आपस में भी एक दूसरे को सफेद चीजें देते—भेंटते, प्यार से चुम्बन करते तथा प्रसन्नता मनाते हैं। इस उत्सव में खां आज़म के पास लगभग एक लाख सकेद घोड़े और अन्यान्य जानवर सब समानों के साथ आ जाते हैं। नज़र वो हुई तथा भेंट में आई हुई चीजों का मूल्य इन पशुओं के मूल्य का प्रायः नौगुना होता है। इस दिन खां आज़म के सुनहरी भूलों तथा मनोहर अम्बारियों से सजे हुए एक हजार हाथी (जिनके पीछे सामान से लदे हुए ऊटों की क़तार होती है) उसके सामने से गुजारते हैं।

भोज के दूसरे दिन सब अधीन बादशाह—सरदार और

राज्य कर्मचारी एक बड़े कमरे में 'खां आज़म' से थोड़ी दूर पर खड़े होते हैं और जब कभी कमरा भर जाता है तो उसके बाहर भी खड़े होते हैं। उस समय एक 'इमाम' खड़ा होकर उन लोगों से कहता है कि 'खां आज़म' के सामने सर नीचा करके उसकी 'बन्दना करो' अतएव सब लोग बन्दना के लिये चार बार मुक्ते हैं यहाँ तक कि उनके सर जमीन से लग जाते हैं। इसके बाद नज़रें दी जाती हैं, दावत होती है और सब के अन्त में तमाशे। उस रोज एक शेर खुला हुआ 'खां आज़म' के सम्मुख उपस्थित किया जाता है जो बड़े आदर के साथ पैर उठाकर सम्राट की बन्दना करता है।

दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के महीने में 'खां आज़म' जब राजधानी में रहता है तो चारों ओर चालीस दिन की यात्रा के भीतर के देशों के रहने वाले लोग शिकार खेलते हैं और मार-मार कर नाना प्रकार के पश्च पक्षी सम्राट के पास भेजते हैं। जो हस्से अधिक दूर के रहने वाले हैं वे केवल खाल ही भेजते हैं। 'खां आज़म' के यहाँ बहुत से शिकारी तेंदुये, चीते, शेर और बाज़ इत्यादि भी हैं जो जंगली पशुओं—रीछों, गधों, सुअरों, हिरनों, बकरियों और लोमड़ियों का शिकार करते हैं।

'खां आज़म' के दो सरों भाई हैं जो 'कोनेची' अर्थात् 'कुत्तों के सरदार' कहलाते हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक के अधिकार में दस हजार आदमी और पाँच हजार कुत्ते होते हैं। एक का नाम 'बायां खां' है और दूसरे का 'मनगार खां'। एक मुराड की बर्दी लाल और दूसरी की नीलो है। दोनों अपने अपने दल को साथ लेकर हर साल अबदूबर से मार्च तक शिकार खेलते हैं और एक एक हजार शिकार 'खां आज़म' को भेट स्वरूप देते हैं।

पहली मार्च को 'खां आज़म' दो दिन की यात्रा पूर्ण करके समुद्रतट पर पहुँचता और बाज़ों से पक्षियों का शिकार करता है, उस समय उसके साथ दस हज़ार आदमी होते हैं जिनको 'तूसकाऊ' कहते हैं। सौ सौ बाज़ों की सैकड़ों टोलियों पक्षियों पर एक साथ छोड़ी जाती हैं। हर बाज़ के पैर में एक चिन्ह होता है जिस पर मालिक और पालक का नाम लिखा होता है, इससे बाज़ खोने नहीं पाते। जिन पर नाम इत्यादि नहीं होता वे एक अधिकारी के अधीन कर दिये जाते हैं जो 'बोलज़योची' अर्थात् 'पता न लगने वाली वस्तुओं का कार्याधिकारी'—कहलाता है। जिस समय किसी मनुष्य को कोई वस्तु मिले और उसी समय उस अफसर के पास न पहुँचा जाय तो उस आदमी को सजा मिलती है।

'खां आज़म' को गठिया का रोग है अतएव वह अम्बारी में चलता है जो चार हाथियों पर कसी हुई होती है और उसके साथ कुछ चालाक शिक्षित बाज़ होते हैं। उसके दोनों ओर घोड़ों पर सरदार सवार होते हैं जिससे कि 'खां आज़म' उनसे बातचीत कर सके। जब सरदार किसी पक्षी को देखते हैं तो 'खां आज़म' को बता देते हैं और वह उन पर बाज़ छोड़ देते हैं।

एक स्थान पर जिसे 'कचार मूँडन' अर्थात् 'वृक्षों का ग्राम' कहते हैं खां आज़म, उसके बेटों, सरदारों और बेगमों के दस हज़ार खीमे लगाये जाते हैं जहाँ वह शिकार के बाद कुछ दिन तक विश्राम करता है। इस स्थान पर उसका दरबार भी लगता है। ये खीमे बहुमूल्य होते हैं और चारों ओर समुदार पशुओं की खालों से मढ़े हुये होते हैं। जितने लोग इस सेना में होते हैं,

उनके वंश के लोग भी साथ ही होते हैं। इतना बड़ा मुरड, एक शहर के समान जान पड़ता है।

इस स्थान के चारों ओर बीस दिन की यात्रा तक के स्थान में बाज़ नहीं पाला जाता और मार्च से अक्टूबर तक सम्पूर्ण साम्राज्य में किसी को भी 'खरगोश, बारहसिंह' और हिरन के शिकार की आज्ञा नहीं है। यहाँ तक कि यदि वे सड़क पर सोते हों तो उन्हें जगाया भी नहीं जाता। जो मनुष्य इसके विरुद्ध चलता है, दुर्ग का भागी होता है। मई मास के मध्यांश में वह इस स्थान से शिकार खेलता हुआ चलकर राजधानी में पहुँच जाता है। 'खां आज्ञाम' का वर्ष इस तरह बीत जाता है। छः महीने (सितम्बर से लेकर फरवरी तक) राजधानी में, तीन महीने (मार्च से मई तक) शिकार में और तीन महीने (जून से अगस्त तक) ग्रीष्म-प्रासाद में।

राजधानी की चहारदीवारी के बाहरी भाग में बाहर मुहल्ले आबाद हैं। उनमें शहर से भी द्यावा बस्ती है और देश देश के मुसाफिरों और समुद्र यात्रियों के लिये मुन्द्र निवास भवन बने हुये हैं। सरदारों के भी मकान हैं। शहर में मुरदे न तो गाड़े जाते हैं और न जलाये ही जाते हैं वरन् नगर के बाहर बौद्ध लोग तो एक स्मशान में जला दिये तथा मुहम्मदी एक क़ब्रस्तान में गाड़ दिये जाते हैं। शहर में वेश्यायें अथवा व्यभिचारिणी बाजार स्थियाँ भी रहने नहीं पातीं। वे शहर से बाहर अलग रहती हैं। इनकी संख्या लगभग बीस हजार के है। रात को नगर में तीस तीस, चालीस चालीस आदमियों का गारद गश्त करता रहता है और जो मनुष्य घर से बाहर मिलता है उसे पकड़कर रात को हवालात में रखता जाता और दूसरे दिन

सबेरे न्यायाधिकारी के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। यदि वह अपराधी सिद्ध होता है तो उसे इण्ड दिया जाता है।

राजधानी बहुत बड़ी है। प्रसिद्ध व्यापारी नगर होने के कारण सरायपस्थ दो सौ शहरों तथा देशों से व्यापारी वहाँ इकट्ठे रहते हैं। ये लोग बाहर से माल लाते हैं। प्रतिदिन प्रायः एक हजार गाड़ी रेशम शहर में आता है। इसके कपड़े बनाये जाते हैं क्योंकि सारे देश में 'सन' बिलकुल नहीं होता। रुई और पटसन बहुत ही कम होते हैं।

खाँ आज़म के यहाँ बारह बड़े बड़े सरदार हैं। जो शासन-प्रबंध करते हैं, उनमें एक व्यक्ति जिसका नाम 'अहमद' था, खड़ा शक्तिशाली था। उसने जादू के द्वारा खाँ आज़म को बस में कर लिया था, खाँ आज़म उसकी हर एक बात पर विश्वास कर लेता था। 'अहमद' जो चाहता, करा लेता। यदि किसी को कल्ल कराना चाहता तो खाँ आज़म से उसकी शिकायत करता और वह आदमी कल्ल कर दिया जाता। जिस मनुष्य पर वह दोषारोपण करता, उसकी ओर कोई खड़ा नहीं होता क्योंकि सब उससे डरते थे। यदि वह किसी खी को चाहता और कुमारी होती थी तो उसे अपनी बीबी बना लेता था और यदि व्याही होती तो उससे अपनी बुरो बासनायें पूरी कर लेता और उनके बाप भाइयों को अच्छे अच्छे ओहदे देकर सन्तुष्ट कर देता था। उसके लगभग पचीस बेटे थे जो कँचे कँचे ओहदों पर थे और सर्वदा नीच कर्मों में लीन रहते थे। इस प्रकार 'अहमद' ने बेईमानी और रिश्वत (घूस) से बड़ी दौलत पैदा कर ली थी।

इस तरह बेईमानी और अत्याचार करके वह बाईस साल

अपना आतंक जमाये रहा। प्रजा उसके अन्याय और अत्याचार से पीड़ित थी। अन्त में हार मानकर लोगों ने उसे कत्ल करने और बिद्रोह फैलाने का निश्चय किया। एक आदमी जो हजार का अफसर था और जिसका नाम 'शेंशो' था और दूसरा जो दस हजार का अफसर था और जिसका नाम 'वांशो' था—दोनों ने उसके कत्ल की तैयारी की। उस समय खां आज़म और उसके बेटे बहुत दूर ग्रीष्म प्रासाद में थे।

खां आज़म ने 'खता' देश तलवार के बलपर जीता था अतएव प्रजा पर उसका विश्वास न जम सका और उसने उनपर तातारी और मुहम्मदी अधिकारी नियत किये। उनके अत्याचारों से प्रजा घबड़ा गई थी। 'वांशो' और 'शेंशो' ने और सरदारों को भी अपने दल में सम्मिलित कर लिया और शहर शहर में ढिढ़ोरा विटा दिया कि अमुक दिन अमुक समय बिद्रोह फैला दो और जितने दाढ़ीवाले मिलें, उन्हें कत्ल कर दो^{*}। अतएव दोनों बिद्रोह नायकों ने नियत रात को महल में जाकर रोशनी की और अहमद के पास हुक्म भेजा कि "युवराज अचानक आ गये हैं और तुम्हे बुलाते हैं।" यह सुनकर अहमद महल को चला। जब वह फाटक पर पहुँचा तो उसे तातारी सरदार मिला जो बारह हजार सैनिकों का अध्यक्ष था। उसने अहमद से पूछा कि "कहाँ जा रहे हो?"। अहमद ने सब हाल कह सुनाया। सब हाल सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ मित्रों को साथ ले, वह भी अहमद के साथ हो गया। वह महल के दर्वाजे ही पर खड़ा रहा। 'अहमद' भीतर गया। उस समय अहमद शराब के नशे में था। दूर

* 'खता' देश के निवासियों को दाढ़ियाँ नहीं होतीं किन्तु मुहम्मदियों और तातारियों को होती हैं।

से उसने 'वांशो' को बैठा देख उसे ही शाहज़ादा समझा और ज्यों ही सर ज़मीन पर मुकाकर शाही सलाम करने लगा, 'शेंशो' ने जो उसी जगह छिपा हुआ था, झपटकर तलवार का एक भर-पूर हाथ उसकी गर्दन पर इस ज़ोर से लगाया कि उसका सर मुड़े की तरह अलग छटक गया ।

१३००० सैनिकों का अधिकारी जो फाटक के पास खड़ा था, दूर से सब कुछ देख रहा था । पहले उसने भी 'वांशो' को शाहज़ादा ही समझा था परन्तु जब उसने ये बारे देखीं तो घटना की वास्तविकता उसकी समझ में आगई । उसने एक तीर से 'वांशो' को समाप्त किया और 'शेंशो' को पकड़कर अपने साथियों से कहा कि "जाओ और गारद से कहो कि 'ख़ता' निवासियों में से जो कोई रास्ते में मिले, क़त्ल कर दिया जाय ।" जब 'ख़ता' वालों को मालूम हुआ कि सारा रहस्य खुल गया तो अपने घरों में ही बैठे रह गये । तातारी अफसर ने 'खां आजम' को इस घटना की खबर दी । वहाँ से उसे आज्ञा हुई कि अपराधियों को पर्याप्त दण्ड दिया जाय अतएव उसने पता लगाकर सम्पूर्ण विद्रोही नायकों को क़त्ल करा दिया ।

जब 'खां आजम' राजधानी में लौट आया तो उसे असल बात ज्ञात हुई अतएव उसने 'अहमद' का सब धन जब्त कर लिया और उसके बदमाश लड़कों को क़त्ल करा दिया । उनका मांस शिकारी कुत्तों को खिलाया गया ।

यहाँ आकर और यह जानकर धार्मिक सिद्धान्त से मुहम्मदियों में अधिक स्थियों से व्याह करना ठीक है उन्हें आज्ञा दी कि उसके राज्य के मुहम्मदी तातारी नियमों से शादियाँ किया करें । जानवर की गर्दन पर छुरी न फेरें वरन् उनके पेट फाँड़कर उन्हें गोश्त खाने के काम में लावें ।

राजधानी में ही 'खां आजम' का टकसाल है। वह तूत के बृक्षों के भीतर की छाल से कागज़ बनवाकर और उनके छोटे बड़े टुकड़े कटवाकर उन पर सरदारों, सूबेदारों और उमरावों की मुहरें लगवा देता है। यही टुकड़े रूपये के स्थान पर साम्राज्य भर में प्रचलित हैं। जो मनुष्य इन्हें लेने से इन्कार करता है, उसका सर उड़ा दिया जाता है।

भारतवर्ष और अन्य देशों के व्यापारी केवल 'खां आजम' को अपनी चीजों बेचने पाते हैं। इस क्रय विक्रय के लिये 'खां आजम' के यहाँ बारह सुचतुर मनुष्य नियत हैं। जिस वस्तु को वे अच्छा बताते हैं, खरीद ली जाती है। चीजों के मूल्य में उन्हें क्रागजी^१ रूपये (नोट) मिलते हैं जिनसे वे उस देश की वस्तुएँ खरीदते हैं।

साल भर में कई बार लोगों को यह सूचना दी जाती है कि जिनके पास सोना चाँदी या जवाहरात हैं वे खां आजम को बेच सकते हैं। उन्हें दाम में काफी रूपये मिलेंगे। इस तरह साम्राज्य की अनेक उत्तम वस्तुयें उसके पास इकट्ठी हो जाती हैं। जब किसी 'आमीर' अथवा सरदार को सोने चाँदी अथवा रत्नादि की आवश्यकता होती है तो वह मूल्य में क्रागजी रूपये देकर टकसाल से साम कर सकता है। जब कागजी रूपये हाथों की राड़ से अथवा बहुत दिनों तक काम में लाने से खराब हो जाते हैं तो वे तीन प्रतिशत बढ़े देकर नये रूपयों से बदल दिये जा सकते हैं।

*क्रागजी रूपये अथवा नोटों के क्षिवलाई खां के राज्य में प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। उससे भी चार सौ वर्ष पहले नवाँ शताब्दी में चीन में (जब 'संग धंश' राज्य करता था) क्रागजी रूपये अथवा नोट प्रचलित थे।

‘खां आजम’ ने अपने राज्य के चौंतीस सूबों में बारह बड़े अधिकारी नियत कर रखे हैं। ये बारहो सरदार शहर के भीतर एक उच्च और सुन्दर अट्टालिका में रहते हैं जिसमें उनके अलग अलग मकान और कच्छहरियाँ हैं। हर एक सूबे (प्रान्त) के लिए एक जज (अपराधों की जाँच करने वाला) बहुत से अहल-कार तथा अन्यान्य नौकर हैं। वे अपने अपने सूबों के दस्तरों में काम करते हैं किन्तु जब कोई बड़ी घटना हो जाती है और वे उसकी जाँच नहीं कर सकते तो उसे बारहो सरदार ‘खां आजम’ के सामने उपस्थित करते हैं और वह जिस तरह ठीक समझता है उसका निर्णय कर देता है। बारहो सरदार सूबेदारों को चुनकर केवल उसकी सूचना मात्र ‘खां आजम’ को दे देते हैं। वहाँ से उनकी स्वीकृति हो जाती है और ओहदे के अनुसार उन्हें सुनहरी तरिखियाँ मिल जाती हैं। इन सरदारों को सेना पर भी अधिकार प्राप्त है। वे जहाँ चाहें जितनी सेना भेज सकते हैं। इनका उपनाम ‘शंग’ है और उनके न्यायालय का भी यही नाम होता है।

राजधानी से हर सूबे को एक सड़क जाती है और उसका नाम उस सूबे के नाम पर रखा जाता है। सड़क पर प्रति पचास मील के पश्चात् एक सराय होती है जिसे ‘नीम खाना’ कहते हैं। यदि कोई बादशाह भी वहाँ जा निकले तो उसे भी किसी प्रकार का कष्ट न होगा। हर सराय में राजकीय समाचारवाहकों के लिये २०० से ४०० सौ तक घोड़े मौजूद रहते हैं। जिन स्थानों में सड़कें नहीं हैं वहाँ भी सरायें और घोड़े हैं। राज्य भर में सरायें हैं। सम्पूर्ण साम्राज्य में, अनुमानतः तीन लाख घोड़े केवल दूतों और हरकारों के लिये रखे गये हैं। सरायों की संख्या दस हजार से भी अधिक है।

दो दो सरायों के बीच तीन तीन मील पर एक

छोटा क़िला है जिसके चारों ओर लगभग चालीस घर होते हैं उनमें रहने वाले राजकीय हरकारे कहलाते हैं। उनकी कमर में एक चपरास तथा एक पटका होता है। पटके में बहुत सी घण्टियाँ लगी होती हैं। और जब ३ मील का रास्ता तेजी से पार करने लगते हैं तो घण्टियाँ बजती रहती हैं। घण्टियों की आवाज सुन-कर अगली मंजिल का हरकारा तैयार हो जाता है और जो चीज़ पहला हरकारा ले जाता है उसे वह ले लेता है और मंशी से जो वहाँ के दफ़्र में मौजूद होता है उस वस्तु के मिलने की रसीद पहले हरकारे को दिलवा कर आगे चलता है। इस प्रकार जो सूखे बहुत दूर दस दस दिन की यात्रा पर हैं उनका समाचार भी 'खां आज्ञम' को एक दिन रात में मिल जाता है। हरकारों को अधिक चलना भी नहीं पड़ता। चिट्ठियाँ भी इसी प्रकार भेजी जाती हैं। इन क़िलों अथवा चौकियों पर हरकारों के जाने आने का समय नियत रहता है जिसका निरीक्षण प्रतिमास उस विभाग का एक अफसर करता है। सुस्त हरकारों को सजा मिलती है। हरकारे कर अथवा अन्य किसी प्रकार के टैक्स से अलग हैं। उन्हें अच्छा बेतन मिलता है।

इन चौकियों पर एक विशेष प्रकार के चुने हुये हरकारे भी होते हैं जिनसे अधिक आवश्यकता आ पड़ने पर काम लिया जाता है। उनके कमर में भी घण्टियाँ बँधी होती हैं। जब किसी सुखेदार को कोई ज़रूरी हुक्म भेजना होता है या किसी सरदार के विद्रोही हो जाने की सूचना भेजनी होती है या ऐसा ही कोई दूसरा आवश्यक काम आ पड़ता है तो ये हरकारे दिन भर में ढाई ढाई सौ मील दौड़ते हैं और रात को इससे कुछ कम क्योंकि उनके साथ 'मशाल बरदार' होते हैं जिसके कारण तेजी से चलने का काम नहीं लिया जा सकता। ये हरकारे घोड़ों पर सवार हो-

कर सरपट दौड़ते हैं। घण्टियों की आवाज से दूसरी चौकी पर एक मजबूत घोड़ा और हरकारा तैयार मिलता है।

दौड़ते समय ये हरकारे अपने मुँह, पेट, छाती और सर मजबूत पट्टियों से बाँध लेते हैं अन्यथा पेट फूलने से इतना सफर घोड़े पर नहीं कर सकते और भर जाने का डर रहता है। हरकारे के पास एक तख्ती होती है जो इस बात का प्रमाण है कि वह बड़े जरूरी काम से जा रहा है। यदि संयोग वश उसका घोड़ा थक जाये अथवा उसके ऊपर कोई दूसरी आपत्ति आ पड़े तो जो सवार रास्ते में उसे मिले, उससे वह हरकारा घोड़ा ले सकता है। ऐसे सभी कोई व्यक्ति उसे अपना घोड़ा देने से इन्कार नहीं कर सकता। यदि रास्ते में कोई नदी अथवा झील होती है तो वहाँ की प्रजा तीन चार नावें हर समय तैयार रखती है जिनसे वह हरकारा सहज ही पार उतर सकता है। किशियों को इन चौकियों पर 'खां आजम' को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। वहाँ की प्रजा घोड़े हत्यादि सब आवश्यकीय वस्तुएँ तैयार रखती है। केवल उजाङ्ग देशों में सरकारी व्यय से घोड़ों का प्रबंध किया जाता है।

'खां आजम' के राज्य में सब जगह ऐसे अफसर भी हैं जो देश में दौरा कर के रिपोर्ट करते हैं कि अमुक स्थान पर अथवा अमुक देश में अकाल, सूखा, तूफान, टिहियाँ अथवा अन्य किसी कारण से लोग संकट में पड़े हैं। ऐसे स्थान की प्रजा से साल भर का लगान नहीं लिया जाता और उन्हें कृषि तथा भोजन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएँ दी जाती हैं। जिन लोगों के मवेशी किसी भी मारी अथवा किसी दूसरी मुसीबत में पड़कर भर जाते हैं उन्हें सरकार की ओर से मवेशी दिये जाते हैं।

यदि 'खाँ आजम' का तीर मवेशी के गल्ले में या किसी सामान भरी हुई नाव में जा लगे तो वह, गल्ले के स्वामी से अपने अधिकार का दसवाँ हिस्सा नहीं लेता और नाव के माल का महसूल (कर, टैक्स) माफ़ कर देता है क्योंकि किसी के माल पर तीर का लग जाना बुरा समझा जाता है। ऐसी चीजें खजाने में नहीं ली जातीं ।

सब सङ्कों पर थोड़ी थोड़ी दूर से दोनों ओर पेढ़ लगाये गये हैं जिससे पथिकों को चलने में आराम मिले और रास्ता पहचानने में सुगमता हो। जिन देशों में रेत के कारण पेढ़ उत्पन्न नहीं हो सकते उनमें पत्थर के खम्बे लगाये गये हैं। स्थान २ पर कुएँ और विश्राम स्थल भी बने हुए हैं।

'स्नाता' निवासी चावल और मसाले से एक प्रकार की शराब बनाते हैं जो स्वादिष्ट होती है। गर्मी होने के कारण इस शराब के पीने में और शराबों से शीघ्रता की जाती है। इस देश में एक प्रकार का काला शैल पत्थर, जो झावें की तरह होता है, अधिक परिमाण में पाया जाता है और जलाने के काम में आता है। इसकी आग अच्छी होती है और देर तक जलती है। इससे हम्माम (स्नानागार) भी गर्म किये जाते हैं।

सम्पूर्ण साम्राज्य में राजकीय शस्य-शालायें हैं। जब अनाज सस्ता होता है तो हजारों मन अनाज उस स्थान की आवश्यकता के अनुसार खरीदकर वहाँ रखा लिया जाता है और पूर्णतः सुरक्षित रहता है। जब देश में सूखा पड़ता है तो यह अनाज

*—इस पत्थर से आशय पत्थर के कोयले से है क्योंकि चीन में इसको काम में लाने का वर्णन 'इन चतूर्ता' और 'राणीदुर्दीन' ने भी अपनी २ यात्रा गुस्तकों में किया है।

प्रजा को बाजार भाव के चौथाई मूल्य पर दिया जाता है और इस प्रकार प्रजा का कष्ट दूर हो जाता है। 'खां आज़म' दान बहुत करता और गरीब गृहस्थों को साल भर के भोजन का सामान देता है। उसके दूरबार के पास ही 'अनाथालय' है। जो चाहे वहाँ जाकर गर्म रोटियाँ ले सकता है। प्रति दिन प्रायः तीस हजार आदमी इस अनाथालय से भोजन पाते हैं। सभ्याट गारीबों को कपड़े भी देता है। वह ऊन, रेशम, सूत और सन इत्यादि से दसवाँ हिस्सा लेता है। कारीगर सप्ताह में एक दिन की मजदूरी देते हैं जिनसे गर्म और ठण्डे कपड़े तैयार होते हैं जो एक स्थान पर इकट्ठे किए जाते हैं। सेना की पोशाक और वर्दियाँ भी इसी ढंग से तैयार की जाती हैं।

सातारी, बुद्ध धर्म भ्रहण करने से पहले दान देने को अच्छा नहीं समझते थे किन्तु बुद्ध धर्म मानने पर उनकी समझ में आगया कि दूसरे की सहायता करना पुण्य कार्य है।

राजधानी में लगभग ५००० ज्योतिषी हैं जिन्हें भोजन 'खां आज़म' के यहाँ से मिलता है। उनके पास दर्शक यन्त्र होता है जिसके ऊपर नक्षत्रों के चिन्ह, घराटे और इसी तरह की अन्य बातें लिखी रहती हैं। ये ज्योतिषी अपने यन्त्र के द्वारा मालूम कर लेते हैं कि किस मास में सूखा, किसमें युद्ध और किसमें विद्रोहात्मक क्रांतियाँ होंगी। इन सब बातों को बैचक में लिखते हैं जो 'तक्कीम' कहलाता है। ये लोग जब कुछ बताते हैं तो साथ ही यह भी कह देते हैं कि 'ईश्वर इन बातों में' न्यूनाधिक्य कर सकता है।' जो अच्छे और बुद्धिमान ज्योतिषी हैं उनकी बड़ी प्रसिद्धि है।

जब कोई मनुष्य यात्रा की इच्छा अथवा कोई अन्य काम

करने का विचार करता है तो वह नज़ूमियों (ज्योतिषियों) से पूछता है कि इसका क्या परिणाम होगा ?' ज्योतिषी पहले तो उस आदमी से उसकी पैदाइस का साल, महीना, घण्टा और साइत पूछते हैं फिर हिसाब लगाकर बता देते हैं कि परिणाम क्या होगा ? जन्म पत्रिका का तातारियों में बड़ा प्रचार है।

तातारी लोग ईश्वर को पूजा करते हैं। घर घर में एक तख्ती पर ईश्वर का नाम लिखकर लटकाया जाता है। वे लोग उस तख्ती के आगे प्रति दिन धूप बत्तो इत्यादि जलाते और उसकी पूजा करते हैं। तातारी पूजा करते हुए प्रार्थना में शारीरिक शक्ति और बुद्धि की भिज्ञा माँगते हैं। उसके नीचे पृथ्वी पर एक देवता की मूर्ति होती है जिसे वे 'पृथ्वी का देवता' कहते हैं। उसके साथ उसकी स्त्री और बच्चों की मूर्तियाँ भी होती हैं। 'पृथ्वी देव' से प्रार्थना करते समय लोग सुन्दर शृतु, पृथ्वी की पदावार तथा पुत्र इत्यादि की प्रार्थना करते हैं।

तातारी आत्मा को अमर बताते हैं। उनका कहना है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसकी आत्मा भी दूसरे रूप में जन्म ग्रहण करती है। जैसे यदि कोई गरीब अच्छा काम करे तो दूसरे जीवन में अमीर के घर और यदि अमीर आदमी बुरा काम करे तो दूसरे जीवन में गरीब के घर पैदा होगा।

तातारी वडे मृदुभाषी हैं। नरमी से बात-चौत करते हैं। ललाट पर हाथ रखकर एक दूसरे को सलाम करते हैं। एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं और अपने माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते

हैं। जो लोग माता पिता अथवा अपने अभिभावकों की सेवा अथवा उनका आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें दण्ड देने के लिये 'खां आज़म' की ओर से अलग एक विभाग है।

अपराधी हर तीन साल बाद छोड़ दिये जाने हैं किन्तु पहचानने के लिये उनके शरीर पर एक विशेष चिन्ह कर दिया जाता है। 'खां आज़म' ने चाँदमारी बन्द कर दी है जिसकी पहले इस देश में बहुत अधिकता थी।

सब सरदार और मंसबदार 'खां आज़म' के आदर और सम्मान के लिये महल से आध मील के अन्दर बड़े सुशील, उप-कारी तथा शुद्धाचारी बने रहते हैं। जब कोई 'खां आज़म' की सेवा में उपस्थित होता है तो अपने साथ एक उगलदान ले जाता है और उसी में थूकता है। थूकने के बाद उसे ढँककर अलग रख देता है। कोई मनुष्य दरवार में नहीं थूक सकता। प्रत्येक व्यक्ति के पास चमड़े की एक नई और स्वच्छ चट्टी होती है। दरवार के दरवाजे पर पहुँचकर, वह उसे पहनकर 'खां आज़म' के सामने जाता है जिससे कि सुनहला रेशमी कर्श मैला न हो सके।

तिब्बत और बंगाल

'खता' देश से जब उत्तरी सूबों को रवाना होते हैं तो राजधानी से दस मील के अन्तर पर एक नदी है जिस पर पुल बना हुआ है। उसे 'पुल संगीन'^{*} कहते हैं। यह पुल तीन सौ

* पुल संगीन—'पुल संगीन' का अर्थ 'पत्थर का पक्का और मज़बूत पुल' है। किन्तु रशीदुर्रहीन ने इस नदी का नाम 'संगीन' लिखा है। पाचीन समय में 'खां आज़म' की राजधानी से पश्चिम की ओर एक 'शंगान हो'

क्रदम लम्बा और आठ कदम चौड़ा है। दस सवार उस पर से जा सकते हैं। इसमें चौबीस महराबदार दरवाजे और लगभग इतनी ही पनचकियाँ हैं। पुल बहुत मज़बूत है और सुंदर संगमर्मर का बना हुआ है। पुल के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर संगमर्मर का शेर बना हुआ है जिन पर संगमर्मर का एक एक सुन्दर खम्भा खड़ा है और उन खम्भों पर संगमर्मर का एक एक शेर बना हुआ है। इन खम्भों तथा शेरों के बीच की खाली जगह में संगमर्मर की लम्बी पट्टियाँ छड़ की तरह लगी हुई हैं जिससे कोई नदी में गिर न सके। यह पुल देखने में बड़ा सुन्दर जान पड़ता है।

पुल से आगे बराबर सरायें, मुसाफिरखाने, अंगूरिस्तान, और बड़े बड़े बगीचे तथा चश्मे, तीस मील तक मिलते हैं जिसके बाद 'जूजू' (आज कल का 'चीचू') नगर आता है जिसमें बौद्धों के मठ और मन्दिर हैं। यहाँ के निवासी अधिकांश रूप से व्यापार करके अपना काम चलाते हैं। 'जूजू' से एक मील आगे बढ़ने पर दो सड़कें मिलती हैं, एक 'खता' सूबे में से होकर जाती है और दूसरी 'मन्नरी' (कोचीन) प्रान्त से।

'खता' वाली सड़क से आगे कुछ दूर जाने पर 'टंगचू' जा पहुँचते हैं। यह एक अच्छा व्यापारी नगर है। 'जूजू' और 'टंगचू' के बीच एक नगर और भी पड़ता है जिसे 'जँगतन राफू' कहते हैं। यह नगर इस ओर 'खां आज़म' के शिकार की अंतिम सीमा है। यहाँ 'खां आज़म' उसके पुत्रों तथा उन लोगों के अतिनदी बहती थी और इस समय भी चीन में एक नदी 'शंगान' है जो 'हान' नदी में गिरती है। शायद नदी के ही नाम पर पुल का नाम रखा गया हो।

नदी बहती थी और इस समय भी चीन में एक नदी 'शंगान' है जो 'हान' नदी में गिरती है। शायद नदी के ही नाम पर पुल का नाम रखा गया हो।

रिक्त—जिनके नाम बाज़ पालने वालों की सूची में लिखे हुए हैं—
और कोई मनुष्य शिकार नहीं खेलने पाता किन्तु उस और जब
'खां आज़म' बहुत दिन तक शिकार खेलने नहीं गया तो खरगोशों
की संख्या बढ़ जाने से खेती की बड़ी हानि पहुँची। जब यह बात
'खां आज़म' को ज्ञात हुई तो उसने अपने बहुत से सरदारों और
दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचकर महीनों तक खूब शिकार किया।
इस तरह खरगोशों की संख्या बहुत कम हो गई।

'टंगचो' व्यापारी नगर है। व्यापार बहुत अधिक होता है,
क्योंकि यहाँ 'खां आज़म' की सेना के लिये कपड़े तथा अन्य
आवश्यकीय वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। यहाँ अंगूर बहुत अधिक
होते हैं जिनकी शराब बनाई जाती है। सम्पूर्ण 'खता' प्रान्त में
शराब का यही एक कारखाना है। यहाँ से बनकर शराब बाहर
भेजी जाती है। रेशम भी बहुत अधिक पैदा होता है।

'टंगचो' से सात दिन की यात्रा के बाद (जो आबाद और
हरे भरे देश में होकर करनो पड़ती है) 'प्यानफो' पड़ता है जहाँ
व्यापार और शिल्पकारी होती है और रेशम बहुत पैदा
होता है।

'प्यानफो' के पश्चिम दो दिन को यात्रा पर एक सुदृढ़
विशाल गढ़ है जिसे 'कीचू' कहते हैं। यह गढ़ इस देश के
प्राचीन राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ एक महल भी है।
उसके बड़े कमरे में उस देश के सब बादशाहों की रंगीन तसवीरें
दीवारों पर बनी हुई हैं। वहाँ के बादशाह को "सुनहरा बादशाह"
कहते हैं। महल में उसके रहने के सभी गोरी, खूबसूरत लड़-
कियों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता था। जब वह गढ़ के
बाहर इधर उधर हवा खाने निकलता था तब भी लड़कियाँ एक
हलकी गाड़ी पर उसे बिठाकर स्वयं उसकी गाड़ी खींचती थीं।

यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बादशाह और 'बांग खाँ' में कुछ अनबन हो गई थी किन्तु वह इतना शक्तिशाली था कि 'बांग खाँ' उसका कुछ नहीं कर सकता था। वह लहू घृट कर रह जाता था।

एक दिन 'बांग खाँ' के पास उसके सब्रह वीर और बुद्धि-मान सैनिकों ने पहुँचकर कहा कि "हम लोग उस बादशाह को जीवित पकड़कर ला दे सकते हैं आप आज्ञा दीजिए।" बांग खाँ तो चाहता हो था उसने कहा—“इससे बढ़कर प्रसन्नता का काम और क्या हो सकता है?” अस्तु; वे आज्ञा लेकर “सुनहरे बादशाह” के दरबार में जा पहुँचे और उससे नौकरी की प्रार्थना की। बादशाह ने उन्हें नौकर रख लिया और हर बत्त अपने साथ रखने लगा क्योंकि उन लोगों ने उसकी सेवा इतनी मिहनत से की कि उन पर उसका पूरा विश्वास हो गया। दो साल बाद एक दिन बादशाह हवा खाने निकला तो इन सब्रह जवानों के अतिरिक्त साथ कोई नहीं था। जब बादशाह टहलते टहलते नदी के उस पार पहुँचा (जो कि महल से एक मील दूर था) तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से गुप्त इशारे किये जिसका मतलब यह था कि हम लोगों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिये इससे अच्छा समय फिर न मिलेगा। क्षण भर में सबों ने बादशाह को घेर लिया और उससे कहा कि “तू मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे क़ल्ले कर देंगे। बादशाह ने घबराकर कहा :—“यह तुम्हें क्या सूझी है और मुझे कहाँ लिये जाते हो?” जवानों ने जवाब दिया कि “बांग खाँ” के पास। बादशाह ने बहुत प्रार्थना की और अपने किये हुये उपकारों और सुध्यवहारों की याद विलाई किन्तु उन्होंने एक भी न मानकर उसे 'बांग खाँ' के पास पहुँचाया। 'बांग खाँ' अपनी इच्छा पूरी हुई देख प्रसन्नता से फूल गया और बादशाह

को व्यंग तथा आन्देप के साथ सलाम किया। बादशाह को इस घटना से इतना दुःख हो रहा था कि वह कुछ बोल न सका। 'बांग खाँ' ने आज्ञा दी कि "तुम्हें मवेशी चराने पड़ेंगे"। यह आज्ञा इसलिये दी गई कि बादशाह को ज्ञात हो जाये कि वह, उसकी बराबरी का नहीं था। बादशाह से दो साल तक चरवाहे का काम लिया गया। जब 'बांग खाँ' ने अपना दिल ठण्डा कर लिया तो उसे बुलाकर कहा कि "अब तुम्हें मालूम हो गया कि तू मर्री बराबरी करने योग्य नहीं हैं"। बादशाह ने जवाब दिया :— "इस समय के लिये तुम्हारा कथन ठीक हो सकता है"। फिर 'बांग खाँ' ने उसे सुन्दर वस्त्र पहनाकर आदर सम्मानपूर्वक उसके देश को भेज दिया। इसके बाद वह बादशाह, बांग खाँ का सर्वदा मित्र बना रहा।

इस गढ़ से बीस मील पश्चिम एक बड़ी नदी बहती है। चौड़ाई और गहराई की अधिकता के कारण उस पर पुल नहीं बँध सकता। उसे 'कारामूरून' (काली नदी) कहते हैं। मुगल इस नाम से 'हांगाहो' को याद करते हैं। यह नदी प्रशान्त महा-सागर में गिरती है और इसके किनारे अनेक नगर तथा कस्बे पाये जाते हैं जिनमें अधिकतर व्यापारी रहते हैं। वे नदी के द्वारा रेशम इत्यादि का बड़ा भारी व्यापार करते हैं।

नदी को पार करके दो दिन की यात्रा के बाद 'काचनफो' नामक नगर में जा पहुँचते हैं जिसके निवासी बौद्ध हैं। यहाँ जर-दोजी का बहुत बड़ा व्यापार होता है। 'काचनफो' से आगे चलकर एक हरे भरे देश की यात्रा करते हुये आठ दिन पश्चात् 'कंजानफो' (आज कल का 'काशनगांफो') में प्रवेश करते हैं। यह नगर बड़ा सुन्दर और घना बसा हुआ है। प्राचीन समय में यह एक शक्तिशाली साम्राज्य का केन्द्र स्थल था। इस समय

किंबलाई खाँ का बेटा मंगलाई खाँ इसका शासक है। यहाँ रेशम ज़रदोजी, फौज के सामान इत्यादि का अच्छा व्यापार होता है। निवासी बौद्ध हैं।

मंगलाई खाँ का महल नगर से बाहर थोड़ी दूर पर बना हुआ है जिसके चारों ओर चर्चमें तथा भीलें हैं और पाँच मील के घेरे में दीवारें लिंची हैं। महल के आस-पास सेनायें रहती हैं। 'मंगलाई खाँ' न्यायी राजा है।

महल से पश्चिम की ओर तीन दिन की यात्रा पूरी करने के बाद एक बड़ी पहाड़ी घाटी में जा पहुँचते हैं जो कनकन (वर्तमान समय का हैनशांग) प्रान्त में है। यहाँ लोग कृषि और शिकार पर निर्वाह करते हैं क्योंकि हिरन, बारहसिंघे, शेर और रीछ अधिक पाये जाते हैं। इस पहाड़ी देश में सरायें और मुसाफिरखाने भी हैं। 'कन कन' प्रान्त में होकर बीस दिन की यात्रा करके 'इएडोचोन' को सीमा पर पहुँच जाते हैं। यहाँ सब तरह का अनाज अधिक परिमाण में होता है। निवासी प्रायः व्यापारी और कारीगर हैं। वे बुद्ध धर्म मानते हैं। यह देश दो दिन की यात्रा में समाप्त हो जाता है जिसके पश्चात् फिर बीस दिन तक पहाड़ों की यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में कहीं-कहीं बौद्ध लोग—जो खेती करते और पशुओं को पालते हैं—मिलते हैं। इसके कुछ दूर आगे जाने पर 'सनद आफो' (चंगतोको) नामक प्रान्त में प्रवेश करते हैं जिसकी राजधानी का भी यही नाम है और चौर्बास मील के घेरे में है। प्राचीन समय में एक प्रतापी बादशाह इस नगर का शासन करता था। उसने अपनी मुत्तु के समय नगर को अपने लड़कों में बाट दिया, प्रत्येक के हिस्से के चारों ओर रक्षा के लिए मजाबूत शहरपनाह (चहारदीवारी) लिंचा दी और फिर

इन तीनों हिस्से के चारों ओर एक बड़ी चहारदीवारी खिचाई जिसमें तीनों हिस्से अपनी चहारदीवारियों सहित आ गये। इस समय खाँ आजम ने इसे जीत कर अपने अधिकार में कर लिया है।

शहर के ठीक बीच में होकर एक नदी बहती है जो आगे जाकर समुद्र में गिरती है। इसे 'क्यांगशो' कहते हैं। इसका पाट बहुत अधिक है। नावों द्वारा इसमें बहुत व्यापार होता है। नगर में नदी के ऊपर न्यारह क़दम चौड़ा और आध मील लम्बा पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर संगमरमर के खम्भे हैं और उनपर लकड़ी की शिल्प-दाक्षिण्य से भरी हुई छत है। पुल के ऊपर लकड़ी के मकान इस प्रकार के हैं कि प्रातःकाल उन्हें खड़ा कर दिया और संध्या को उखाड़ दिया जाता है। उनमें दूकानें हैं जिनमें अच्छी बिक्री होती है। पुल ही पर 'खाँ आजम' का चिड़ियाघर है जिसे तुर्की भाषा में 'कंभरक' कहते हैं। इससे एक हजार अशक्ति रोज़ की आय होती है। इस नगर के आगे चलने पर पाँच दिन की यात्रा समाप्त करके (जिसमें गाँव और कस्बों की संख्या अधिक है—उनमें सभी प्रायः खेती करते हैं—कहीं-कहीं जंगली हिंस और रक्तलोलुप जानवर मिलते हैं) एक देश में प्रवेश करते हैं जिसमें बाँस बहुत उगता है तथा भयानक जंगली पशु पाये जाते हैं। इन हरे वॉसों में रात को आग लगा दी जाती है और वे सुलगते सुलगते जौर से फटते हैं जिनकी आवाज कई मील तक पहुँचती है। अवाज सुनकर सब भयानक हिंसक पशु भाग जाते हैं और यात्री रात को निर्भय यात्रा कर सकते हैं; तब भी ये जानवर बहुत कुछ हानि कर डालते हैं।

इसके आगे बीस दिन तक एक उखाड़ और भयानक देश

में होकर यात्रा करनी पड़ती है जिसे 'सिव्वत' कहते हैं। बहुत दूर चलने के बाद एक छोटा प्रान्त पड़ता है जिसमें नगर और कस्बे अधिकता से हैं। यहाँ के लोगों में यह विचित्र रीति है कि वह शुद्ध कुमारी वालिका को कभी अपनी लड़ी नहीं बनाते। उनका कहना है कि जब तक लड़कियाँ किसी तरह गुप्त रीति से किसी से भोग-विहार नहीं करतीं, व्याहने योग्य नहीं होतीं। अतएव उस देश की यूद्धी औरतें अपने यहाँ भी शुद्ध कुमारियों को यात्रियों के पास लाती हैं और जिसे वह आदमी पसन्द करता है उसे भोग विलास के लिये रात को उस पथिक के पास छोड़ जाती हैं। सुबह आकर अपनी लड़कियाँ ले जाती हैं। कभी-कभी तो एक पथिक के सामने बीस-बीस तीस-तीस लड़ियाँ उपस्थित की जाती हैं और जब तक वह ठहरता है, प्रतिदिन नई-नई सुन्दर लड़कियाँ उसके पास लाई जाती हैं। पथिक को 'छला' अथवा कोई और साधारण वस्तु खी को देनी पड़ती है जिसे लड़ियाँ शादी होते समय इस बात के प्रमाण में पेश करती हैं कि "मैं शुद्ध कुमारी न होने के कारण व्याह करने योग्य हूँ। मेरे पास इसके चिन्ह मौजूद हैं।" प्रत्येक खी के पास २० ऐसे निशान होने से उसको व्याहने वालों की कमी नहीं रहती क्योंकि जिसके पास जितनी ही अधिक ऐसी चीजें होते हैं उतनी अधिक उसकी इजजत को जाती है। ऐसी लड़ियों से बहुत से लोग शादी के लिये लालायित होकर प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे सुन्दर, चंचल तथा यौवन-भद्र से पूर्ण समझी जाती हैं किन्तु शादी होने के बाद प्रत्येक मनुष्य के बल अपनी व्याही हुई खी से ही सम्बन्ध रखता है अतएव उनमें दुराचार का भाव नहीं होता। निवासी बौद्ध हैं। शिकार मवेशी तथा जमीन की पैदावार पर निर्वाह करते हैं। वे चोरी

और असभ्यतापूर्ण व्यवहारों को पाप नहीं समझते। वे कभी दूसरों की भाषा का प्रयोग नहीं करते, यह बात उनके मातृभाषा-प्रेम का एक उत्कट उदाहरण है। ये लोग खाल और किरमिच के कपड़े पहनते हैं। इस देश में ऐसे बहुत से जानवर पाये जाते हैं जिनसे कस्तूरी निकलती है। यहाँ के लोगों ने ऊँचे कद के भयानक शिकारी कुत्ते पाल रखे हैं जो इन जानवरों का शिकार करते हैं। भेड़ों तथा अन्य पशुओं से ऊन भी निकाले जाते हैं। नदियों की रेत में सोना तथा इधर-उधर मूँगा और दालचीनी भी होती है। यहाँ के रहने वाले प्रायः जाङ्गूर हैं। इस देश के कुत्ते इतने जबरदस्त होते हैं कि भयानक जंगली बैलों को भी पकड़ लेते हैं। यह देश भी खाँ आज्ञम की छत्र छाया में है पर प्राकृतिक रूप से यह अलग ही है।

तिव्यत के पश्चिम में 'कनेढ़ो' नाम का सूचा है, उसका बाद-शाह खाँ आज्ञम को कर देता है। निवासी बौद्ध हैं। इस देश में एक भील है जिसमें अच्छे मोती पैदा होते हैं किन्तु 'खाँ आज्ञम' किसी को निकालने नहीं देता क्योंकि यदि अधिक संख्या में मोती निकाले जायें तो उनकी इज्जत घट जायगी। जो कोई इसके विरुद्ध करता है उसे एकदम फौसी की सज्जा दी जाती है। जब 'खाँ आज्ञम' चाहता है तो स्वयं मोती निकलता है। एक पहाड़ है जिसमें अच्छी जाति का पुखराज निकलता है। किन्तु इसके लिये भी वही नियम है।

यदि कोई पथिक इस देश के किसी निवासी की स्त्री, बेटी, बहन, माँ अथवा अन्य किसी रिश्तेदार स्त्री को बेइज्जत कर डाले तो इस बात को सौभाग्य का चिन्ह और देवताओं के प्रसन्न होने का प्रमाण समझते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई मुसाफिर ऐसा उन्हें मिल जाता है तो घर तथा स्त्री उसे सौंप कर वह स्वयं अपने अँगूर

के बगीचों में चला जाता है। जब तक वह मुसाफिर लौट नहीं जाता तब तक उसकी टोपी अथवा कोई दूसरी वस्तु दरवाजे पर लटकाई रहती है जिससे घर के स्वामी को मालूम होता है कि वह मुसाफिर अभी घर से गया नहीं है। जब तक वह वस्तु ढूँगी रहती है घर का स्वामी गकान में पैर नहीं रखता। मुसाफिर जिस लौटी को पसंद करता है उसके साथ खूब विहार करता है। इस देश में किसी प्रकार का सिक्का प्रचलित नहीं है बल्कि सोने के टुकड़े और कम दाम की चीजों के लिये नमक के टुकड़े लेने देने में बरते जाते हैं। इस देश में ऐसे भी जानवर पाये जाते हैं जिनसे कस्तूरी मिलती है। रक्तलोलुप पशुओं को भी कमी नहीं है। निवासी चावल और गेहूँ की शाराब बनाते हैं। लौंग और दालचीनी भा पैदा होती है।

‘कनेडो’ से दस दिन की यात्रा समाप्त करके ‘काराजंग’ (आज कल का ‘यन वन’) सूबे में प्रवेश करते हैं जिसमें छोटे छांट सात सूबे सम्मिलित हैं। निवासी बौद्ध और देश ‘स्लॉ आजाम’ के अधीन हैं। उसका लड़का इस देश का शासन करता है। वह वीर और बुद्धिमान है और न्याय पूर्वक राज्य कार्य करता है। देश हरा भरा और आबाद है। लोग खेतों करते और मवेशी पालने हैं। यहाँ अच्छी जाति के घोड़े पाये जाते हैं। राजवानों का नाम ‘याची’ है जो एक अच्छा व्यापारी नगर है। यहाँ के लोग चावल और गेहूँ अधिक पसन्द करते हैं किन्तु गेहूँ की रोटियाँ नहीं खाते क्योंकि रोटी उन्हें हानि पहुँचाती है।

इस देश के सिक्कों में कौड़ियाँ भी हैं। यहाँ खारे कुएँ हैं जिनके पानी से नमक तैयार किया जाता है। इस देश की यह रोति है कि यदि लौटी का मन हो तो दूसरे से प्रणयबद्ध हो सकती

है। यहाँ के लोग कच्चा मांस खा जाते हैं। वे उसमें स्वाद लाने के लिए केवल लहसुन और गर्म मसाले की चटनी लगाते हैं।

'याची' से १० दिन की यात्रा पर 'कारा जंग' नगर बसा हुआ है जो इसी सूबे में है। यहाँ का शासक 'खां आजाम' का एक लड़का है। निवासी बौद्ध हैं।

इस नगर के सभीप मीलों और नदियों में सोने के कण तथा पहाड़ों में उसके बड़े बड़े टुकड़े पाये जाते हैं। यहाँ के साँप के बड़े लम्बे और तगड़े होते हैं। लगभग दस कदम लम्बे और पीपे के बराबर मोटे होते हैं। सर के पास दो पैर धड़ में बाज़ के सं पंजे होते हैं। सर बहुत बड़ा और आँखें रोटी से बड़ी। मुँह आदमी निगल जाने के योग्य होता है; उसमें दाँत भी होते हैं। उसे देखकर बड़ा डर लगता है।

उसे शिकारी बड़ी चालाकी से मारते हैं। वह दिन को सूर्य की धूप के कारण जमीन के अन्दर मांद में पड़ा रहता है। रात को भोजन की खोज में बाहर निकलता है और किसी नदी या चश्मे में जाकर पानी पीता है। जो जानवर सामने पड़ जाता है उसे निगल जाता है। यहाँ तक कि शेर, रीछ और भेड़ियों के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता। शेर उसकी बराबरी का साहस भी नहीं कर सकता। अगर शेर उसके सामने पड़ जाय तो वह उसे भी चट कर जाय। वह इतना भारी होता है कि जिस रास्ते से जाता है उसमें दुम की रगड़ से लकीरें पड़ जाती हैं। जिस मार्ग से वह जाता है उसी से वापस आता है। शिकारी लोग लकीरें देखकर रास्ते में कई जगह इधर उधर लकड़ियाँ गाड़ कर उस पर तलवार की भाँति तेज़ लोहे का पत्तर सङ्का कर

* साँप नहीं यह कोई दूसरा जानवर होगा।

देते और ऊपर से उसे रेत से ढँक देते हैं। जब साँप उससे टकराता है तो वह हथियार उसके शरीर के आरपार हो जाता है इस तरह साँप के टुकड़े हो जाते हैं और वह मर जाता है। सबेरे कब्बे शोर मचाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि वह मर गया। तब शिकारी उसके मस्तक से 'जहर मोहरा' निकाल लंते हैं। यदि किसी आदमी को पागल कुत्ता काट खाय या किसी को चोट लगी हो तो इस 'मोहरे' को ज़रा सा विसकर लगा देने से वह घाव अच्छा हो जाता है इसीलिए इस 'माहरे' को बहुमूल्य समझते हैं।

इस देश में अच्छे घोड़े पाये जाते हैं। यहाँ से वे भारतवर्ष भी भेजं जाते हैं। जोग उनकी दुम काट डालते हैं और फ्रांसीसियों की भाँति उन पर सवारी करते हैं। सवार होने के समय हथियार लगाते हैं। जो लोग चोरी करते हैं वे सांप का विष हर समय अपने पास रखते हैं और यदि पकड़े जाते हैं तो उसे खाकर आत्महत्या कर डालते हैं। इस जहर को उतारने के लिये लोग कुत्ते का मल काम में लाते हैं। इसके खाने से जहर खाने वाले को कै होती है और विप दूर हो जाने से वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता है।

जब तक 'खां आज्जम' ने इस देश को विजय नहीं किया था उससे पहले यहाँ के लोगों में एक बुरी रीति प्रचलित थी कि यदि उनके यहाँ संयोग वश कोई अच्छा विद्वान्, गुणी अथवा संभ्रांत कुलीन पुरुष आ जाता था तो वे उसे केवल इस विचार से कल्प कर डालते थे कि उनकी अच्छी बातें कहाँ उनके घर वालों में न आ जायें।

'काराज़ंग' से पश्चिम की ओर चल कर ५ दिन की यात्रा के पश्चात् 'जरदंदान' नामक सूबे में जा पहुँचते हैं। यहाँ के

लोग बुद्धधर्म मानते हैं। इसकी राजधानी 'विंचन' है। इस देश के पुरुष अपने दाँत पर सुनहरा पत्तर चढ़ाते हैं और सारे शरीर को गुदाते हैं जिसे वे सुन्दरता और सम्मति का मुख्य स्वरूप समझते हैं। पुरुषों में से अधिकांश शिकार खेलते और युद्ध करते हैं। स्त्रियाँ, सेवकों की सहायता से (जो युद्ध में पकड़ कर लाये जाते हैं) घर का सारा काम करती हैं।

इस देश में जब स्त्री को बच्चा पैदा होता है तो उसे नहला धुलाकर स्त्री घर के काम काज में लग जाती है और उसकी जगह पुरुष बच्चे के पास ४० चालीस दिन तक विस्तर पर पड़ा रहता है और उसके मित्र उसे देखने आते हैं, धन्यवाद देते तथा उत्सव करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि स्त्री ने बड़ा कष्ट सहन

* भिं० डेलर के कथनानुसार यह रीति 'परीनीज्ज' के 'व्यान' नामक एक ज़िले में भी पाई जाती थी और स्पेन के 'वास्क' नामक एक ज़िले में अब भी पाई जाती है। फ्रांसिस निविल के कथनानुसार विस्के की खाड़ी की घाटी में रहने वाले लोगों में भी यह रीति प्रचलित है। उत्तरी आसाम की सीमा पर 'मीरस' जाति में भी एक इसी तरह की चाल पाई जाती है और बच्चा पैदा होने के ५० दिन बाद तक पुरुष घर से बाहर नहीं निकलता। दक्षिणी अमेरिका के 'गिनी' प्रान्त के 'केरब' और वहाँ वसे हुए स्पेन वालों में, पीरु के 'अवीओनस' फ़िरफ़े, केलफोर्निया के प्राचीन निवासियों और 'मुलका' द्वीपसमूह के एक द्वीप में तथा दक्षिण (हिन्द) की एक जंगली जाति (जो तेलगृ से भिलो जुलो भाषा बोलती है) में भी ऐसी रीतियाँ पाई जाती हैं। 'यूडोस' लिखते हैं कि " इस प्रकार की रीति प्राचीन समय में 'कार्सिका' द्वीप में भी पाई जाती थी। 'स्ट्राय' के एक लेख से यह मालूम होता है कि उत्तरी स्पेन की 'अवीरियन' जाति में अब भी यह रीति प्रचलित है। बोर्नियो, कमसकटिका और धीन-लैण्ड में इसी तरह की रीति प्रचलित है। वहाँ जितने दिन पुरुष इस

किया है अतएव उसका चिर सम्बन्धी होने के कारण पुरुष को भी उसकी विपत्ति में कुछ भाग लेना चाहिये। ये लोग कहा और पक्ष दोनों प्रकार का मांस खा जाते हैं। पके हुए गोशत के साथ चावल भी खाते हैं। इनमें सोने का सिक्का चलता है। कम मूल्य की साधारण वस्तुओं के लिये कौड़ियाँ चलती हैं। चाँदी की एक ग्वान यहाँ से बहुत दूर ५ मास की यात्रा पर है अतएव जो व्यापारी चाँदी का व्यापार करते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है क्योंकि एक हिस्सा सोने के बदले वह केवल पाँच गुनी ही चाँदी देते हैं।

उनके यहाँ न मूर्तियाँ हैं और न मन्दिर ही हैं। वे केवल अपने वंश के श्रेष्ठ और आदर्श पुरुष की उपासना करते हैं। इन लोगों में लिखने की पारपाटी प्रचलित नहीं है। देश के चारों ओर पहाड़ और जंगल पाये जाते हैं। गर्भियों में यहाँ की हवा इतनी खराब हो जाती है कि यदि कोई समुद्र-यात्री वहाँ आने का प्रयत्न करें तो अवश्य मर जाये।

ये लोग जब किसी से लेन देन का व्यवहार करते हैं तो लकड़ी का गोल अथवा वर्गीकार ढुकड़ा लेकर बीच से दो हिस्से कर छालते हैं और उनमें दोनों दो तीन निशान अथवा दाँते बना देते हैं। जब ऐसी मनुष्य श्रण का धन चुका देता है तो अपने महाजन से वह दृसरा भाग उस ढुकड़े का ले लेता है।

इन तीनों सूबों (जिसका बर्णन ऊपर किया जा चुका है) में जब कोई मनुष्य बीमार पड़ता है तो प्रेतात्माओं को दूर करने वाले जादूगर बुलाये जाते हैं। वे बाजा बजाकर गाते और नाचते हैं; यहाँ तक कि एक मनुष्य नाचते नाचते जमीन पर मुरदों की

अवस्था में रहता है उने कुछ शास्त्रों तथा कुछ खाने, पीने की चीज़ों से दूर रहना पड़ता है।

भाँति बेदम होकर गिर पड़ता है। उस समय प्रेतात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। उस बेहोश आदमी के साथी उससे पूछते हैं कि 'रोगी की बीमारी का क्या कारण है।' वह बताता है कि "अमुक प्रेतात्मा उससे अप्रसन्न हो गई है और उसी ने रोगी कर दिया है।" यदि यह अच्छा होना चाहे तो दो तीन भेड़े और दस बारह शराब के मटके लावे। उस प्रेतात्मा को इन भेड़ों की बलि दी जाय। यदि रोगी को अच्छा हो जाने की आशा रहती है तो ऐसा ही जबाब मिलता है और उस रोगी के सम्बन्धीजन सम्पूर्ण वस्तुएँ एकत्र करके बलि चढ़ाते हैं और भेड़ों का खून लेकर वहाँ छिड़कते हैं। बहुत से मदे (स्त्रियाँ भी) गाते बजाते और नाचते हैं और हाथों में मशाल लेकर माँस के लोथड़े, शराब और खून इधर उधर फेंकते हैं। इसके बाद एक जादूगार नाचते नाचते गिर जाता है और उसके मुँह से भाग आने लगते हैं। लोग उससे पूछते हैं कि 'क्या रोगी को अपराध के लिये ज़मा कर दिया गया?' यदि वह कह दे कि अभी ज़मा नहीं किया गया—अमुक वस्तु और लाओ तो वह भी लाई जाती है और यदि कह दे कि ज़मा कर दिया गया तो फिर सब प्रसन्न होकर खूब गाते बजाते, गोश्ट खाते तथा शराब पीते हैं। रोगी भी अच्छा होकर उनमें जा मिलता है और खाता पीता है।

सन् १२७२ ई० में 'खाँ आज़म' ने 'काराज़ंग' और 'विंचन' एक बादशाह से विजय किये थे जो कि ब्रह्म देश और बंगाल के कुछ पहाड़ी हिस्सों का भी स्वामी था। उस बादशाह के देश के बहुत से आदमी 'खाँ आज़म' की प्रजा तथा उसके अधीन शासकों को तंग किया करते थे अतएव उसने (खाँ आज़म ने) एक बड़ी भारी सेना उनको ठीक करने के लिये भेजी। जब उस दूसरे बादशाह ने इस सेना के आने का हाल सुना तो दो हजार हाथी।

(जिन पर लकड़ी की अम्बारियों लगी थीं और हर एक अम्बारी में १६ आदमी सशस्त्र बैठ सकते थे) और सेलह लाख सवार तथा प्यांदे साथ लिये और यह सोच कर चला कि तमाम तातारियों को काट डालें। तीन दिन में वह तातारियों की सेना के पास जा पहुँचा। जब तातारी अध्यक्ष को उसके आने का समाचार मिला उस समय उसके पास केवल बारह हजार सवार थे किन्तु सब चुने चुनाये और अनुभवी। स्वयं सेनापति नासिर उद्दीन बड़ा अनुभवी साहसी और वीर था। उसे जरा भी डर न मालूम हुआ। वह पहले ही से मैदान में जा डटा और एक व्यूह बनाकर सेना को खड़ा कर दिया। शत्रुओं की सेना भी सामने जा डटी। सेना की सबसे अगली तथा मध्यम पंक्ति में उस बादशाह ने हाथी खड़े किये थे। इन हाथियों को देखकर तातारियों के घोड़े गड़बड़ाने लगे। तब सेनापति ने आज्ञा दी कि सवार घोड़े से नीचे उतर जायें, घोड़ों को वृक्षों से बाँध दें और शत्रुओं पर बाणों की धनधोर वर्षा आरम्भ कर दें। ऐसा ही किया गया। तातारियों के तीरों से शत शत सैनिक भूमि पर लोटने लगे। हाथी धायल होने के कारण क्रोध में भर गये और सेना को खड़-बड़ाते तथा कुचलते हुए जंगल की ओर भाग चले। उनकी अम्बारियों वृक्षों की शाखाओं से टकरा टकरा कर टूटने लगीं और उन पर बैठे हुए ३२००० आदमी सहज ही नष्ट हुए। कितने ही सैनिक हाथियों के पैरों से कुचल डाले गये और इस प्रकार अपने आप ही तातारियों के विपक्षी उस बादशाह की अधिकांश सेना नष्ट हो गई। जो बची उसका क्रम भी हाथियों के कारण टूट गया था और वे इधर उधर हो गयी थीं। ऐसे ही समय तातारियों ने घोड़ों पर सवार होकर उन पर धावा बोल दिया। अब तलवारों और बछ्रियों से भयानक युद्ध होने लगा।

किन्तु बादशाह की सेना का क्रम टट गया था और वे तितर-वितर हाँगई थीं अतएव विजय तातारियों की हुई। दोनों दल के बहुत आदमी मारे गये। दोपहर तक तो भयंकर मार काट मची रही, किन्तु दोपहर के बाद थोड़े से बचे बचाये तातारियों ने इतनी तेजी के साथ आक्रमण किया कि बादशाह की सेना उस आक्रमण को रोक न सकी। उसके पाँच उखड़ गये और वह भाग निकली। तातारियों ने पीछा करके हजारों को कल्प किया किन्तु जब उन्होंने देखा कि अब ये लोग लौटकर फिर लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे तो लौट आये। इस लड़ाई में उन्हें बहुत से हथियार तथा दो सौ हाथी मिले। पहले 'खाँ आजम' के यहाँ हाथी नहीं थे किन्तु अब से उसके यहाँ हाथी रखने का प्रबन्ध किया गया।

इस युद्ध-स्थल से चलकर ढाई दिन की यात्रा के पश्चात् हम एक स्थान पर पहुँचे जो चीन और भारतवर्ष की सीमा पर है। यहाँ सप्ताह में तीन दिन बाजार लगता है। सोना यहाँ बहुत होता है जिन्हें खरीदने के लिये व्यापारी आते हैं और पाँच हिस्सा चाँदी देकर एक हिस्सा सोना मोल ले जाते हैं। यहाँ से दो दिन के पहाड़ी सफर के बाद ब्रह्मा सूबे की उत्तरी सीमा पर जा पहुँचे जो भारत-वर्ष की सीमा से बहुत कम दूर है। पन्द्रह दिन की यात्रा के पश्चात् (जिसमें हाथी तथा गैंडे इत्यादि भयानक जानवर मिलते हैं) इस प्रान्त की राजधानी में जा पहुँचते हैं। यहाँ के लोग एक विचित्र भाषा बोलते हैं और बौद्ध हैं।

यहाँ से थोड़ा पूर्व एक प्रान्त है जिसका राजा बड़ा विषयी है। उसके तीन सौ बीबियाँ हैं। वह देश में जहाँ कहीं किसी झी की सुन्दरता की प्रसिद्धि सुनता है तो उससे भट

जबरदस्ती शादी कर लेता है। निवासी बुद्ध धर्म पर विश्वास करते हैं। ये लोग दूध, गोश्त और चावल खाकर निर्वाह करते हैं और चावल तथा मसाले से बनी हुई शराब पीते हैं। देश में सोना और मसाला बहुत होता है किन्तु समुद्र से बहुत दूर होने के कारण इस देश का माल प्रायः इसी देश में रह जाता है—चीजें सस्ती हैं। हाथी बहुत मिलते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग भी शरीर पर गुदना गुदवाना अच्छा समझते हैं। हाथ, पैर, गर्दन, छाती, मुँह, पेट तमाम शरीर पर ये सूई से गुदा कर फूल पत्ते बनवाने हैं और इसे सुन्दरता का चिन्ह समझते हैं। जितना ही अधिक किसी का शरीर गुदा होगा उतनी ही उसकी प्रशंसा होगी। इस देश का नाम 'केगीगो' (प्राचीन समय का 'कफची कूर्झ' और आज कल का 'क्याचीकूर्झ') है।

भारतीयचीन

(Indo-China)

‘कोगीगो’ के पश्चात् पूर्व दक्षिण की ओर एक प्रान्त है जिसे ‘अनेन’ (अनाम) कहते हैं। रहने वाले बौद्ध हैं। खियाँ पैरों और भुजाओं में सोने के गहने पहनती हैं। यहाँ से भारतवर्ष के घोड़े बहुत जाते हैं। देश में हरी घासों के लम्बे मैदान हैं। जो पशुओं के काम में आते हैं। प्रायः सभी आवश्यक वस्तुएँ यहाँ उत्पन्न होती हैं। ‘कोगीगो’ से ‘अनाम’ पहुँचने में पचीस दिन लगते हैं और ‘कोगीगो’ से वंगाल देश तक पहुँचने में तीस दिन को यात्रा करनी होती है।

‘अनेन’ अथवा ‘अनाम’ से आठ दिन की यात्रा करके ‘कोलोमान’ अथवा ‘तोतोमान’ में प्रवेश करते हैं। यहाँ के निवासी बुद्धमत मानते और एक विचित्र भाषा बोलते हैं। वे लोग ऊँचे क़द के मोटे ताजे और गेहूँ के रंग के होते हैं और अच्छे सैनिक हैं। वे मुरदों को जलाते हैं और हड्डियाँ किसी चीज़ में बन्दकर पहाड़ की ऊँची गुफाओं में रख देते हैं जहाँ वे जैसी की तैसी पड़ी रहती हैं।

देश में सोना बहुत पाया जाता है। व्यापारी अच्छी अवस्था में हैं। यहाँ के निवासी प्रायः मांस, दूध और चावल से निर्वाह करते हैं। वे, चावल और मसाले के योग से बनी हुई शराब पीते हैं।

‘कोलोमान’ से पश्चिम की ओर नदी के किनारे किनारे,

यात्रा करके हम लोग बारह दिन में 'कोइचू' नामक सूबे के 'फैगन' नामक प्रसिद्ध नगर में पहुँचे। यहाँ के निवासी व्यापारी हैं। कुछ लोग कारीगरी का काम भी करते हैं। ये लोग बीर होते हैं। इनका विश्वास बुद्धधर्म पर है। इस देश में कागज के रूप में उपयोग (अर्थात् नोट) प्रचलित है। यहाँ एक ऐसा पौधा अधिकता से पाया जाता है, जिसकी छाल के रेशों से गर्मी की ऋतु में पहले जाने योग्य कपड़े बनाये जाते हैं। इस देश में शेर इतनी अधिकता से हैं कि कोई मनुष्य मकान के बाहर सो नहीं सकता और इनके कारण नावों द्वारा नदियों की यात्रा में भी बड़ा डर रहता है। क्योंकि जिस तरह मकान के बाहर शेर आदमियों को मार डालते हैं उसी प्रकार, रात को नावों में भी जो नदियों के किनारे ठहरती हैं, आदमियों पर आक्रमण कर बैठते हैं और उन्हें खांच ले जाते हैं, इसीलिए नावों की यात्रा में प्रायः यात्री अपने साथ दो कुत्ते रखते हैं जो बड़े भयानक होते हैं और शेर का सामना करते हैं किन्तु उसके दाँव में नहीं जाते। शेर भी उनसे डरता है क्योंकि वे उछल उछलकर उसे नोच डालते हैं अतपश्च वह, इन कुत्तों पर आक्रमण नहीं करता। कोई कोई कुत्ता शेर को बहुत तंग करता है, यहाँ तक कि शेर, बृह्ण के तने अथवा दूसरी किसी वस्तु से पीठ लगाकर दो पैरों पर खड़ा हो जाता है। ज्योंही शेर ऐसा करता है त्योंही यात्री (जो अच्छे तीरंदाज होते हैं) उसके पेट में तीर मारकर उसका काम तमाम कर देते हैं। इस तरह कहीं यात्री इस देश में यात्रा करते हैं किन्तु तिसपर भी नदियों के द्वारा यहाँ खूब व्यापार होता है।

फैगन से चलकर बारह दिन बाद 'चंगतोको' नगर में पहुँचे जिसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं और जिसमें से होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 'चंगतोको' से चलकर ७० सत्तर दिन

बाद 'चूचू' पहुँचे, वहाँ से 'काकीकनो' पहुँचने में चार दिन लगे।

'काकनफो' (आजकल 'कानफो') एक प्रसिद्ध नगर है। उसमें से होकर एक नदी बहती है, जिसके द्वारा बड़ा व्यापार होता है। निवासी बौद्ध हैं जो व्यापार और कारीगरी करके पेट पालते हैं। रेशम यहाँ बहुत होता है जिससे रेशमी और जरदोजी कपड़े तैयार किये जाते हैं। इन लोगों में भी कागज के रूपये (नोट) प्रचलित हैं। मुरदों को जलाने की प्रथा है।

दक्षिण की ओर ३ तीन दिन की यात्रा करके 'चांगलो'^{५४} जा पहुँचे। यहाँ के रहने वाले मुरदों को जलाते और नमक बनाते हैं। इस देश में एक प्रकार की खारी मिट्टी पाई जाती है जिसे खोद-कर लोग ढेर लगा देते हैं और फिर उस ढेर पर पानी डालते हैं जो तली में होकर निकल जाता है। इस पानी को लोग आग पर उबालते हैं। पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक के छोटे छोटे ढुकड़े रह जाते हैं। यहाँ भी कागज के रूपये (नोट) चलते हैं।

पाँच दिन की यात्रा करके 'चंगलीफो' ('ननफो') नगर में प्रवेश किया। इसके बीच में होकर एक नदी बहती है जिसका पाट बहुत चौड़ा है। इस नदी से रेशमी माल, मसाला तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता है। यहाँ भी नोट चलते हैं।

यहाँ से ५ दिन की यात्रा के बाद 'तादनफो' नगर पड़ता है जो एक अच्छा नगर है। प्राचीन समय में इसकी ओर भी

* मिस्टर 'पाथर' लिखते हैं कि इस नगर का नाम 'चांगलो' है जो 'तसांगचू' से एक नहर के द्वारा अलग होता था किन्तु मासेंडन और मिसरे का कथन है कि इसी का नाम 'तसांगचू' है।

प्रसिद्धि थी क्योंकि उस समय यह नगर एक बड़े राज्य की राजधानी के रूप में था। अब भी यारह नगर उसके अधीन हैं। यहाँ रेशम बहुत पैदा होता है और व्यापार का भी जोर है।

सन् १२७३ ई० में खां आज्जम ने एक बड़ी सेना के साथ अपने एक सेनापति 'लीताखां' को यह देश विजय करने के लिए भेजा। जब वह इस नगर का घेरा कर चुका तो वहाँ ठहर गया और वहाँ के कुछ लोगों को मिलाकर उसने 'खां आज्जम' के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जब खां आज्जम को यह मालूम हुआ तो उसने दो सेनापतियों को एक बड़ी भारी सेना लेकर उसे हटाने के लिये भेजा। इन दोनों सेनापतियों में से एक का नाम 'मंगलोताई' और दूसरे का 'आरोल' था। यद्यपि इन्हें समय में 'लीताखां' बहुत सेना का संप्रह कर चुका था परन्तु अन्त में उसे हारना पड़ा। 'खां आज्जम' की आज्ञा से इस विद्रोह के बड़े बड़े नेता क़त्ल कर दिये गये और छोटे अफसर तमा माँगने पर छोड़ दिये गये।

'तादनफो' से दक्षिण की ओर चले। तीन दिन चलने पर 'संज्ञमातो' मिला। इस यात्रा में प्राकृतिक हश्यों की अधिकता थी। सुन्दर हरे भरे मैदानों से इधर का देश पटा पड़ा है। पहाड़ी भरनों से स्वच्छ पानी बहकर धाटियों को कभी सूखने नहीं देता।

यहाँ के निवासी बौद्ध हैं और देश में नोटों का अधिक प्रचार है। दक्षिण से बहती हुई एक नदी ने आकर इस नगर को और भी हरा कर दिया है। 'ना नवांग' के पास इस नदी की नगर निवासियों ने दो शाखायें कर दी हैं। एक पूर्व को जाती है और दूसरी शाखा, पश्चिम की ओर बहती हुई 'खाता' देश में ज़ा पहुँची

है। इस नदी में होकर जहाजों और किशियों के द्वारा अच्छा व्यापार होता है। हजारों जहाज और किशियाँ इरडोचाइना और 'खाता' को माल लाद कर जातीं और वहाँ से दूसरी चीजें लाद कर आती हैं।

यहाँ से दक्षिण की ओर चलें। आठ दिन की यात्रा के बाद एक नगर में पहुँचे जिसे 'सजू' * कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध नगर है। निवासी अच्छे सैनिक हैं। ये लोग अच्छी शिल्पकारी करते हैं। व्यापार भी होता है। शिकार के लिये यहाँ पक्षियों की अधिकता है। नगर के पास ही वह नदी बहती है जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। यहाँ भी जहाजों से अच्छा व्यापार होता है।

आगे चलने पर तीन दिन की यात्रा के पश्चात् 'पीचू' नाम का नगर मिला। यहाँ रेशम बहुत होता है। भिन्न भिन्न नगरों के साथ इस नगर का व्यापारिक सम्बन्ध है अतएव यहाँ, व्यापारियों की अधिकता है।

'पीचू' से दो दिन की यात्रा के बाद 'सीचू'† पहुँचे। यह एक अच्छा व्यापारी शहर है। निवासी बौद्ध हैं और मुरदों को जलाते हैं। यहाँ भी नोटों का प्रचार है। जमीन उपजाऊ होने के कारण गेहूँ बहुत होता है।

एक दिन रह कर 'सीचू' से रवाना हुये, रास्ते में खब प्राकृतिक दृश्य देखने में आये। रास्ता हरियाली से पटा होने के कारण चलने में अधिक तकलीफ नहीं हुई। तीन दिन की यात्रा के बाद

* इस नगर का नाम 'लंजन' भी है।

† मिस्टर पाथर के कथन अनुसार प्राचीन काल में इस नगर का नाम 'सीचू' था किस्तु अब इस नगर को 'सोतसन' कहते हैं। ऐसा ही भि० मरे ने भी लिखा है।

हम लोग 'कारामूरन' नदी के किनारे पहुँच गये। इस नदी का पाट पूरे एक भौल का है और यह इतनी गहरी है कि इसमें जहाज भलीभाँति चलाये जा सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। इस नदी में 'खां आजाम' की पंद्रह हजार बड़ी बड़ी किशितयाँ लंगर डाल कर पड़ी रहती हैं। यहाँ से समुद्र का किनारा केवल एक दिन को यात्रा पर है। नदी के दोनों तट पर ठीक आमने सामने दो नगर बसे हुए हैं। एक का नाम 'कोय गंजू' और दूसरे का 'केवाचू'। पहला एक बड़ा नगर है किन्तु दूसरा छोटा है।

'भारतीय चीन' में एक बादशाह था जिसे 'शगफूर' कहते थे। उसका देश इतना बड़ा था और उसके पास इतना धन था कि 'खां आजाम' के अतिरिक्त इन बातों में उसकी बराबरी का कोई न था। वह और उसकी प्रजा केवल औरतों की इच्छुक थी। उसके देश में धोड़े नाम के लिये भी न थे और प्रजा युद्ध-कौशल से बिलकुल अनभिज्ञ थी किन्तु इतने पर भी प्राकृतिक शक्तियों के कारण यह देश सुरक्षित था। यदि यहाँ के लोग युद्ध कला में निपुण होते तो यह देश कभी विजय न हो सकता।

'खां आजाम' ने सन् १२६८ ई० में अपने एक सेनापति को, जिसका नाम 'वायां खाँ' था, इस देश को (इण्डोचाइना—भारतीय चीन) विजय करने के लिये भेजा। फगफोर ने अपनी जन्म पत्रिका में देखा था कि सिवा सौ आँखों वाले अदमी के भेरा राज्य किसी से विजय नहीं किया जा सकेगा 'वायां' का वास्तविक नाम "वायां जंग सां" था और "जङ्ग सां" शब्द का अर्थ " सौ आँखों वाला " है। उधर शाह फगफोर को विश्वास था कि हमें कोई जीत नहीं सकता क्योंकि यह सम्भव ही नहीं कि किसी मनुष्य को सौ आँखें हों।

‘बायाँ’ एक भारी सेना लेकर इस देश में पुस गया और बढ़ते बढ़ते उस शहर में पहुँच गया जिसका नाम उस समय ‘कोंगनजो’ था (और आजकल ‘नहांगन फो’ के नाम से प्रसिद्ध है) किन्तु वहाँ के निवासियाँ ने अधीनता स्वीकार न की वे इस भरोसे पर थे कि हमें तो कोई जीत ही नहीं मिलता । ‘बायाँ’ यहाँ से आगे बढ़ कर दूसरे शहर में पहुँचा किन्तु वहाँ भी पहले शहर की सी दशा हुई । वह वहाँ से भी आगे बढ़ा क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि पीछे से एक दड़ी सेना उसकी सहायता को आ रही है ।

‘बायाँ’ इसी तरह पाँच शहरों से आगे निकल गया । जब वह छठे शहर में पहुँचा तो उसने धावा करके उस पर अधिकार कर लिया और इसी तरह बारह नगरों पर अधिकार करने के पश्चात् वह सीधे राजधानी ‘कंसी’ (आज कल—‘काटन’) की ओर बढ़ा, जहाँ बादशाह चैन और बेखबरी के साथ राज्य करता था ।

जब शाह फगफोर को ‘बायाँ’ की चढ़ाई का हाल मालूम हुआ तो वह बहुत घबड़ाया क्योंकि उसे आपनी सम्पूर्ण अवस्था में ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा था । अतएव एक हजार जहाजों में धन तथा और चीजें लाद कर वह एक टापू में चला गया किन्तु उसकी रानी ‘कंसी’ ही में रह गई और उसने बड़े साहस से शत्रुओं से लड़ने का प्रबंध करना आरम्भ कर दिया । किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि आक्रमणकारी, सौ आँखों वाला है तो उसे विश्वास हो गया कि इससे हम लोग नहीं जीत सकते क्योंकि उसके यहाँ के ज्योतिषियों ने ऐसा ही बतलाया था, तो उसने सारा देश किसी सोच विचार के बिना ‘बायाँ’ को सौंप दिया । यह घटना सन् १२७६ई० की है ।

इस देश में जो लोग इतने ग्रीष्म हैं कि बच्चों का पालन नहीं कर सकते, वे बच्चा पैदा होने पर एक स्थान पर उसे छोड़ आते हैं। बादशाह उन्हें अपने पास मँगा लेता है और नजू़-मियों के बुला कर उनके भाग्य के बारे में पूछता है। इसके पश्चात् उनका पालन-पोपण सर्कारी खजाने से किया जाता है।

जब किसी धनिक पुरुष को संतान उत्पन्न नहीं होती तो वह बादशाह के पास जाकर प्रार्थना करता है कि उसे इतने बच्चे मिल जायें, बादशाह उसे उतने बच्चे दे देता है। जब ये बच्चे जवान हो जाते हैं तो बादशाह उनकी शादी कर देता है। शादी का सारा सामान वह अपने पास से देता है। बादशाह को हर साल ऐसे बीस हजार बच्चे मिल जाते हैं।

‘शाह फ़ग़फ़ोर’ बड़ा दयालु और दानी राजा था। उसकी दयालत का एक छोटा उदाहरण यह है कि जब वह शहर में घमने निकलता था और उसे बड़ी बड़ी, अद्वालिकाओं के बीच कोई साधारण मकान दिखलाई देता तो वह लोगों से पता लगाता कि वह मकान किसका है और क्यों ऐसी खराब हालत में है। लोग उससे कहते कि “मकान अमुक मनुष्य का है जो अपनी ग्रीष्मी के कारण इस मकान को भली भाँति दूसरे मकानों की तरह नहीं बनवा सकता।” यह सुनने ही बादशाह अपने पास से उन मकानों को अच्छी तरह बनवाने का पूरा ख़र्च दे देता। बादशाह की इस उदारता के कारण, राजधानी में कोई भी मकान बुरी हालत में नहीं रह गया था।

बादशाह न्यायपूर्वक शासन करता था। उसके देश में कोई बादमाश मनुष्य नहीं था। उसके सच्चे न्याय के कारण दूकानदार, दुकानों को सर्वदा नुला रखते थे। लोग अपने घरों में तला नहीं लगाते थे।

‘बायो’ ने मलका को पकड़कर ‘खां आज्जम’ के सामने उपस्थित किया। ‘खां आज्जम’ ने उसका बड़ा आदर-सत्कार किया। शाह कराफोर फिर उस द्वीप से बापस वहाँ आया—मरते दृम तक वहाँ रहा।

यहाँ से हम ‘कोइगनजू’ पहुँचे और फिर वहाँ से दूसरी ओर का रास्ता लिया।

‘कोइगनजू’—इस देश में प्रवेश करने का पहला फाटक है। यहाँ के निवासी बुद्ध धर्म मानते हैं। यह शहर नदी के बिलकुल किनारे बसा हुआ है अतएव यहाँ बड़े जौर-शोर से व्यापार होता है। नमक यहाँ बहुत होता है जो लगभग चालीस शहरों में व्यापार के लिये भेजा जाता है उसके कर (टैक्स) और विक्री से बड़ी आय होती है जो ‘खां आज्जम’ के खजाने में दाखिल की जाती है। यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर चलकर एक दिन में ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ मीलों तक एक मील फैली हुई है और उसके बीच से पत्थर का एक रास्ता बना है। केवल यही एक रास्ता है जिस से लोग इण्डोचीन में प्रवेश कर सकते हैं।

इसे पार करके दिन भर और चलने पर ‘पोकन’ (‘पाव-हंग हो’) पहुँच गये। इस नगर के निवासी बुद्ध धर्म मानते हैं। ये लोग कागजी सिक्का अर्थात् नोट काम में लाते हैं। मुरदों को गाड़ते हैं और जलाते भी हैं। व्यापारी अधिक हैं। यहाँ रेशम बहुत अधिक पैदा होता है। ये लोग रेशम और चारदोजी की सुंदर पोशाकें पहनते हैं। जीवन निर्बाह करने में काम आने वाली प्रायः सभी आवश्यक वस्तुएँ यहाँ मिल जाती हैं।

‘पोकन’ से आगे बढ़े । चलते चलते, ‘कायू’ (कादिउचू) में जा पहुँचे । यहाँ के रहने वाले भी बौद्ध हैं । अधिक लोग व्यापार करते हैं । सुरदों को गाड़ते हैं । शिकारी जानवर और पक्षी बहुत हैं । यहाँ के लोग मछलियाँ भी खाते हैं ।

‘कायू’ से आगे एक दिन की यात्रा से ही ‘तीजू’ (तीचू) पहुँच जाते हैं । यद्यपि शहर बहुत धना और बड़ा नहीं है किर भी प्रत्येक वस्तु अच्छे परिमाण में मिल जाती है । व्यापार खूब होता है । यहाँ से दक्षिण की ओर लगभग द तीन दिन की यात्रा पर समुद्र है । नगर और समुद्र के बीच की जमीन में इतना अधिक नमक पैदा होता है कि सारे देश के लिये काफी हो सकता है । इस नमक से ‘खां आजम’ को बड़ी आय होती है ।

“तीजू” से एक दिन की यात्रा के बाद दक्षिणपूर्व की ओर ‘यांजू’ (याँगचू) है । यह एक बड़ा शहर है । इसके अधीन सत्ताहिस बड़े शहरों का प्रबन्ध है । यह शहर ‘खां आजम’ के बारह बड़े सूबेदारों में से एक की राजधानी है । नोट प्रचलित हैं । निवासी बौद्ध हैं । मुझे (मार्कों पोलो) भी तीन साल तक इसकी सूबेदारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । यह प्रान्त बहुत उपजाऊ है । सौदागरों से माल पर कर लिया जाता है ।”

‘याजू’ के पश्चात् ‘स्यानको’ (स्यांग यांग फो) आता है । यह एक बड़ा आबाद शहर है । यहाँ बड़ी भारी व्यापारी मण्डी है और बारह नगरों के एक अधिकारी की राजधानी है । रेशम बहुत होता है । निवासी बौद्ध हैं ।

जब ‘खां आजम’ की सेना सम्पूर्ण इण्डोचीन जीत कर यहाँ पहुँची तो इसे जीत न सकी क्योंकि इसके चारों ओर बखिलियों

गहरे पानी की एक भील है अतएव ३ तीन साल तक 'खाँ आजम' की सेना को इसका घेरा करना पड़ा।

तीन साल बाद मैंने सेनापति से कहा कि "यदि तुम मानो तो मैं तुम्हें इस शहर को विजय करने का उपाय बताऊँ।" उस समय 'खाँ आजम' भी सेना में थे। सेनापति ने बच्चन दिया कि जो कहोगे वही किया जायगा। मैंने कहा कि बड़े-बड़े पत्थर किले के भीतर तोपों के द्वारा पहुँचाओ, उनके फटते ही किले बाले अधीनत स्वीकार कर लेंगे। यही किया गया। यह काम मेरे ही ज़िस्मे किया गया। मैंने अपने पिता तथा एक जर्मन साथी की सहायता से दो तीन लकड़ी के 'एंजिन' तैयार किये। पहले ३०० पौराण (३२२ मन) बजान के पत्थर भर कर किले में फ़ायर किये गये। ज्योंही पत्थर शहर में गिरे उनसे इमारतें टूटने फूटने लगीं। लोग धयल हो हो कर प्राण छोड़ने लगे। इससे सब लोग धबड़ा गये। वे इस आफत से बच नहीं सकते थे अतएव उन्होंने जल्द एक सभा करके निश्चय किया कि अधीनत स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक आदमी को छुनकर कुछ शर्तों पर उन्होंने सन्धि करने की प्रार्थना के लिये भेजा। अन्त में उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुई।

'यांचू' से १५ मील दक्षिणपूर्व जाने पर एक शहर मिलता है जिसका नाम 'संजू' (आज कल का 'आईचन') है। यह एक प्रसिद्ध नगर है। व्यापार के कारण यहाँ जहाजों का सदा जमघट रहता है। निवासी बौद्ध धर्म मानते हैं। नोट यहाँ भी चलते हैं।

यह शहर संसार की सबसे बड़ी नदी 'क्यान' (आज कल की 'यांग स्सीक्यांग') के किनारे बसा हुआ है जो कहीं-कहीं १० दस मील तक चौड़ी है।

‘संजू’ से दक्षिण पूर्व की ओर ‘काचू’ नगर बसा है। यह एक छोटा नगर है। इसके पास भी ‘क्यान’ नदी बहती है। इस नगर में इण्डोचीन से व्यापार के लिये बहुत अनाज आता है। इस शहर से ‘खाँ आज़म’ की राजधानी तक बड़ी चौड़ी नहर^{५८} बनी है, जो भील, नालों और छोटी-छोटी नदियों को काटकर बनाई गई है। उसमें बड़े-बड़े जहाज़ चलाये जा सकते हैं। नहर के दोनों ओर नहर ही की भिट्ठी से पुश्टे बाँधे गये हैं और इन पुश्टों को पीटकर उनपर सड़कें बना दी गई हैं। ‘काचू’ के सामने ही भील में एक छोटा टापू है जिसमें एक मठ बना हुआ है। इस मठ में बौद्ध धर्म के लगभग दो सौ भिक्षु—उपदेशक—एकांत वास करते हैं। इस मठ में चीनियों का एक बड़ा भारी पुस्तकालय है। इस शहर की दूसरी दिशा में ‘चनगयानको’ (चनगयानको अथवा ‘सिंगानको’) नाम का नगर है।

यहाँ से आगे बढ़कर एक दूसरा शहर मिलता है जिसे ‘सोजू’

* प्रसिद्ध इतिहासकार ‘रशीदुदीन’ के कथनानुसार यह नहर सं० १२८६ ई० में बनकर तैयार हो गई थी और ‘खाँ आज़म’ की आज़ा से बनाई गई थी। चैकि राजधानी तक बाहर के सब आवश्यक सामान आसानी से नहीं पहुँच सकते थे इसलिए यह नहर निकाली गई थी। यह इतनी लम्बी है कि चालोस दिन में जहाज़ राजधानी तक पहुँचते हैं। उसके दोनों किनारों पर सरायें, हूकानें और मकान बने हुये हैं।

* इस पुस्तकालय पर अंगरेजों ने चौन की लड़ाई जीतने के बाद अधिकार कर लिया था और उसको पुस्तकें शूरूप से जाने का इधरा रखते थे किन्तु सन्धि हो जाने पर वह चीनियों को लोटा दिया गया। ‘टगंकस’ बादशाह ने १८६० ई० में उसे नष्ट कर दिया।

(आज कल का 'सोचू') कहते हैं। यह एक बड़ा शहर है। यहाँ रेशम बहुत होता है जिससे भाँति-भाँति के कपड़े बनाये जाते हैं।

यह नगर ६० मील के घेरे में बसा हुआ है और समूर्ण देश में सब से बड़ा नगर है। इस शहर में ६० हजार पुल हैं! यहाँ बहुत से विद्वान और दार्शनिक हैं। शहर के आस पास अदरक बहुत होती है यहाँ तक की कमी-कमी दो ही तीन आने में बीस-बीस सेर मिल जाती है। इस शहर के अधीन सोलह व्यापारी मणिड्याँ हैं और पास ही 'कन्ती' नाम का एक नगर है। एक प्रकार से दोनों एक ही शहर के दो भाग हैं। 'सोचू' शब्द का अर्थ 'पृथ्वी' है और 'कन्ती' का 'आकाश'। ये दोनों नाम इन नगरों की महत्ता प्रकट करते हैं।

'सोचू' से एक दिन की यात्रा करने पर एक बड़ा नगर 'बूज्ज' (आज कल इसका नाम 'बूचू' है) पड़ता है, उससे और आगे 'बूगन' पड़ता है (जिसे आज कल 'बूझ्यान' के नाम से पुकारते हैं)। यहाँ रेशम बहुत अधिक होता है। इससे आगे बढ़ने पर 'चांगन' आता है। (जिसका नाम आज कल 'क्यानंग' है)।

इससे आगे एक हरे भरे मैदान में से होकर यात्रा करनी पड़ती है। तीन दिन की यात्रा के बाद 'कंसी' नगर पड़ता है जो इण्डोचीन की राजधानी है। यहाँ के निवासी बौद्ध हैं और व्यापार करते हैं।

यह शहर संसार के शहरों में सबसे बड़ा है। यह सौ मील के घेरे में बसा हुआ है। शहर में बारह हजार पुल हैं जिनके नीचे होकर बड़े-बड़े जहाज़ा जा सकते हैं। नगर में दृस्तकारों के बारह मुहल्ले हैं। हर मुहल्ले में बारह हजार घर और हर घर में १२ से लेकर २० आदमी तक हैं। इन आदमियों में मकान के स्वामी तथा उनके यहाँ काम करने वाले भी सम्मि-

लित हैं। यहाँ की चीज़ों सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर इतने अधिक परिमाण में बच जाती हैं कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं।

इस शहर की दस्तकारी के माल का अनुमान करना जरा कठिन काम है। चाहे कोई कितना ही धनवान हो—शासन नोति के अनुसार वह वाप का पेशा करने पर मजबूर है किन्तु यदि वह चाहे तो स्वयं काम न करे—मजादूरों से करावे।

शहर के मध्यभाग में एक भील तीस भील के घेरे में है उसके किनारे धनवानों के सुन्दर महल बने हुये हैं। तट पर मठों और मन्दिरों की भी कमी नहीं है। भील के भोतर दो द्वीप हैं और दोनों में दो महल बादशाहों के लिये बने हुये हैं। जब शहर का कोई मनुष्य विवाह अथवा दूसरे मौकों पर उत्सव आदि कराता है तो उसे इन महलों में उत्सव कराने की आज्ञा मिल जाती है। इन महलों में सुखपूर्वक जीवन बिताने योग्य सब सामान पाये जाते हैं। ये महल इतने बड़े हैं कि कभी कभी इनमें एक साथ सौ सौ—उत्सव (महफिल) होते हैं और जगह की कमी नहीं होती।

यहाँ के निवासी सुन्दर होते हैं और रेशमी वस्त्रों को पसन्द करते हैं। वे हर तरह का गोश्ट खा लेते हैं—यहाँ तक कि निकुञ्ज श्रेणी के मनुष्य कुत्तों का भी नहीं छोड़ते। जब से यह नगर ‘खाँ आजाम’ के अधिकार में आया है तब से हर पुल पर दस आद-मियों का गारद रहता है कि कोई विद्रोह अथवा घड़यन्त्र न कर सके। गारद की चौकी में घड़ी भी होती है और घंटे भी बजते हैं। घंटों की गिनती सबेरे से आरम्भ होती और शाम को समाप्त हो जाती है।

नियत समय के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं हैं और दीपक जलाना भी अपराध है। यदि कोई नियत समय के बाद घर से बाहर पाया जाय या किसी के मकान में दीपक जलता दिखाई दे तो उसे सबरे न्यायालय में उपस्थित किया जाता है। ठीक ठीक कारण नहीं बता सकता तो उसे दण्ड दिया जाता है। यदि उनमें कोई लैंगड़ा लूला मनुष्य बाजार में चलता फिरता भिले तो उसे अनाथालय अथवा चिकित्सा-भवन में भेज दिया जाता है जहाँ उसकी चिकित्सा होती है और भोजन मिलता है। भोजनादि की व्यवस्था राज्य की ओर से है। यदि कोई हड्डा कट्टा, नीरोग और परिश्रम करने योग्य आदमी इधर उधर बेकार दिखाई देता है तो वह कोई काम करने को वाध्य किया जाता है। यदि शहर में कहीं आग लग जाये तो मकान के स्थामी के अतिरिक्त कोई वहाँ नहीं जाता, जहाँ, पहरे बाले जिनके जिसमें आग बुझाने का काम रहता है, अवश्य जाते हैं और सब तरह से आग बुझाने तथा उसके माल की रक्षा करने का यत्न करते हैं। ग्राम: माल को किश्तियों में भरकर अलग रख देते हैं तब आग बुझाते हैं।

शहर में एक ऊँचे स्थान पर एक मीनार बनी हुई है और उससे पीतल की मोटी और चौड़ी एक गोलाकार पट्टी लटकी हुई है। जिस समय शहर में कहीं आग लगती है तो पहरे बाला एक मुँगरी से उसे पीटने लगता है जिससे दूर दूर तक सब को यह बात मालूम हो जाती है।

शहर की सड़कें पक्की हैं और ईंट और पत्थरों के छोटे ढुकड़ों से कृट कर बनाई गई हैं, इससे आदमियों के चलने तथा गाड़ियों के आने जाने में आसानी होती है। सड़क के इधर उधर शाही सवारों के लिये (जो घोड़ा दौड़ाते हुये जाते हैं) कच्चे रास्ते

बने हुये हैं। बड़ी बड़ी सड़कें इस ढंग से बनाई गई हैं कि दो समानान्तर सड़कें पक्की हैं और उनके बीच में एक पतली और कम चौड़ी नाली है जिससे वर्षा का सब पानी निकल जाता है और आगे जाकर नहर में गिरता है।

शहर में लगभग तीन हजार स्नानागार हैं जिनमें चश्मों से स्वच्छ और शुद्ध जल आता है। ये स्नानागार गर्म पानी के हैं। लोग उसमें स्नान करके आरोग्य लाभ करते हैं। एक एक स्नानागार इतना बड़ा है कि सौ सौ आदमी अच्छी तरह एक साथ स्नान कर सकते हैं। ये शायद संसार के सभी स्नानागारों से बड़े हैं।

शहर से लगभग पचीस मील के अन्तर पर समुद्र है जिसके किनारे शहर 'गानको' ('कानपू' अथवा 'कानफू') बसा है। यहाँ सैकड़ों जहाज हर समय मौजूद रहते हैं। ये जहाज भारतवर्ष और अन्य दूसरे देशों से माल ले आते और ले जाते हैं यहाँ से 'कांटन' तक एक चौड़ी नदी बहती है जिससे होकर वहाँ तक व्यापार होता है।

'इरण्डोचीन' नौ भागों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक सूबे के लिये एक 'नायब' नियत है। ये सब प्रान्तिक शासनकर्त्ता अपने अपने सूबे की सालाना रिपोर्ट 'खाँ आजम' के पास भेजते हैं। 'कांटन' भी एक नायब का केन्द्रस्थल है जो बारह बड़े शहरों पर शासन करता है। कुल देश में कस्बों और गाँवों के अतिरिक्त बारह सौ धनवान नगर हैं और इनमें से प्रत्येक में दस हजार से लेकर तीस हजार तक सेना रहती है। इन सेनाओं में कुछ तो लड़ने वाले सैनिक हैं और कुछ शहर की रक्षा—देख भाल करने वाले। सैनिकों में विषयोत्तम: 'खता' देश के रहने वाले लोग हैं।

जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसकी उत्पत्ति का समय नज़न्ने इत्यादि लिख लिया जाता है। जब कोई मनुष्य यात्रा करना चाहता है तो किसी ज्योतिषी के पास जाकर इन बातों को व्याख्या करता है। यदि ज्योतिषी कह दे कि यात्रा नहीं करनी चाहिये तो यात्रा की तिथि बदल दी जाती है। इन ज्योतिषियों की बातें प्रायः ठीक निकलती हैं।

यहाँ के निवासी मुरदों को जलाते हैं। यदि उनका कोई प्रिय व्यक्ति अथवा घनिष्ठ मित्र मर जाता है तो वे सन के कपड़े पहन कर उसका शोक मनाते हैं। मुरदों के साथ तरह तरह के बाजे बजाते और गीत गाते जाते हैं और जब मरघट में पहुँचते हैं तो घोड़ों—गुलामों, लौंडियों, ऊटों, कपड़ों, हथियारों तथा रूपयों की तसवीरें आग में जलाते हैं। उनका विश्वास है कि परलोक में मुरदों को इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उनके माथ जलाई हुई चीजें उन्हें मिल जाती हैं।

इस शहर में उस बादशाह का (जो 'खाँ आजम' से पहले यहाँ का स्वामी था) एक सुन्दर महल बना हुआ है। महल का धेरा दस भील है जिसके चारों ओर ऊँची चहारदीवारियाँ हैं। चहारदीवारियों के भीतर सुन्दर बाटिकाएँ और फवारे हैं। बाटिकाओं में फूलों के पौधे तथा नाना प्रकार के वृक्ष पत्किवद्ध लगाये गये हैं। स्थान स्थान पर भीलें भी हैं जिनमें लाल, सफेद हरी मछलियाँ क्रोड़ा किया करती हैं। महल में बीस-बीस बड़े बड़े कमरे हैं। एक एक कमरा इतना बड़ा है कि एक साथ दो हजार आदमी बैठकर भोजन कर सकते हैं। इन कमरों के अतिरिक्त सैकड़ों छोटे छोटे कमरे हैं। सारे महल की दीवारों और छतों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सुनहरे रोगन किये हुए हैं। इन पर भाँति भाँति की चित्रकारी की गई है। दीवारों पर उस देश की

ऐतिहासिक घटनाएँ लिखी गई हैं तथा पशुओं, पक्षियों, बीर पुरुषों और सुन्दर लियों के चित्र बनाये गये हैं।

इस नगर में एक सौ साठ मुहल्ले हैं और हर एक मुहल्ले में लगभग दस हजार मकान हैं। कुल मकानों की संख्या पन्द्रह लाख के आसपास है।

यहाँ (इण्डोचीन) की यह रीति है कि प्रत्येक मनुष्य के मकान के दरवाजे पर एक तख्ती लगी रहती है जिसके ऊपर उसका—उसकी पत्नी—उसके बच्चों, लौछियों तथा गुलामों के नाम तथा मवेशी की संख्या लिखी होती है। जो मर जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है और जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम उस पर लिख दिया जाता है। इससे 'खां आज्ञम' को कुल सूबे की जन संख्या गाल्डम हो जाती है।

शहर में जितने मुसाफिर खाने हैं उनके स्वामी, 'खां आज्ञम' की आज्ञा के अनुसार यात्रियों के नाम (निवास स्थान, पिता का नाम, आने तथा जाने की तारीख के साथ) एक रजिस्टर में लिखते जाते हैं। इससे 'खां आज्ञम' को माल्डम होता रहता है कि असुक स्थान पर कौन कौन आये हैं।

कांटन का वर्णन

यह शहर एक ऐसे स्थान पर बसा है जिसके एक ओर तो एक बड़ी भील है और दूसरी ओर एक नदी है जिससे कई नहरें निकाली गई हैं। सड़कें पक्की हैं। जलवायु स्वास्थ्य-वर्धक है।

शहर के एक ओर एक बड़ी नहर नदी से निकाली गई है। इस नहर को बनवाने का कारण यह है कि जब नदी में बाढ़ आवे तो उसका पानी नहर में कर दिया जाय, जिससे शहर को कुछ हानि न पहुँच सके। नहर की मिट्टी शहर के ओर बाले किनारे से लगा दी गई है जिससे शहर का बचाव होता रहे।

यद्यपि शहर के अन्य मुहल्लों में भी बाजार हैं किन्तु उस हिस्से में जो नहर के किनारे है—दस बड़े बाजार हैं जिनमें चालीस चलीस क़दम चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं और पुलों को पार करती हुई शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गई हैं। प्रयेक सड़क पर चार चार भील के अन्तर से दो दो भील के चौक हैं। बाजार की बड़ी सड़क के समानान्तर एक नहर है जिसके किनारे भारतवर्ष तथा अन्यान्य देशों के व्यापारियों के रहने के स्थान हैं। हर चौक पर सप्ताह में तीन दिन बाजार लगती है। जिसमें ४० से ५० हजार तक आदमी चौरों खारीदते हैं। बाजारों में तरकारियाँ और भेवे बहुत बिकते हैं। फल विशेषतः नाशपातियाँ पाँच पाँच सेर की होती हैं।

यहाँ अंगूर नहीं होते किन्तु बाहर से मँगाये जाते हैं और अँगूरी शराब भी बाहर से ही आती है। यहाँ बाले चावल और मसाले से एक प्रकार की शराब बनाते हैं जिसे वे अँगूरी शराब से भी अच्छा बताते हैं। बाजार में प्रतिदिन समुद्र से ताजी मछलियाँ आती हैं जिनको मछुये पकड़ते हैं।

बाजारों के चारों ओर ऊंचे मकान बने हुये हैं जिनके नीचे दूकानें हैं, उनमें सब तरह की चीजें विकती हैं।

शहर में कुछ सड़कों पर मकानों में वेश्याएँ रहती हैं। ये वेश्याएँ सुन्दर और बहुमूल्य कपड़े पहनती हैं। ये गाने बजाने और नाचने में प्रवीण होती हैं और अपने हावभाव से बहुत जल्द लोगों को अपने पंजे में कर लेती हैं।

शहर की कई सड़कों पर दार्शनिक और ज्योतिषी रहते हैं। ज्योतिषी लोगों को लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। इन चौकों में दो दो सरकारी मकान बने हुये हैं जिनमें राजकीय अधिकारी रहते हैं जो व्यापारियों तथा सौदागरों के फराड़ों का फैसला करते हैं और पुलों पर के पहरेवालों की निगरानी करते तथा अनुपस्थित रहने पर उन्हें भी सजा देते हैं।

इस शहर की आबादी अगणित है अतएव खाने पीने में प्रतिदिन बहुत सामान खर्च होता है। केवल मिर्च एक सौ बीस मन प्रतिदिन व्यय होती है।

यहाँ के निवासी बड़े शिक्षा-प्रेमी हैं और शान्ति उन्हें पसंद है। वे हथियार बौधना अथवा चलाना नहीं जानते और न अपने पास हथियार रखते ही हैं। वे आपस में लड़ते-फ़राड़ते नहीं और ईमानदारी तथा सच्चाई से व्यवहार करते हैं। आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। खियाँ पुरुषों से बड़े प्रेम के साथ

मिलती हैं। पुरुष, दूसरों से मिलने के कारण अपनी खियों पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं करते। यदि कोई मनुष्य किसी विवाहिता स्त्री का सतीत्व भंग करना चाहता है तो उसे बेहया समझा जाता है। बाहरी व्यापारियों से यहाँ बाले बड़ी सज्जनता का व्यवहार करते हैं किन्तु वह सिपाहियों और विशेषतः 'खां आज़म' की सेना को घृणा की हाष्टि से देखते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण वे अपने प्यारे बादशाह से अलग कर दिये गये।

झील में बहुत-सी किश्तियाँ पड़ी रहती हैं जिनमें १० से लेकर २० आदमी तक बैठ सकते हैं। जब कोई मनुष्य औरतों के साथ अथवा मरदां के साथ झील की सैर करना चाहता है तो एक किश्ती में सब लोग सवार हो जाते हैं। किश्ती में छत भी होती है। छत में भीतर की ओर तस्वीरें होती हैं तथा चित्रकारियाँ भी रहती हैं। छत के ऊपर बैठ कर भी किश्तियाँ चलाई जा सकती हैं। उनमें खिड़कियाँ और दर्वाज़े लगे रहते हैं तथा मेज़ और कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं जिन पर बैठकर लोग खाते पाते, गप्प लड़ाने तथा हँसी मजाक करते हैं। किश्ती में से दोनों आर के हथय दिखाई देते हैं।

यहाँ के लोग सैर करना बहुत पसंद करते हैं। वे अपना दिन भर का काम समाप्त करके संध्या समय अपने घर के लोगों अथवा अपने भित्रों के साथ या तो गाड़ियों में शहर की सैर करते अथवा किश्तियों में बैठकर झील में घूमते हैं।

जिस तरह किश्तियों में झील की सैर की जाती है उसी प्रकार गाड़ियों में (जिनमें ६ आदमी बैठ सकते हैं) बायों की सैर की जाती है। बायों में स्त्रीमें गड़े होते हैं जिनमें लोग ठहरते हैं। खाना खाते, घूमते और विश्राम करते हैं और फिर रात को अपने घर लौट जाते हैं।

महल का केन्द्र तीन हिस्मों में विभक्त है जिनमें से बीच के हिस्से में एक ऊँचे दरवाजे से होकर प्रवेश करना पड़ता है जिसकी छात ऊँचे खम्भों पर रखखी हुई है। इन खम्भों पर रंग करके सुनहली चित्रकारी की गई है तथा जगह जगह, नीलम जड़े हुये हैं। इस दरवाजे के दोनों ओर खीमे खड़े किये गये हैं जिनके खम्भे नाना प्रकार की चित्रकारी से सुसज्जित तथा मणियों से जगमग जगमग करते हैं। दीवारों पर उभ देश के बादशाह से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं और कहानियों के चित्र बने हैं। दरवाजे के सामने ही सब से बड़ा खीमा है।

जब 'फगफोर' यहाँ का बादशाह था तो वह मुख्य मुख्य त्याहारों को 'कॉटन' के रईसों और अपने दरबारियों तथा सरदारों को निमंत्रण दिया करता था। उस समय ये खीमे बड़ा काम देते थे क्योंकि एक एक खीमे में दस दस हजार आदमी खाना खा सकते तथा ठहर सकते हैं। एक एक मेला दस दस बारह बारह दिन तक रहता है। जितने लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, वहुमूल्य कपड़े पहनते हैं। कपड़े प्रायः रेशमी होते हैं जिसमें रत्नादि टंके रहते हैं। प्रत्येक भनुष्य की पोशाक बड़ी मूल्यवान होती है क्योंकि वह दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। बड़े खीमे के पोछे एक ऊँची दीवार है जिसको पार कर एक रास्ते के द्वारा महल के घेरे में प्रवेश करते हैं। महल में बहुत से कमरे हैं जिनकी दीवारों पर बहुत सुन्दर बेल बूटे कढ़े गये हैं। इस महल से ६ फीट चौड़ा एक पक्का रास्ता भील के किनारे तक जाता है। इस रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे दस महल बने हुये हैं और हर एक में पचास पचास कमरे हैं और एक एक उपवन है।

अहस्ते के शीष भाग में वाटिकाएँ, भीलों तथा कुंजें हैं जिनमें मेवों के घृन्ह लगाये गये हैं और हिरन, खरगोश तथा नील गाय

इत्यादि पाले गये हैं। 'फराकोर, कुँवारी और सुन्दर युवती छियों को लेकर प्रायः इन वाटिकाओं को सैर करने जाया करता था उस समय वहाँ कोई भी न जा सकता था। कभी बादशाह इन सुन्दरी युवतियों को कुत्तों के साथ शिकार में दौड़ाता था। जब वे दौड़ते दौड़ते थक जातीं तो घने कुंजों में छिप जाती थीं और वहाँ कपड़े उतार कर बाहर नंगी निकलतीं; भील में तैरती तथा जल क्रीड़ा करती थीं। बादशाह उस दृश्य से अपना मन प्रसन्न करता। कुछ देर बाद वह उन्हें साथ लेकर महल में चला जाता अथवा कुंजों में भोजनादि करके उनके साथ रंगरेलियाँ करता था। सभ्यता का वह कुछ विचार न करता था। इन वातों का फल यह हुआ कि 'उसमें नामदी और कायरता आ गई और 'खाँ आजम' ने उसका राज्य छीन लिया। बड़ा खीमा या गुम्बद तो अब तक मौजूद है किन्तु कुंज और वाटिकायें उजड़ गई हैं। महल दूटी फूटी अवस्था में हैं। अब न तो वे जानवर हैं, न मेवे के वृक्ष।

इस शहर की व्यापार सम्बन्धी वस्तुओं के कर (टैक्स) से अच्छी आय होती है। यहाँ नमक बहुत अधिक पैदा होता है। जिससे बहुत आमदनी होती है। ८० 'तमान' नमक पैदा होता है। एक 'तमान' का मूल्य सत्तर हजार 'सिंगी' है। कुल नमक का मूल्य छप्पन लाख सिंगी होता है। हिन्दुस्तानी सिक्के में इसका मूल्य लगभग १३१६६६५ रुपये के है। यह प्रदेश समुद्र से मिला हुआ है जिसके किनारे नमक की बहुत-सो भीलें हैं जो गरमी में सूख जाती हैं और उनके तल में नमक की तह जम जाती है।

नमक के अतिरिक्त शक्कर से भी बड़ी आय होती है क्योंकि 'इरडोचीन' के सब प्रान्त में शक्कर बहुत बनाई जाती है।

मसाले पर ३ डू प्रतिशत कर लिया जाता है और लगभग इसी हिसाब से व्यापार की अन्य वस्तुओं पर भी किन्तु जो चीज़ें समुद्र में पैदा होती है अथवा हिन्दुस्तान एवं अच्छे देशों से आती हैं उन पर १० प्रतिशत कर लिया जाता है। रेशम एवं कई और चीज़ों पर भी १० ही प्रतिशत महसूल लिया जाता है।

हिसाब से पता चलता है कि इण्डोचीन के नवें हिस्से से १४७०००००० सिंगी कर निकलता है। इससे प्रकट होता है कि कुल देश की आय बहुत अधिक होगी।

इण्डोचीन के अन्य नगर

इस शहर से दक्षिण पूर्व पक दिन की यात्रा के पश्चात् ‘तापनीजू’ (‘शावहंग’) नगर आता है। यहाँ कागज के नोट चलते हैं। लोग बौद्ध धर्मानुयायी हैं। वे मुरदों को जलाते हैं। व्यापारियों और कारोगरों की अधिकता है। पैदावार अच्छी होती है।

‘तापनीजू’ से ३ दिन तक बराबर चलने के बाद ‘वूजू’ (‘वूचू’) पड़ता है और उसके आगे दो दिन की यात्रा पर ‘गीजू’ (आजकल इसका नाम ‘ब्यूचू’ है) स्थित है। यहाँ रेशम बहुत पैदा होता है। बाँस दो दो हाथ मोटे होते हैं।

‘गीजू’ से आगे बढ़ने पर हरे भरे मैदान, जंगल, झीलें तथा फरने मिलते हैं। पशुओं और सुन्दर पक्षियों से यह भाग भरा हुआ है। चार दिन के बाद ‘चंगशाँ’ आता है। यह एक पहाड़ी के ऊपर (जो ‘तसंगातंग’ नदी को दो टुकड़े कर देती है) बसा हुआ है।

सम्पूर्ण इण्डोचीन में भेड़ें नहीं पाई जातीं यथापि गाय, बैल और वकरियों की अधिकता है।

‘चंगशाँ’ से तीन दिन की यात्रा पर ‘कोजू’ पहुँचते हैं। ‘कोजू’ से ६ दिन तक और आगे चलने पर ‘फूजू’ पहुँचते हैं। यहाँ अद्वितीय होती है कि एक ‘करवत’ (पौने तीन आने के मूल्य का एक चीनी सिक्का) में एक मन विकती है। एक

और चीज़ भी पैदा होती है जो केसर की तरह होती है और केसर ही के स्थान पर काम आती है।

यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब प्रकार की राजसी वस्तुएँ खा जाते हैं, यहाँ तक मनुष्य का माँस भी, परन्तु ऐसे मनुष्य का जो रोगी हो कर न मरा हो।

इस देश के निवासी बिल्कुल जंगली और असभ्य हैं। वे जब किसी लड़ाई पर जाते हैं तो सर के अगले हिस्से के बाल मुँड़ा देते हैं और उस पर नीला रंग लगाते हैं। हाथों में बरछियाँ और तलवारें लिये हुए पैदल जाते हैं। केवल सेनानायक सवारी में जाता है। वे मनुष्यों को क़त्ल करते, उनका खून पीते और गोस्त खाते हुए जाते हैं।

तीन दिन कि यात्रा के बाद 'केलंगफो' जा पहुँचते हैं। इस शहर में तीन पक्के और मच्चबूत पुल बने हुए हैं जो दर्शनीय हैं। प्रत्येक पुल एक मील लम्बा और नौ क़दम चौड़ा है और उसकी शोभा संगमर्मर के खम्भों से और भी बढ़ गई है।

यहाँ एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है। जिसे पर के स्थान पर बड़े बड़े बाल होते हैं और रंग काला होता है।

१५ मील और आगे बढ़ने पर 'उनकन' नगर है जिसमें शक्कर बहुत बनती है।

'फूजू'—'चौंका' सूबे का केन्द्रस्थल है। यहाँ बहुत अधिक व्यापार होता है। निवासी बौद्ध हैं। शान्ति रखने के लिये यहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है क्योंकि बलवे का डर लगा रहता है। नगर के बीच में होकर एक बड़ी नदी बहती है। यहाँ शक्कर के कारखाने हैं। बहुमूल्य रत्नों और मोतियों का व्यापार यहाँ बहुत अधिक होता है।

यह नगर 'जैतून' बन्दरगाह के समीप स्थित है। यहाँ का दृश्य बड़ा सुन्दर है।

'फूज' से ५ दिन की यात्रा के बाद 'जैतून' पहुँच जाते हैं। यह एक बड़ा व्यापारी बन्दरगाह है। यहाँ भारतवर्ष तथा अन्य देशों से व्यापार की चीजें आती हैं। लाल मिर्च के सैकड़ों जहाज बन्दरगाह पर पड़े रहते हैं। यह बन्दरगाह संसार के दो बड़े व्यापारी बन्दरों में से एक है।

इस शहर से बड़ी आय होती है क्योंकि रत्नादि पर दश प्रतिशत चुंगी देनी पड़ती है। छोटी छोटी वस्तुओं पर तीस, मिर्च पर चौचालीस तथा अन्य वस्तुओं पर चालीस। इससे मालूम होता है कि सौदागारों को प्रायः आधी चुंगी देनी पड़ती है। इतने पर भी उन्हें बहुत लाभ होता है।

जापान

यात्री तथा व्यापारी लोग 'चॉक' से भारत को जहाजों में जाते हैं जो सनोवर की लकड़ी के बनाये जाते हैं। उनमें ५० अथवा ६० कोठरियाँ होती हैं। जहाजों में एक पतवार होता है और चार मस्तूल। किसी किसी में दो मस्तूल और भी होते हैं जिन्हें जब चाहते हैं चढ़ा लेते हैं और जब चाहते हैं उतार देते हैं।

प्रत्येक जहाज में २०० मल्लाह होते हैं और किसी किसी में इनकी संख्या ३०० तक भी हो जाती है। जहाज बहुत लम्बे चौड़े होते हैं। एक जहाज में पाँच हजार अथवा छः हजार दोकरे भिरचे के होते हैं। जब हवा बन्द हो जाती है तो बहुत से छोटे छोटे पतवारों के सहारे जहाज चलाये जाते हैं तब भी पतवार इतने बड़े और भारी होते हैं कि एक एक को चार चार पाँच पाँच मल्लाह चलाते हैं। प्रत्येक जहाज के साथ कुछ ढोंगियाँ होती हैं जिनमें भिरचे के एक हजार टोकरे लावे जाते हैं। ढोंगियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि प्रत्येक में ५० अथवा ६० और किसी किसी में ८० अथवा १०० मल्लाह होते हैं। ये ढोंगियाँ भी पतवारों ही से चलाई जाती हैं और जहाज को आगे बढ़ने में सहायता देती हैं। प्रत्येक बड़े जहाज के साथ दस छोटी ढोंगियाँ मछलियाँ पकड़ने, खाद्यपदार्थों के लाने, माल डालने और लंगर डालने में सहायता करने के लिये रखी जाती हैं।

जहाज़ों की मरम्मत हर साल की जाती है और उन पर एक नया तख्ता जड़ दिया जाता है। इसी तरह कई वर्षों तक मरम्मत होती है किन्तु जब जहाज़ में छः तख्ते हो जाते हैं तो वह समुद्र में नहीं चलाया जाता बरन् तट के समीप काम में लाया जाता है। कुछ दिन इस तरह काम में लाने के बाद वह तोड़ डाला जाता है।

चीन से भारतवर्ष को समुद्र से यात्रा करते समय रास्ते में बहुत से द्वीप पड़ते हैं। इनमें सब से बड़ा और प्रसिद्ध 'चीपानगकोX' जापान है। यहाँ के रहने वाले बौद्ध हैं। वे सभ्य और धनवान हैं। यह देश स्वतंत्र है। यहाँ सोना बहुत अधिक होता है। यहाँ के बादशाह की आज्ञा है कि सोना देश से बाहर न जाये।

बादशाह के महल पर सोने की छत डाली गई है जैसी यूरोप में गिर्जों के ऊपर शीशे की छत होती है। महल का फर्श भी सुनहला है जो दो अंगुल मोटा है। उसमें खिड़कियाँ भी सोने ही की लगाई गई हैं। इस महल की लागत का अनुमान करना कठिन है।

इस देश में सुरदों को जलाते भी हैं और गाड़ते भी। यदि जलाते हैं तो उसके मुँह में एक मोती रख दिया जाता है।

X 'जापान' का असली नाम 'जीपान को दी' था। चौनियाँ ने उसे 'चीपानगको' कर लिया, रशीदुद्दीन ने भी जापान का नाम 'चीपानगको' लिखा है। 'जीपान' शब्द जिससे 'निपन' अथवा 'निफन' निकला है—पहले प्रचलित था। 'जापान' शब्द 'भलायान' भाषा के 'जापान' अथवा 'जापांग' शब्द से बिगड़ कर बना है। 'निपन' अथवा 'निफन' शब्द का अर्थ 'सूर्य निकलने की जगह' है।

‘खाँ आज्जम’ ने जब जापान के इतने धनवान होने का हाल सुना तो उसने अपने दो बीर सेनानायकों को बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ उसे विजय करने के लिये भेजा। इन दोनों सेनाध्यक्षों के नाम ‘अया खाँ’ और ‘वोसिन चंग’¹ थे।

इन दोनों में परस्पर गहरी शत्रुता थी और एक दूसरे की सहायता नहीं करना चाहते थे। जब वे जापान के समुद्र तट पर ठहरे थे तब एक बड़ा तूफान आया। ऐसी जोर की आँधी चली कि जहाजा रुक न सके। यह देखकर दोनों की आज्ञा के अनुसार सब लोग जहाजों में बैठ गये और उनके लंगर उठा दिये किन्तु जब चार भील के लगभग आगे निकल गये तो उन्हें एक छोटा द्वीप मिला। यहाँ हवा इतनी तेज़ होगई कि बचाने का कितना ही प्रयत्न किया गया किन्तु सब जहाजा उससे जा टकराये। बहुत आदमी नाश हो गये। सेना की सेना डूब मरी। केवल तीस हजार आदमी किसी तरह किनारे पर पहुँच सके जिन्होंने भागकर उस द्वीप में शरण ली किन्तु वह द्वीप बिलकुल ही उजाड़ था अतएव उसमें जाकर भी वे अपने को मौत के मुँह में समझने लगे। एक सेनापति गर गया—दूसरा जो बच रहा अपने कुछ साथियों का जहाज पर बिठाकर चलता बना। उसने, और लोगों की कुछ लबर न ली।

जब जापान के बादशाह को यह समाचार पहुँचा कि ताता-रियों का एक हिस्सा द्वीप में रह गया है और बड़ी बुरी अवस्था में है तथा अपने देश को लौट जाने का उन्हें कोई रास्ता नहीं है तो वह अपनी सेना लेकर उन्हें क़स्त करने के लिये बहाँ जा पहुँचा।

¹‘वोसिन चंग’ अथवा ‘वोसिंचंन’ के दूसरे नाम ‘संगोन’ और ‘खाँ लसपांग कीवुन’ भी हैं।

जब जापानी सेना द्वीप में घुसी तो तातारियों ने सामना नहीं केया और भाग निकले। आगे-आगे वे भागे जाते थे और जापानी रेना उनका पीछा करती हुई थोड़ी दूर पर आ रही थी। चक्र नगाते-लगाते सब तातारी समुद्र के किनारे जा पहुँचे जहाँ जापानेयों के जहाज लंगर ढाले हुए थे। वे अठ डोगियों में जो किनारे बँधी थी सबार हुए और जापानियों के जहाजों पर फट जा पहुँचे। पहुँचते ही उन्होंने लंगर उठा दिये और वहाँ से चल निकले और इस तरह उन्होंने अपनी जानें बचा लीं किन्तु वे अपने ईश को न गये बरन् सीधे जापान चले आये। वहाँ पहुँच कर बादशाह तथा सेना की अनुपस्थिति में उन्होंने शहर पर अपना अधिकार कर लिया।

बड़ी कठिनतापूर्दक बचे हुए जहाजों की सहायता से बादशाह प्रजाधानी तक पहुँच सका। वहाँ पहुँच कर एक बड़ी सेना के द्वारा उसने इस तरह शहर को धेर लिया कि कोई आदमी न तो भीतर जा सकता था और न बाहर निकल सकता था। तातारी भूक पेर मरने लगे क्योंकि उन्हें मालूम न था कि कौन चीज कहाँ मिल सकती है। ऐसे ही समय अपने बादशाह को आया देख शहर के नेवासी भी बिगड़ गये। अन्त में जब कोई चारा न चला तो तातारियों ने उसमा माँगते हुए अपने प्राणों की भिन्ना माँगी। बादशाह ने उनकी प्रार्थना रखीकार करली किन्तु फिर वे जापान ही में होने लगे। यह घटना सन् १२७५ ई० की है।

*‘भिं गोचल’, ‘देखीला’ तथा ‘पोथर’ के लिये हुए चीन के इतिहास के विदित होता है कि ‘लां आज़म’ ने पहली बार सन् १२६६ ई० में जापान विजय की कामना से एक सेना भेजी किन्तु उसे सफलता न हुई। (सके पश्चात १२६८, १२६९, १२७० तथा १२७१ ई० में भी उसे

‘ज्ञाँ आजाम ने उस सेनापति का सर कटवा डाला, जो दूसरे सेनाध्यक्ष को उसके आदमियों सहित संकट में छोड़कर चला आया था।

इस जापान युद्ध के सम्बन्ध में एक विचित्र घटना यह है कि जब तातारी उस द्वीप में उतरे तो उन्होंने एक मीनार में आठ आदमी पाये जिन्हें वे हथियार चलाकर भी न मार सके क्योंकि उनकी खाल के भीतर एक प्रकार का पत्थर था जिसके कारण उनपर हथियार चल ही न सकते थे विशेषतः कौलादी हथियारों के बार का उसके कारण कुछ प्रभाव न पड़ता था। जब सेनापतियों को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने उन्हें लाठियों से मारा और जब विफल मनोरथ होना थड़ा। सन् १२७४ ई० में उसने ३०० जहाज और पन्द्रह हजार फौज रवाना की किन्तु इस बार भी पहले ही की सी दशा रही। इसके पश्चात भी उसने कई बार प्रयत्न किया किन्तु हरप्रार उसे असफलता ही हुई और बशवर हारता गया। यहाँ तक कि सन् १२८३ ई० की लड्डाई के बाद उसने इस इशादे को एकदम छोड़ दिया।

उन देशों और द्वीपों में (जो भारतवर्ष और जापान तथा चीन के बीच में हैं) — यह रीति प्रचलित है। ब्रह्मा के लोग जान बचाने के लिये अपनी खाल के भीतर सोने के टुकड़े अथवा एक विशेष प्रकार का पत्थर रख लेते हैं। ऐसे टुकड़े और पत्थर बंगाल की ‘रायल एशियाटिक सुसाइटी’ की बैठक में १८६८ ई० में उपस्थित किये गये थे जो ऐलमन द्वीप में एक ब्रह्म देशवासी अपराधी की खाल चीरकर निकाले गये थे। ‘फ्रायर उडरक’ के कथनातुसार ‘बोर्डिंग’ में भी यह रीति पाई जाती थी। मिं कोरटी लिखते हैं कि ‘यह रीति जावा में भी प्रचलित थी’। यह पत्थर विशेषतः सापों तथा कुछ विशेष प्रकार के जीवों के शरीर से निकाला जाता है। उसके प्रभाव से घाव नहीं होता।

उनका दम निकल गया तो उस पत्थर की खाल चिरबा कर निकलवा लिया ।

जापान में उसी प्रकार की मूर्तियाँ पाई जाती हैं जैसी 'खता' तथा इण्डोचीन में बहुतों के सर, बैल, सुअर, कुत्ते अथवा भेड़ की भाँति होते हैं । किसी किसी के ४ अथवा ३ सर होते हैं और ३ से लेकर १० हाथ तक होते हैं । बहुतेरी मूर्तियों को हजार हाथ होते हैं । उनपर लोगों का अधिक विश्वास होता है । इनकी मनौतियाँ मानकर बहुत सी इच्छायें पूरी की जाती हैं ।

इस द्वीप में एक विचित्र रीति है कि यदि बन्दी शत्रु, छोड़ने के लिये जमानत के रूपये नहीं दे सकता तो वहाँ के लोग अपने सम्बन्धियों और मित्रों को इकट्ठा करके उसे बकरे की भाँति काटते हैं और उसका भांस बड़ी प्रसन्नता के साथ खाते हैं । उनका कथन है कि ऐसे गोशत से अधिक स्वादिष्ट और कोई गोशत नहीं होता ।

यह द्वीप चीन सागर में है । चीन सागर में लगभग साढ़े सात (७४५९) हजार द्वीप हैं । इस सागर में ६ महीने तक हवा एक ओर से चलती है और छः महीने तक दूसरी ओर से ।

चम्बा

जापान के बाद फिर 'जैतून' लौटिए। यहाँ से बड़ी लम्बी यात्रा के पश्चात् चम्बा देश (आज कल 'कोचन चीन') में प्रवेश करते हैं। यह एक उपजाऊ, सुन्दर, हरा भरा देश है। यहाँ का बादशाह 'खाँ आजम' का भिन्न है और वह उपहार में 'खाँ आजम' को प्रायः हाथी दिया करता है।

'खाँ आजम' ने १२७८ ई० में अपने एक सेनापति + 'सगाटो' को इस देश को विजय करने के लिये रखाना किया। चम्बा के बादशाह का नाम 'अकम्बाल'^१ था। उसके पास इतनी सेना नहीं थी कि वह 'खाँ आजम' की सेना का सामना कर सकता। 'खाँ आजम' के भेजे हुए सेनापति 'सगाटो' से अपनी प्रजा की हानि होते देख उसने 'खाँ आजम' के पास दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि 'मैं वृद्ध हूँ—शान्तिपूर्वक राज्य करके मैंने सारी आयु बिताई हूँ। अब मैं लड़ाई भागड़ा करना नहीं चाहता—मैं तुम्हारा भिन्न होकर रहूँगा और उपहार में मैं हाथी दिया करूँगा। सेनापति को बुला लो।'

'खाँ आजम' ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और सेनापति को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया। तब से 'अकम्बाल' प्रति वर्ष बीस चुने हुए हाथी उपहार स्वरूप 'खाँ आजम' को देता है।

इस देश में यह एक विचित्र रीति प्रचलित है कि कोई खो जब तक उसे बादशाह न देख ले, शादी नहीं करने पाती। यदि

¹ 'चीन के इतिहास में इसका नाम 'साटो' पाया जाता है।

* 'चीन के इतिहास में 'सहगुप्त' नाम पाया जाता है।

वह बादशाह को पसंद आ जाती है तो वह उसे अपने महल में रख लेता है अन्यथा बहुत सा धन देकर किसी अच्छे मनुष्य से—जिसे वह पसंद करती है अथवा उसके घर वाले राय देते हैं—शादी करा देता है।

इस देश में हाथी बहुत पाये जाते हैं। देश बोनस[†] के जंगलों से पटा पड़ा है। बोनस की लकड़ी से अच्छे कलमदान बनाये जाते हैं। यहाँ के निवासी बौद्धधर्म मानते हैं।

जावा द्वीप

चम्बा से लगभग पंद्रह सौ मील की यात्रा के पश्चात् जावा द्वीप पड़ता है। यह एक बड़ा द्वीप है और इसकी परिधि लगभग तीन हजार मील है। निवासी बौद्ध हैं। इसमें मसाले, जटामाशी, लौंग, मिर्च इत्यादि वस्तुएँ अच्छे परिमाण में उत्पन्न होती हैं।

इस द्वीप में व्यापारियों के जहाज ग्रायः आया जाया करते हैं। व्यापारियों को इन वस्तुओं के व्यापार से खूब लाभ होता है।

[†] मि० पाथर के लेखानुसार माकोंपोलो इस देश में १२८० ई० में गया था। 'रोचीसो' का भी यही भत है। किन्तु इस यात्रा विवरण के सरकारी अनुवाद से प्रकट होता है कि वह १२८५ ई० में गया। 'लातीनी' भाषा के एक भूगोल से मालूम होता है कि वह १२८८ ई० में गया था। हमें अन्तिम तिथि ठीक जान पड़ती है क्योंकि माकोंपोलो हिन्द महासागर की किती यात्रा से १२८० ई० में 'त्वां आज्ञम' के दरबार में पहुँचा था। संभव है कि इस यात्रा में वह चम्बा गया हो।

[‡] यह शब्द फ़ारसी के 'आबनूस' शब्द का रूप है जिसे स्पेन की भाषा में 'अबीनज्ज' (Abenuz) और फ्रेंच भाषा में 'अबीन' (Abenus) कहते हैं।

अन्य द्वीप

चम्बा से दक्षिण की ओर चलकर फिर ७०० मील की यात्रा करने के पश्चात् दो टापू पड़ते हैं। उनमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा है। बड़े का नाम 'सोंदुर' और छोटे का 'कोंदुर' है। 'सोंदुर' से ५०० मील की यात्रा करने पर 'लोकाक' X आता है जो एक उत्तम और उपजाऊ देश है। यह देश किसी के अधीन नहीं। निवासी बुद्धधर्म मानते हैं। उनकी भाषा बड़ी विचित्र है। यह देश ऐसी जगह पर स्थित है कि इसे कोई विजय नहीं कर सकता।

इस देश में सोना बहुत होता है। हाथियों तथा अन्यान्य जंगली जानवरों की भी अधिकता है। यहाँ कौड़ियाँ भी चलती हैं। यह देश आबाद नहीं है।

'लेकाक' से पाँच सौ मील दक्षिण की ओर एक द्वीप है जिसे 'प्रेटम' कहते हैं। यहाँ के प्रायः सभी वृक्ष सुगन्धिपूर्ण

छाजकल इन दोनों द्वीपों को 'कोंदूर' (Kondor) नाम से पुकारते हैं। नवीं शताब्दी में अरब वाले इसे 'सुंदुर फलूत' कहते थे। 'फलूत' द्वीपाधीवाची है।

X 'लोकाक' वास्तव में 'लेक' है। इस नाम से सोलहवीं शताब्दी के इतिहासकार 'कम्बोजों' को याद करते थे जो 'श्याम' देश का एक हिस्सा है और श्याम की खाड़ी के पास स्थित है।

१ प्रेटम—वास्तव में यह 'बनटंग' अथवा 'बटियान' है।

होते हैं। नद्वे मील की दूर पर 'मोलर' (मलका) देश है। यह देश स्वतंत्र है। मसाले की पैदावार स्वूच होती है।

'प्रेटम' से सौ मील पर 'छोटोजावा' द्वीप है। जिसकी परिधि दो हजार मील से भी अधिक है। इस द्वीप के आठ भागी हैं जिनमें आठ शासक शासन करते हैं और प्रत्येक विभाग की भाषा अलग अलग है। यहाँ के निवासी अपने को बुद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। इस द्वीप में जटामासी तथा हर तरह के मसाले पैदा होते हैं।

इसके एक राज्य का नाम 'फलिक' (Ferlic) है। देश का बहुत सा भाग पहाड़ी है। देहातों के निवासी इतने असभ्य और जंगली हैं कि मनुष्य का मांस भी खाजाने हैं। सबेरे उठने पर जो वस्तु उन्हें सबसे पहले दिखाई देती है उसकी वह दिन भर उपासना करते हैं। उनको 'बट्टा' कहते हैं।

दूसरे राज्य का नाम 'बसमा' है। यह भी एक स्वतंत्र राज्य है। यहाँ के लोगों की भाषा बड़ी विचित्र है। इनमें न तो कोई धर्म है न कोई नियम। वे निरे जंगली हैं। इस देश में हाथों और गँड़े बहुत हैं। गँड़ा जब किसी से अप्रसन्न हो जाता है तो उसे

१ छोटा जावा-अरबवाले सुमात्रा को इसी नाम से पुकारते थे। अचुलकिंदा और इन बतूता ने भी सुमात्रा का यही नाम लिखा है।

२ 'फरलक'—रशीदुद्दीन ने इसे 'बालक' लिखा है किन्तु वा तविक नाम 'परलक' है यह सुमात्रा के उत्तर पूर्व में है।

३ बसमा—वास्तव में इस देश का नाम 'पाराई' है। पोर्टुगीज़ उसे 'पासीम' लिखते हैं। उनसे यह नाम अरब वालों ने सीखा और 'बासम' कहने लगे।

घुटनों में दबाकर और जिहा से रगड़कर मार डालता है। अनेक प्रकार के बन्दर और बाज इस देश में पाये जाते हैं। यूरोप के लोग यहाँ से एक प्रकार के बन्दर ले जाते हैं। ये बन्दर छोटे होते हैं और मनुष्यों की आकृति से मिलते जुलते हैं। इन्हें पकड़ कर यूरोपियन लोग ढाढ़ी तथा छाती के बालों को छोड़ सब बाल उखाड़ डालते हैं और फिर उनके ऊपर केसर का लेप करते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी आकृति में बहुत अन्तर पड़ जाता है और आदमियों से उनकी शाक बहुत मिलती जुलती हो जाती है।

‘बसमा’ से आगे बढ़ने पर ‘मुख्य सुमात्रा’ नामक खण्ड पड़ता है। यहाँ से ध्रुवतारा नहीं दिखाई देता। यहाँ के निवासी बौद्ध हैं। उनका एक राजा है। यहाँ ऐसी अच्छी मछलियाँ उत्पन्न होती हैं कि वैसी दुनियाँ भर में नहीं मिलतीं। गेहूँ बिल-कुल ही पैदा नहीं होता। अतएव लोग चावल और मछलियों पर निर्भाव करते हैं। ये लोग एक वृक्ष से शराब निकालते हैं। ये वृक्ष लम्बे और खजूर के से होते हैं। जब उन्हें शराब की आवश्यकता पड़ती है तो उस वृक्ष की एक शाखा तराश कर उससे एक छोटा घड़ा बांध देते हैं जो एक बा दो दिनों में अर्के से भर जाता है। यह अर्क शराब की जगह काम में लाया जाता है। वह बहुत स्वादिष्ट होता है और खूब नशा करता है। इस शराब से शायद जलन्धर रोग के रोगी अच्छे हो जाते हैं।

यहाँ नारियल के वृक्ष भी होते हैं जिसमें मनुष्य के सर के बराबर बड़े नारियल लगते हैं। उसकी गिरी खाई जाती है जो

१ यह वृक्ष सभवतः ताड़ है। भारतवर्ष में अभी तक इस दंग से ताड़ से शराब निकाली जाती है (जिसे ‘ताड़ी’ कहते हैं)।

बहुत स्वादिष्ट होती हैं और पानी जो गरी के भीतर होता है वहुत मीठा होता है लोग उसे बड़े चाव से पीते हैं।

इससे आगे बढ़ने पर 'धागरवीन'^१ आता है। यहाँ के निवासी बौद्ध हैं। इनमें एक विचित्र रीति प्रचलित है। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसके सम्बन्धीगण जादूगरों से पूछते हैं कि वह अच्छा हो जायगा वा नहीं। यदि वे कहते हैं कि अच्छा हो जायगा तो उसे छोड़ देते हैं अन्यथा ('अच्छा न होने का' जबाब मिलने से) अपनी जाति के सरदार को बुलाते हैं। सरदार उस रोगी के मुँह पर इतने कपड़े रख देता है कि उसका दम घुटने लगता है और वह मर जाता है। मर जाने पर उसका मांस पकाते और सब लोग मिल कर बड़ी प्रसन्नता से खाते हैं। उसकी हड्डियों को खूब चूसते हैं यहाँ तक की उनमें जरा सा गूदा भी नहीं रह जाता क्योंकि उनका विश्वास है कि हड्डियों में गूदा रह गया तो उनमें कोड़े उत्पन्न हो जायेंगे और खूराक न मिलने के कारण मर जायगा तो उनकी मौत का हिसाब मृत मनुष्य की आत्मा से लिया जायगा। खा पी कर हड्डियों को एक सन्दूक में बन्द करके पहाड़ों की गुफाओं में रख देते हैं जहाँ मांस भजी पशु नहीं जा सकते। यदि ये लोग किसी दूसरे देश के अदमी को पकड़ कर कैद कर लेते हैं तो उसे भी इसी तरह खा जाते हैं।

आगे चलने पर 'लम्बरी' नाम देश पड़ता है। यहाँ के

१—धागरवीन—इस स्थान का ठीक ठीक पता नहीं चलता। अनुमान किया जाता है कि यह स्थान 'पीदर' देश के समीप था।

२—लम्बरी—यथापि इस समय इस द्वीप का ठीक पता नहीं चलता तथापि रशीउद्दीन के कथनानुसार 'लम्बरी' नाम का एक द्वीप सुमात्रा और लंका के मध्य जल भाग में स्थित था। सम्भव है कि यही द्वीप हो।

निवासी बुद्ध धर्मानुयायी हैं। यहाँ कपूर और मसाले अत्यधिक परिमाण में पैदा होते हैं। इस देश में बनमानुस पाये जाते हैं। इनकी आकृति आदमियों से बहुत मिलती जुलती होती है। उन्हें एक दुम भी होती है^१ किन्तु उस पर बाल नहीं होते और वह कुत्ते की दुम के बराबर मोटी होती है। ये लोग पहाड़ों में रहते हैं और बिलकुल असभ्य तथा जङ्गली हैं। इस देश में गैंडे तथा दूसरे शिकार खेलने योग्य पशुओं तथा पक्षियों की अधिकता है।

लम्बरी से आगे बढ़ने पर 'फँसोर' देश आता है। यहाँ के निवासी भी बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इस देश में कपूर बहुत होता है जो सोने के समान मँहगा बिकता है। यहाँ गेहूँ पैदा नहीं होता। लोग चावल, दूध और गोश्त खाते हैं और ताढ़ी पीते हैं। इस देश में एक विचित्र प्रकार का लम्बा बृक्ष होता है जिसकी छाल अहुत बारीक (पतली) होती है। छाल के भीतर आटा^२ होता है। यहाँ बाले उसे बड़े चाव से खाते हैं। यात्री

१—दुमदार बनमानुस—हिन्द महासागर के बहुतेरे द्वीपों तथा अन्य कितने ही देशों में दुमदार मनुष्यों के होने का प्रमाण मिलता है। 'कङ्गवीनी' ने लिखा है कि 'सुमात्रा द्वीप के असमी प्रदेश में उसने दुमदार आदमी देखे जो बन्दरी और पक्षियों से मिलती जुलती जीलते थे। मासैंडन साहब ने भी लिखा है कि सुमात्रा द्वीप के मध्य भाग में एक जाति है जिसे दुम होती है उसे 'ओरझ गौगो' कहते हैं। मिं सेंट जान लिखते हैं कि जीर्णियों द्वीप में उन्होंने कुछ ऐसे अदमी देखे जिन्हें दुम थीं। पहले मुसलानों में यह प्रसिद्ध था कि 'तरावजन्द' के शाही आमदान के लोगों को दुम होती है।

२—आटा—सम्भवतः यह सागू का बृक्ष है जिसके गूदे को पीसकर आटा बनाया जाता है।

(मार्कोपोलो) अपने साथियों सहित कई बार इस आटे को खा कर उसका अनुभव कर चुका है ।

लम्बरी से आगे रवाना होकर डेढ़ सौ मील के पश्चात उत्तर की ओर दो द्वीप मिलते हैं जिनमें से एक का नाम 'नीको-वरान' है । यहाँ न कोई बादशाह है, न कोई सरदार । यहाँ के लोग बिलकुल जङ्गली हैं । श्रायः लोग नंगे रहते हैं । इस द्वीप में अच्छे वृक्ष पाये जाते हैं ।

'नीकोवरान' के आगे 'अंगामानेन' द्वीप पड़ता है । यह एक बड़ा द्वीप है । यहाँ कोई राजा नहीं है । निवासी जंगली हैं । उनके सर और लांबे और दाँत कुत्ते से होते हैं । उनकी आकृति कुत्तों सी होती है । ये लोग बड़े भयानक और रक्त-लोलुप होते हैं तथा अन्य दंशीय मनुष्यों को जहाँ कहीं देख पाते हैं पकड़कर खा जाते हैं । उनका निर्वाह मछली और चावल से होता है । कहीं कहीं मेवे तथा मसाले भी पैदा होते हैं ।

'अंगामानेन' से दण्डिक्ष पश्चिम की ओर जाने पर 'सीलोन' द्वीप है । इस द्वीप का घेरा चौबीस सौ मील के लगभग है । पहले इसका घेरा छत्तीस सौ मील था किन्तु उत्तरी बायु के कारण (जो बहुत तेजी से चलती है ।) पानी की लहरें किनारों से टकराती हैं । इन लहरों ने द्वीप का बहुत सा भाग काट दिया है ।

यहाँ के राजा का नाम 'संडीमन'^३ है । वह किसी को कर नहाँ देता वरन् एकदम स्वतंत्र है । निवासी बौद्ध हैं । ये लोग केवल कमर में कपड़ा पहनते हैं, शेष शरीर नंगा रखते हैं । यहाँ गंडूँ

१—नीकोवरान—निकोवार देश ।

२—अंगामानेन—आरहमन द्वीप ।

३—'संडीमन'—इस राजा का भारतीय नाम 'चन्द्रभानु' है ।

पैदा नहीं होता । चावल और सरसों पैदा होते हैं । लोग मछली, दूध और चावल खाकर जीवन व्यतीत करते हैं । ये लोग ताड़ी भी पीते हैं ।

इस देश में लाल^२(एक प्रकार की मणि), पुखराज (पुष्पराग) और नीलम पाये जाते हैं । यहाँ के बादशाह के पास एक सुन्दर और बहुत बड़ा लाल है जिसका जोड़ा संसार भर में मिलना कठिन ही नहीं वरन् एकदम असंभव है । वह एक बालिश्त लम्बा है और उसकी मुटाई आदमी की मुजाओं की सी है । यह लाल अत्यंत स्वच्छ, आग के समान लाल तथा चमकीला है । इसके मूल्य का अनुमान नहीं किया जा सकता । 'खां आजम' ने एक दूत भेजकर इस लाल को लेने की इच्छा प्रकट की थी और उसके बढ़ले में जो कुछ दाम हो, देने को तैयार था किन्तु राजा ने उत्तर दिया कि "यह लाल मेरे पूर्जों का स्मारक है । अतएव मैं इसे नहीं दे सकता" । सीलोन निवासी लड़ाके नहीं हैं वरन् शान्तिप्रिय हैं ।

इस देश में एक पहाड़ है; वह इतना ढालुचाँ है कि उसपर कोई चढ़ नहीं सकता था किन्तु अब लोगों ने लोहे की कीलें गाढ़कर मोटी मोटी जंजीरें लगा दी हैं और उनके सहारे लोग पहाड़ पर चढ़ जाते हैं । मुसलमान कहते हैं कि इस पहाड़ पर हजारत आदम का मकबरा है तथा बौद्ध लोग उसे शाक्य मुनि का पूज्य स्थल मानते हैं ।

बुद्धधर्म के संस्थापक महात्मा गौतमबुद्ध के सम्बन्ध में यहाँ:

१—इस पहाड़ पर पैर के दो निशान हैं जिनके सम्बन्ध में बौद्धों और मुसलमानों में बड़ा मतभेद है किन्तु ऐतिहासिक इष्ट से बौद्धों का यह ही ठीक जान पड़ता है ।

अनेक कथायें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब जब संसार पर कठिनाइयों पड़ी हैं बुद्ध ने जन्म लिया है^१। इस तरह बुद्ध ने चौरासी बार जन्म लिया था।

बौद्ध लोग बहुत दूर दूर से उस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। लोगों का कथन है कि यहाँ बुद्धदेव की समाधि है^२। रकाबी, (तश्तरी) दाँत और बाल जो वहाँ रखे हैं उन्हीं के बताये जाते हैं।

इस मक्कब्रे की जियारत के लिये मुसलमान लोग भी दूर दूर से आते^३ हैं उनका विश्वास है कि यह मक्कब्रा हजारत आदम का है और रकाबी, दाँत और बाल भी उन्हीं के हैं।

१—बुद्धयम् सम्बन्धी प्रसिद्ध पुस्तक ‘लाइट आव् एशिया’ (Light of Asia) में भी यह बात लिखी है कि बुद्ध इसे पहले भी कई बार संसार का दृख दूर करने के लिये जन्म ले चुके हैं—शास्त्र-वंश में जन्म लेना उनका संसार के लिये अन्तिम जन्म था।

२—सम्भवतः बुद्ध के मरने के बहुत दिन बाद आशोक के समय में लंका में बुद्ध की कुछ चीजें भेजी गई थीं और उन्हीं से यह समाधि बनाई गई थी।

३—मुसलमान और बौद्ध दूर दूर से इसका दर्शन करने के लिये बहुत पहले से आते रहे हैं। इन बनूतों ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि मुसलमान प्रायः दसवीं शताब्दी से यहाँ आने लगे। ‘तोहफतुल मज़ाहदी’ (जो भलाबार के मुसलमानों का इतिहास है) नामक इतिहास के अड़तालीसवें पेज में लिखा हुआ है कि मुसलमान यात्रियों का एक सुर्खड़ (जो आदम पर्वत की जियारत के लिये गया था) उत मुरक से होकर गुज़रा था। मार्कोपोलो ने लिखा है कि उसे स्पेन का एक मुसलमान मिला जो इस कब्र का दर्शन करने गया था किन्तु इतिहास तथा बाइबिल से आदम की कब्र का इस पहाड़ पर होना सिद्ध नहीं होता।

जब 'खां आजाम' को यह मालूम हुआ कि 'आदम' पर्वत पर हजरत आदम के बाल तथा दाँत इत्यादि रक्खे हुए हैं तो उसने कुछ आदमी सोलोन के राजा के यहाँ भेजे। बादशाह ने दो दाँत और कुछ बाल देकर आदमियों को रवाना किया। यह घटना १२८४ ई० की है।

इस रकाबी^१ में यह गुण है कि यदि उसमें एक आदमी का भोजन रख दिया जाता है तो पाँच का हो जाता है।

१— रकाबी—इतिहास से प्रकट है कि इस रकाबी को सभाट अशोक ने 'सीलोन' भेज दिया था। वहाँ से उसे एक तामिल सरदार पहली शताब्दी में ले गया किन्तु किसी तरह वह किर सीलोन पहुँच गई और 'कांडी' क्षेत्र के एक मन्दिर में अब तक रखी हुई है। प्राहियान के खेलानुसार इसी प्रकार की एक रकाबी पेशावर में थी। हान शांग लिखता है कि "ऐसी रकाबी फ़ारस में है"। सर हेनरी रालिमन लिखते हैं कि "वह क्रन्धार में है"।

भारतवर्ष का वर्णन

मीलोन में साठ मील उत्तर एक देश है जिसका नाम मुसलमान लोग 'माविर' बताते हैं। इस देश में पाँच राजा राज्य करते हैं। यहाँ अच्छे और बड़े मोतो पाये जाते हैं। इस देश और सीलोन के बीच में समुद्र है। किनारे पर खाड़ी है। मोती निकालने वाले अपने अपने जहाज लेकर इस खाड़ी में चले जाते हैं और अप्रेल से सम्पूर्ण मई तक रह कर मोती निकालते हैं।

मोती निकालनेवाले पहले एक स्थान पर एकत्र होते हैं जिसका नाम 'बटेलर' है। इसके बाद वे साठ मील तक खाड़ी में चले जाते हैं। उनके साथ मजादूरों की एक टोली होती है, जो गोते लगाकर मोती की सीपियाँ निकालती है। जितने माती मिलते हैं उनका दसवाँ हिस्सा सीलोन के राजा को देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मजादूरों को मजादूरों तथा जल-जन्तुओं के जादूगरों को रूपया देना पड़ता है। ये जादूगर जल के जानवरों का मुँह बन्द कर देते हैं कि वे गोता लगाने वाले मजादूरों को

१—माविर देश—तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में मुसलमान कारो-मण्डल के किनारे को 'माविर' कहते थे। 'अब्दुल नतीक' लिखित मिश देश के भूगोल में इसका बर्णन है। 'अबुलफ़िदा' ने भी यही नाम लिखा है।

२—'बटेलर'—इसका वर्तमान नाम 'पतलाम' है।

निगल न जाँय। सीलोन नरेश के मोती निकलवाने वालों से अच्छी आय होती है।

'मार्बिर' देश में दर्जी नहीं पाया जाता क्योंकि स्त्री, पुरुष, बालक, धनवान् सभी केवल कमर में एक कपड़ा बाँध लेते हैं। शेष शरीर खुला रहता है।

यहाँ का राजा नंगे पौंच रहता है। केवल कमर में एक कपड़ा बाँधता है। गले में एक हार पहनता है जिसमें लाल, नीलम, पुखराज इत्यादि रत्न गुथे रहते हैं। गले में एक माला भी होती है जिसमें मोतियों के एक सौ दो दाने होते हैं। १०२ दाने लगाने का कारण यह है कि उसे प्रातः, सार्थ १०२ बार अपने दंतलाचों के सम्मुख प्रार्थना करनी होती है। उसकी प्रार्थना में केवल एक शब्द है—'पकवट'^१ जिसे वह एक सौ दो बार दुहराता है।

यह राजा अपने भुजाओं पर तीन तीन सुनहला भुजबन्द पहनता है जिनमें बहुमूल्य मोती टके होते हैं। पैर में बहुमूल्य मोतियों के कड़े और ऊंगलियों में अगूँठी तथा पैर की ऊंगलियों में छल्ले पहनता है।

राजा की आज्ञा है कि अधिक बड़े मोती उसके देश से बाहर न जाँय। वह अच्छे २ मोती अपने यहाँ रख लेता है। वह साल में एक बार अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जिस मनुष्य के पास कोई बढ़िया, आबदार मोती अथवा दूसरे प्रकार का कोई रत्न हो तो वादशाह के पास ले जावे वह, उन रत्नों के दूना दाम देकर खरीद लेगा। दूना दाम भिलने पर सब

^१—'पकवट'—'पकवट' शब्द भगवत् से विगड़ते विगड़ते बन गया है जिसका अर्थ ईश्वर है।

लोग उसे अपने पास के बढ़ियाँ मोती तथा दूसरे रत्नादि बेच देते हैं।

इस राजा को पाँच सौ से अधिक राजनीयाँ हैं क्योंकि वह जिस खी को सुन्दर देखता अथवा सुनता है, उसे रानी बनाकर महल में सम्मिलित कर लेता है। उसने अपने भाई की खी को भी (जो बहुत सुन्दर है) रानी बनाकर महल में रख लिया है।

राजा की सेवा में बहुत से सरदार उपस्थित रहते हैं। वे सर्वदा उसके साथ रहते हैं। उनको बड़े बड़े पद दिये गये हैं। उनके अधिकार अतीव विस्तृत हैं। जब राजा मर जाता है और उसका शव चिता पर फूँ का जाता है तो ये सरदार भी राजा के साथ उसी आग में जलकर मर जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि वे दुनियाँ में तो उसके मित्र बने रहे अतएव परलोक में उसका साथ देना उचित है।

इस देश के राजा का खजाना असंख्य है क्योंकि जब एक राजा मर जाता है तो दूसरा जो उसकी जगह पर बैठता है पहले के खजाने में हाथ नहीं लगाता वरन् स्वयं एक नया खजाना संग्रह करता है। वंश परम्परा से ऐसा करते करते खजाने में अपार धन हो गया है।

इस देश में घोड़े पैदा नहीं होते, इसलिए देश के धन का एक बड़ा भाग उनकी खरीद में चला जाता है। हुरमुजा, सोहार और अदन के सौदागर प्रति वर्ष जहाजों में घोड़े भरकर इस देश में लाते हैं। पांचों राज्यों में से हर एक में प्रायः दो दो हजार घोड़े प्रति वर्ष आते हैं। एक अच्छे घोड़े का मूल्य पाँच सौ रुपया होता है। यहाँ इतने घोड़ों के प्रति वर्ष खरीदे जाने

का कारण यह है कि अधिकांश घोड़े जल वायु के परिवर्तन तथा अच्छी तरह सेवा न होने के कारण मर जाते हैं।

इस देश में जब किसी अपराधी को 'प्राणदण्ड' दिया जाता है तो वह अपराधी राजा से प्रार्थना करता है कि वह अगुक देवी अथवा देवता के नाम पर जान देना चाहता है। राजा, उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर लेता है जिसके बाद उसके सम्बन्धी गण उसे (अपराधी को) एक गाड़ी में सवार करके, हाथों में बागह छुरियाँ दे देते हैं और फिर उसे सारे शहर में घुमाते तथा कहते जाते हैं कि "अमुक मनुष्य, अमुक देवी व देवता के नाम पर अपनी जान देता है।" जब घुमाते घुमाते वे नियत स्थान पर पहुँच जाते हैं तो वह अपराधी जोर से चिलाता है कि "मैं अमुक देवी वा देवता के नाम पर जान देता हूँ" और यह कहकर वह एक छुरी अपने दाहिने हाथ की भुजा में भोक लेता है और इसी प्रकार वायें हाथ की भुजा, पेट तथा शरीर के अन्यान्य अंगों में। यहाँ तक कि वह मर जाता है। जब उसका दम निकल जाता है तो उसके निकटस्थ सम्बन्धी और मित्राण्य उसके शव का बड़ी धूम धाम से आग में जला देते हैं।^१ इस दश

१—प्राणदण्ड—भारतवर्ष भर में कभी और किसी समय में अपराधियों का ऐसी सज्जा नहीं दी गई। इतिहास में भी इसका वर्णन नहीं है। माकोंपोलो का अभिप्राय शायद जान देने के उस ढंग से है जिसमें लोग अपने को किसी देवी अथवा देवता के नाम प्रसन्नतापूर्वक बत्ति कर रहे थे। इसका प्रमाण इतिहास से भी मिलता है। म० जोश्वार्यन्स लिखते हैं कि एक मनुष्य ने अपना सर तेज़ चाकू से काटकर एक देवता की मृत्ति पर चढ़ा दिया। इन ब्रह्मूता लिखता है कि भारतवर्ष और रथाम में आत्म बत्ति के ऐसे बदाहरण पाये जाते हैं।" म० वाङ्मी

में बहुतेरी स्थियाँ अपने पति के साथ प्रसन्नतापूर्वक चिता पर बैठकर जल जाती हैं।^१

इस देश के निवासी बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उनमें से बहुत से लोग बैल और गाय को पूजते हैं क्योंकि वे उसे जीवित देवता और भोजन देने वाला समझते हैं। वे न तो गाय काटते हैं और न उसका गोश्त खाते हैं। हाँ, एक जाति अवश्य है जो इनका माँस खाती है। इन लोगों को 'गोबी' कहते हैं किन्तु ये लोग भी गायों और बैलों को काट कर उनका माँस नहीं खाते वरन् मर जाने पर उनका माँस खाते हैं। इस देश के लोग अपने घरों को गोबर से लीपते हैं। धनों और दीन मध्य जामीन पर बैठते हैं क्योंकि वे जामीन को पूज्य मानते हैं।

इस देश के लोग जब कभी युद्ध में सम्मिलित होते हैं तो एक ढाल, एक वरछा और एक तलवार ले लेते हैं और पैदल लड़ाई में चले जाते हैं। ये लोग इतने दयावान हैं कि स्वयं कभी

लिखते हैं कि "मैंने बंगाल प्रान्त स्थित प्रसिद्ध नदिया ज़िले के पास के एक गाँव 'कशीर' में एक हथियार देला जिससे लोग अपना सर काटकर किसी देवी अथवा देवता को भेट चढ़ाते थे।" पादरी टिफिन टाल्ज़ के लेख से पता चलता है कि उन्होंने भी एक ऐसा हथियार इलाहाबाद में देला। हिन्दुओं में एक किम्बदन्ती प्रचलित है कि उज्जैन के गहारा विकामादिय प्रति दिन प्रातःकाल अपना सर काट कर देवी को चढ़ाते थे जो किर उनके घड़ से अपने आप लग जाता था किन्तु अन्तिम बार न लग सका।

१—मार्कोपोलो का आशय 'सती प्रथा' से है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध प्रथा थी।

किसी पशु के नहीं मारते ; हाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर सुसलमानों से कटवाते हैं ।

इस देश के खी पुरुष दिन में दो बार स्नान करते हैं । जो मनुष्य प्रति दिन स्नान नहीं करता उसे गन्दा समझते हैं । वे दाहिने हाथ से भोजन खाते हैं, बायें हाथ से उसे छूते भी नहीं । स्वच्छता और पवित्रता के सारे कार्य दाहिने हाथ से करते हैं और अपवित्र कार्य बायें हाथ से ।

प्रत्येक व्यक्ति पानी पीने के लिये एक बर्टन अपने लिये अलग रखता है । उससे मुँह लगाकर पानी नहीं पीता बरन् धारा बॉथ-कर हाथ की अँगुली के द्वारा मुँह में डालता और पोता जाता है । जब वे किसी को पानी पिलाते हैं तो ओक से, बर्टन से नहीं ।

इस देश में लोग शराब नहीं पीते, । लोग शराब पीना बहुत बुरा समझते हैं और शराबी को विश्वास योग्य लगाते नहीं करते ।

इस देश में यह रीति है कि यदि महाजन अपने ऋण दिये हुए रुपये के लिये ऋणी मनुष्य से तकाज़ा करे फिर भी ऋणी मनुष्य रुपये न लौटावे बरन् बहाना करता रहे तो महाजन भौका पाकर उस ऋणी के चारों ओर एक रेखा खींच देता है । रेखा से घिर जाने पर (ऋणी) मनुष्य जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाता है और जब तक रुपया न दे अथवा कोई जमानत न करे तब तक उस घेरे के बाहर नहीं निकलता । यदि वह घेरे से बाहर निकल जाय तो राजा उसे नियमानुसार झगड़ देता है । एक बार राजा के यहाँ किसी विदेशी व्यापारी का रुपया बाकी था । राजा देने में इधर उधर करता था । जब एक दिन राजा शहर में घोड़े पर चढ़कर जा रहा था तो उस व्यापारी ने फुर्ती से उसके और उसके घोड़े के चारों ओर लकीर खींच दी । यह देखते ही राजा

खड़ा हो गया और तब तक ज्यों का त्यों खड़ा रहा जब तक सौदागर को रुपये नहीं लौटाये गये। इससे राजा की न्यायशीलता का परिचय मिलता है।^१

इस देश में गर्मी बहुत पड़ती है। साल भर में तीन महीने (जून, जुलाई, अगस्त) पानी बरसता है।

यहाँ के लोग मनुष्य को केवल एक बार देख कर उसका स्वभाव, आचरण इत्यादि बता देते हैं। वे लोग शकुन भी मानते हैं और पशुओं तथा पक्षियों से शकुन का विचार करते हैं। यदि कोई मनुष्य कहाँ जा रहा हो और दूसरा छाँक दे तो अच्छी छाँक होने पर वह चला जाता है अन्यथा थोड़ी देर ठहर जाता है।

जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने की घड़ी, दिन, नक्षत्र राशि इत्यादि की सहायता से उसकी एक 'जन्मपत्रिका' तैयार की जाती है। यहाँ के लोग जादू और फलित ज्योतिष को बड़े विश्वास की दृष्टि से देखते हैं।

इस देश में जब लड़के बारह वर्ष के हो जाते हैं तो उनको कुछ धन देकर कोई काम करने पर जोर दिया जाता है क्योंकि इतनी अवस्था के लड़के स्वर्यं कमाने के योग्य समझे जाते हैं। ये लड़के दिन भर चीजें खरीद खरीद कर बेचा करते हैं। जब धीरे धीरे, उनके पास कुछ पैंजी हो जाती है तो गर्मी के दिनों में दो चार मोती खरीद कर सौदागरों के हाथ बेच देते हैं और इस भाँति कुछ पैदा कर लेते हैं।

*—वर्णन वसूल करने की विचित्र रीति—'कल्जीनी', वर्धीमा तथा अल्कजेएहर हैमिललटन ने भी भाकीपोलों की इस आत को ठीक माना है किन्तु 'कल्जीनी' ने इसे सीलोन में बताया है, कारोमरहल में नहीं।

इस देश में तथा भारत के अन्य प्रान्तों में नाना प्रकार के पशु, पक्षी पाये जाते हैं। भेड़ें, इटलो देश की सो होती हैं किन्तु चमगादर पक्षी, वहाँ की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है।

घोड़ों को चाल और उबला हुआ मांस देते हैं जिससे वे शीघ्र मर जाते हैं। इस देश में देवी और देवताओं के बहुत मन्दिर हैं जिनमें कुमारी वालिकाएँ देवताओं की सेवा को रखी जाती हैं। जब कोई त्योहार पड़ता है तो संन्यासी लोग उन लड़कियों को बुलाते हैं। लड़कियाँ नाना प्रकार के भोजन बना बनाकर थालियों में मूर्तियों के सम्मुख रखती हैं और फिर देवताओं की प्रशंसा के गीत गाती, नाचती, आनन्द मनाती तथा प्रार्थनायें करती हैं। इसके बाद देवता का प्रसाद समझ सब लोग उन भोज्य पदार्थों को बाँटकर खा जाते हैं। लड़कियाँ तभी तक इन मन्दिरों में रहती हैं जब तक वे कुमारी होती हैं और व्याहने योग्य नहीं हो जातीं। लड़कियों का जीवन, शुद्ध और तपस्यापूर्ण होता है। ऐसी लड़कियाँ 'देवदासी' कहलाती हैं।

इस देश के धनिक ऐसी चारपाईयों पर सोते हैं जो बेत से बनाई जाती हैं और हल्की होती हैं। उनके चारों ओर पायों और पतली लकड़ियों के सहारे पतली जाली के समान बुने हुये कपड़े लगाये जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मच्छर और मर्मिलयाँ न काट सकें।

इस देश के बच्चे काले रंग के होते हैं। पैदा होने पर उनकी मातापूर्ण उन्हें रोजा सरसों का उबटन लगाती हैं जिनसे वे और भी काले हो जाते हैं। अपने देवताओं की मूर्तियाँ भी प्रायः वे काली ही बनाते हैं।

इस देश के लोग गाय तथा बैल को पवित्र जातवर समझते

हैं। जब वे लड़ाई में जाते हैं तो सवार, गाय अथवा जंगली बैल के बाल अपने घोड़े की गर्दन में तथा पैदल लड़ने वाले सैनिक अपनी ढालों में बाँध लेते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि ऐसा रकने सेयुद्ध से वे बिना वायल हुए ही घर लौटेंगे।

‘माविर’ से उत्तर की ओर चलकर एक लम्बी यात्रा समाप्त करने के पश्चात् ‘मेतोपल्ली’ आता है। यहाँ का राजा, चालीस वर्ष हुए, मर गया। आजकल राजा की रानी शासन करती है। वह एक योग्य स्त्री है। न्याय और बुद्धिमानी से राज्य करके सम्पूर्ण प्रजा को उसने अपने वश में कर लिया है। वह अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी इसीलिए उसके मरने पर फिर उसने व्याह नहीं किया। यहाँ के लोग दूध, मछली और चावल खाते हैं।

इस देश में हीरे मिलते हैं। कई ऊँचे पर्वत हैं। जाड़े में जब पानी तेजी से बरसता है तो पहाड़ों से चश्मे वह निकलते हैं, लोग उनकी तली में खोजते हैं, उन्हें बहुत से हीरे मिल जाते हैं। ये हीरे गर्मी में भी पहाड़ों में खोज करने से मिलते हैं किन्तु गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि वहाँ तक पहुँचना कठिन हो जाता है और पहाड़ों पर पानी बिलकुल नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त वहाँ साँपों की भी अधिकता है। ये साँप बहुत जाहरीले होते हैं और लोगों को काट खाते हैं। इस प्रकार कितने ही आदमियों की जानें जा चुकी हैं।

इन पहाड़ों में बड़ी गहरी और नीची घाटियाँ हैं जिनकी तली में हीरे पाये जाते हैं किन्तु घाटियों में साँपों की अधिकता है और उनकी तली तक मनुष्य की पहुँच नहीं है। घाटियों के ऊपर एक प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं जो साँपों को खा जाते हैं। जो

लोग हीरं खोजने जाते हैं, वे अपने साथ मांस के पतले चमड़े ले जाते हैं, इन चमड़ों में वे एक प्रकार की लसदार चीज़ लगा देते हैं। उन पक्षियों के सामने वे, उन लसदार पतले चमड़ों को घाटियों की तली में फेंक देते हैं। वे पक्षी ज्योंही आदमियों को चमड़ा फेंकते हुए देखते हैं त्योंही झपटकर तली में चले जाते हैं और उन चमड़ों को पंजों में दबाकर उठा लाते हैं और एक स्थान पर उन्हें खाने के लिये बैठते हैं, किन्तु लोग उनकी ताक में लगे रहते हैं और खाने नहीं देते वरन् पत्थर मारकर उन्हें उड़ा देते हैं। उनके उड़ जाने पर वे वहाँ जाकर चमड़ों को उठा लेते हैं और उनमें से हीरों के टुकड़े छुड़ा लेते हैं, जो उस लसदार वस्तु के कारण चमड़े से चिमट जाते हैं।

इन पहाड़ों पर एक और ढंग से भी हीरे प्राप्त किये जाते हैं। लोग उन पक्षियों के घोंसले से उनकी बीट से हीरे निकाल लेते हैं क्योंकि वे मांस के साथ हीरे भी निगल जाते हैं जो बीट में बाहर निकल आते हैं। कभी कभी उन पक्षियों का शिकार करके उनका पेट चीर कर भी हीरे निकाले जाते हैं।

इस देश में बहुत ही उत्तम और सूक्ष्म मलमल बुनी जाती है जो दूर दूर के देशों में भी जाती है और राजाओं तथा रानियों के पहनने के काम में आती है। मेंढ़े बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ प्रायः सभी आवश्यक वस्तुएँ मिल जाती हैं।

यहाँ से उत्तर पश्चिम में 'लार' नामक एक प्रान्त है। यहाँ के जाह्हण बड़े अच्छे व्यापारी और सत्यवादी हैं। वे दुनिया की किसी चीज़ के लिये मूठ नहीं बोलते। यदि कोई विदेशी व्यापारी जो उस देश की क्रय-विक्रय-रीति से अनभिज्ञ हो अपना माल इन्हें सौंप दे तो ये उसे बहुत सज्जाई और ईमानदारी से बेचते हैं,

और उस भेंट के अतिरिक्त जो, वह व्यापारी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक दे देता है, कुछ नहीं लेते और न तो किसी धोखे के ढंग से लेने का यत्न ही करते हैं। वे लोग अपने धार्मिक नियमों के सच्चे अनुगामी हैं। वे न तो मांस खाते हैं और न शराब पीते हैं, न कोई ऐसा काम करते हैं जिनसे किसी को कुछ दुख हो। दूसरों को कोई चीज़ नहीं लेते। व्यभिचार का उनमें नाम भी नहीं है। ये लोग गले में यज्ञोपवीत धारण करते हैं जिसे वे बड़ा पवित्र समझते और उसका सम्मान करते हैं।

ये लोग शकुन पर बड़ा विश्वास रखते हैं। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर को छाया नापो जाती है। जो मनुष्य कोई वस्तु खरीदना चाहता है, वह प्रातः काल धूप में खड़ा हो जाता है और अपनी छाया देखता है। यदि उसकी छाया की नाप ठीक होती है तो वह सौदा कर लेता है और यदि कम होती है तो नहीं करता। इनके यहाँ प्रतिदिन दिन का एक पहर बुरा समझा जाता है जैसे बुध के दिन दोपहर का समय, वृहस्पति के दिन तीसरे पहर का इत्यादि। उस समय लोग कोई काम नहीं करते।

यदि कोई मनुष्य घर में बैठा हुआ छिपकली को दीवार की उस दिशा से आता देखे जो शुभ मानी जाती है तो उसी समय जो काम करना होता है कर डालता है और यदि अशुभ दिशा से आता हुआ देखता है तो वड़ी देर तक कोई काम नहीं करता। यदि किसी को बाहर कहीं काम से जाते समय छोंक हो जाय तो छोंक अच्छी होने पर वह चला जाता है अन्यथा लौट आता है।

इन ब्राह्मणों की आयु अधिक होती है क्योंकि वे खाने पीने, नहाने धोने में संयम से काम लेते हैं। एक प्रकार की तरकारी खाने से उनके दाँत भी सुहृद हो जाते हैं। इस तरकारी से उनके स्वास्थ्य को बड़ा लाभ होता है।

इस देश का राजा बड़ा धनवान और शक्तिशाली है। उसे रत्नादि इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। वह इन ब्राह्मणों को मात्रिर देश में जवाहिरात खरीदने के लिये भेजता है। जिस मूल्य पर वे खरीद कर लाते हैं उससे दूना दाम देता है।

इस देश में धार्मिक नेताओं का एक किरक्का होता है जिसे योगी (योगी) कहते हैं। ये योगी प्रायः जाति के ब्राह्मण होते हैं। इनकी आयु डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ बरस की होती है। ये थोड़ा और सादा भोजन करते हैं। गंधक और पारे से एक प्रकार का सत निकाल कर बाल्यावस्था ही से खाते हैं जिससे वे दीर्घायु होते हैं और शरीर हष्टपुष्ट रहता है।

कुछ योगी ऐसे हैं जो ईश्वर भजन करके परिश्रम के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग नंगे रहते हैं क्योंकि उन्हें वासनायें अपने अधिकार में नहीं ले आ सकती। वे इन्द्रिय-निग्रही होते हैं। गाय के सूखे गोबर की राख अपने शरीर पर भलते हैं जिसे वे पवित्र तथा शरीर नीरोग रखने के लिये आवश्यक समझते हैं और जब कोई उनका भक्त मिल जाता है तो यह राख उसके ललाट पर भल देते हैं।

वे वर्तन में भोजन नहीं करते वरन् वृक्षों के पत्तों से बने हुए पत्तल पर। ये पत्ते हरे नहीं, सूखे होने हैं क्योंकि उनका विचार है कि हरे पत्तों में भी जान होती है किसी की जान को सताना पाप है। चाहे कोई उनकी जान होल्ले किन्तु वे धार्मिक नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं करते। यदि कोई उनसे नंगा रहने का कारण पूछता है तो वे उत्तर देते हैं कि “हम संसार में नंगे ही आये थे और नंगे ही चले जायेंगे अतएव हमें सांसारिक वस्तुओं से कोई सम्बन्ध न रखना चाहिए। मनुष्य लज्जा निवारण के लिये बस-

पहनता है किन्तु जिनके मन में बुरी वासनायें नहीं हैं और जो संसार से सम्बन्ध त्याग एक ईश्वर के ही ध्यान में मग्न हैं उन्हें कपड़े पहन कर अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की क्या जालरत है ? कपड़े पहनने की आवश्यकता तो उन्हें है जो संसार से सम्बन्ध रखते हैं और जिनमें वासनायें शेष रह गई हैं ।”

वे किसी की जान नहीं मारते क्योंकि ऐसा करना वे पाप समझते हैं । हरी तरकारियाँ नहीं खाते वरन् सूखी से काम चलाते हैं । वे जामीन पर नंगे सोते हैं, न कुछ ओढ़ते हैं, न कुछ बिछाते हैं । वे सर्वदा भूखे रहते हैं और पानी के अतिरिक्त कोई चीज़ पीते भी नहीं ।

जब वह किसी को अपना शिष्य बनाते हैं तो उसे पहले अपने मठ में बहुत दिनों तक रखते हैं और उसे अपनी ही भाँति, संयम से जीवन व्यतीत कराते हैं । जब उसकी परीक्षा कर लेते हैं तो वह उन सुन्दरी कुमारियों को (जो भूतियों की सेवा करती हैं) बुलाते हैं और उस मनुष्य को उनके साथ रहने, तथा स्वच्छन्दतापूर्वक धूमने के लिये छोड़ देते हैं । वे लड़कियाँ गाने गाती तथा तरह तरह से उस मनुष्य को लुभाने की घेषा करती हैं । ये बातें इस ढंग से की जाती हैं कि उस आदमी को मालूम नहीं होता कि यह सब हानारी ही परीक्षा के लिये है । यदि वह मनुष्य उन लड़कियों के प्रेमि लापरवाही दिखाता है तो उसको अपना शिष्य बनाते हैं ~~क्षमा~~ कि ऐसे आदमी इन्द्रियनिश्चय होते हैं ।

वे सुरदों को इस विचार से फँकते हैं कि यदि शब फँका न जाय तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं । जब उन कीड़ों को भोजन नहीं मिलता तो वे मर जाते हैं और उनकी मृत्यु का पाप मृतक मनुष्य को होता है ।

‘भाविर’ देश में एक ऐश्वर्यशाली नगर है जिसका नाम ‘कायल’ है। यहाँ एक शक्तिसम्पन्न राजा राज करता है। उसका नाम ‘आशार’ है। ‘कायल’ एक अच्छा वन्दरगाह है। यहाँ अरब और अदन इत्यादि देशों के व्यापारियों के जहाज ठहरते हैं। यह एक व्यापारी नगर है।

यहाँ का राजा बड़ा धनी है। न्याय के साथ राज्य करता है। उसे लगभग तीन सौ रानियाँ हैं क्योंकि इस देश में जिस मनुष्य की अधिक स्त्रियाँ होती हैं उसका अधिक आदर होता है।

इस देश के धनवान, दरिद्र सब लोग पान बहुत खाते हैं। वे सुपारी, चूना, कथा तथा अन्य चीजों डालकर उसका बीड़ा लगाते हैं और सर्वदा चबाते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी की बेइज्जती करने को होता है तो पान की पीक उसके मुँह पर थूक देता है। वह आदमी राजा के यहाँ प्रार्थना करता है। राजा उसे थूकने वाले मनुष्य से लड़ने की आशा देता है और लड़ने के लिये एक तलबार भी। वे दोनों लड़ते हैं और लोग तमाशा देखते हैं, यहाँ तक कि लड़ते-लड़ते एक मारा जाता है।

कोलम इत्यादि देशों का हाल

‘माविर’ से पाँच सौ मील दक्षिण पश्चिम की ओर कोलम देश स्थित है। इस देश में अदरक और मिर्च बहुत पैदा होती है। मिर्च के वृक्षों में वरावर पानी लगता रहता है अन्यथा वे सूख जाते हैं। मिर्च की फसल मई, जून और जुलाई में एकत्र की जाती है। एक वृक्ष के पौधे से नील भी निकाला जाता है। लोग उसकी लकड़ी को पानी में भिगोते हैं। जब लकड़ी का रंग धुलकर पानी को नीला बना देता है तो उस पानी की धूप में सुखाते हैं जब नीचे नीला रंग रह जाता है तो उसकी टिकिया बना लेते हैं।

यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। यदि कोई गर्मी के दिनों में नदी में अरण्डा डालकर लौटे तो वह थोड़ी दूर जाने न पावेगा कि अरण्डा उबल जायगा।

इस देश में एशियाई रूम, अरब, चीन, श्याम इत्यादि दूर-दूर देशों में से व्यापारी आते हैं। व्यापार में उन्हें बड़ा लाभ होता है।

इस देश के पश्चि पक्षी, इटली के से नहीं होते। यहाँ शेर का रंग काला होता है। तोतों का स्वेत। उनके चौंच और पाँव लाल होते हैं। किसी-किसी का रंग नीला और किसी-किसी का हरा होता है। यहाँ के मोर अत्यंत मुन्द्र और देखने योग्य होते हैं। इस देश में केवल चावल होता है। यहाँ के ज्योतिषी और दार्श-

निक लोग विद्वान होते हैं। लोगों का रंग काला है। बहुत लोग भाई के मर जाने पर उसकी स्त्री को रख लेते हैं।

कोलम के पश्चात् 'कुमारी' देश आता है। यहाँ से ग्रुवतारा कुछ-कुछ दिखाई देता है। उसे देखने के लिये लोगों को समुद्र में तीस मील तक जाना पड़ता है।

इधर एक जंगली प्रान्त है। इसमें सब प्रकार के जंगली जानवर पाये जाते हैं। बन्दर तो कई तरह के और विचित्र होते हैं। शेर, चीते, तेंदुये बहुत हैं।

'कुमारी' से लगभग तीन सौ मील उत्तर पश्चिम 'हेली आरावी'^१ स्थित है। यहाँ का राजा स्वतंत्र है, वह किसी को कर नहीं देता। सम्पूर्ण देश में एक भाषा बोली जाती है जो दूसरे देश की भाषाओं से नहीं भिन्नती। इस देश में कोई अच्छा बद्रगाह नहीं। इस देश में मिर्च, अदरक और मसाले की पैदावार खूब होती है। राजा का खजाना मालामाल है किन्तु सेना का प्रबन्ध ठीक नहीं है। प्राकृतिक रूप से इस देश की स्थिति कुछ ऐसी है कि शत्रु इसमें प्रवेश नहीं कर सकते अतएव राजा को कोई खटका नहीं है।

यदि कोई जहाज़ा किसी दूसरे देश को जाए हो और संयोग-वश उनके तट पर ठहर जाय तो यहाँ के निवासी उसे यह कहकर लूट लेते हैं कि "तुम कहीं दूसरी जगह जा रहे थे किन्तु ईश्वर ने तुम्हें हमारी ओर भेज दिया अतएव हम तुम्हारे माल के अधिकारी हैं!" ऐसा करना वे पाप नहीं समझते।

यह रीति दक्षिणी भारत के कई स्थानों में प्रचलित है कि दूसरे देशों के जाते हुए जहाज़ा को अपने किनारे में पाकर वे लूट

१—यह वही देश है जो वर्तमान 'कनानोर' के उत्तर में है।

लेते हैं, किन्तु जो जहाज उन्हीं के देश को आते हैं उसका बे बड़ा सम्मान करते हैं। इसीलिए जो जहाज इधर से होकर दूसरे देशों को जाने को होते हैं, अपने पास खाने पीने का पूरा सामान रख लेते हैं और तब बहुत शीघ्र समुद्र से होकर निकल जाते हैं।

इस देश में शिकार योग्य पशु पक्षियों की अधिकता है।

मालाबार और गुजरात

‘हेली’ से पश्चिम की ओर मलाबार है । यहाँ का राजा स्वतंत्र है । निवासियों में बहुत से बौद्ध हैं । इस देश से ध्रुवतारा भलीभाँति दिखाई देता है । इस देश में समुद्री डाकुओं की अधिकता है । वे व्यापारियों को बड़ी हानि पहुँचाते हैं । ये डाकू जहाजों को लूट लेते हैं और यदि जहाजों का स्वामी यह सोच कर जवाहिरात निगल जाये कि वे डाकुओं के हाथ न लग सकें तो वे डाकू, उसे समुद्र के पानी में एक चीज़ (जिसे ‘तमरहिन्दी’ कहते हैं) मिला कर पिलाते हैं जिससे उसे दस्त होने लगते हैं और जवाहिरात निकल आते हैं ।

इस देश में अबरक, मिर्च, दाल चीनी, सुपारी और नारियल खूब होते हैं । यहाँ से ये चीज़ें दूर दूर के देशों में भेजी जाती हैं । अदन, ग्रीस, चीन इत्यादि दूर दूर के देशों से व्यापार होता है ।

नील यहाँ अधिक होता है । कपास के पेड़ (जिसे ‘देवकपास’ कहते हैं) अधिकता से हैं । वे बड़े ऊँचे होते हैं और उनमें बीस वर्ष तक कपास लगती है । बारह साल तक की कपास तो कातने और कपड़ा बुनने के काम में आती है किन्तु अन्तिम आठ वर्ष की कपास, कातने और कपड़ा बुनने योग्य नहीं होती बरन् गहों और तोशकों को भरने के काम आती हैं ।

यहाँ चटाइयाँ बहुत अच्छी बनाई जाती हैं जिसमें अच्छी

कारीगरी की जाती है और पशुओं तथा पक्षियों के चित्र खींचे जाते हैं। यह चटाइयाँ बिछौने का काम देती हैं। तकिये भी अच्छे बनते हैं।

इसके बाद वह देश मिलता है जिसे 'थाना' कहते हैं। यहाँ का राजा स्वतंत्र है। लोगों की एक अलग भाषा है। यहाँ मसाले इत्यादि तो पैदा नहीं होते 'धूप' और 'गुगुल' नाम की वस्तुएँ (जो जलाने के काम में आती हैं) बहुत होती हैं। यहाँ से विदेशी व्यापारी सोना, चाँदी, ताँबा और रुद्दले जाते हैं। व्यापार बहुत बड़ा चढ़ा है।

१—वर्तमान काल का 'सांक्सेट' (Shillatto—यम्बई के पास),
झीप।

खम्बात और सोमनाथ

‘थाना’ से उत्तर और गुजरात से पश्चिम की ओर खम्बात है। यहाँ के निवासी मूर्तिपूजा पर असीम विश्वास रखते हैं। इनकी भाषा अलग है। यहाँ का राजा, स्वतंत्र है। यहाँ से ध्रुवतारा भलीभाँति दिखाई भी देता है।

इस देश में व्यापार खूब होता है। नील की खेती होती है। रुई दूसरे देशों को भेजी जाती है। चमड़े का व्यापार अधिक होता है। विदेशी सौदागर सोना चाँदी और तूतिया लाकर बेचते हैं।

खम्बात से आगे चलकर पश्चिम की ओर सोमनाथ पड़ता है जो एक बड़ा देश है। यहाँ के निवासी भी मूर्ति पूजा करते हैं। इनका राजा भी स्वतंत्र है। यहाँ के लोग बड़े सत्यवादी होते हैं। अधिकांश निवासी व्यापार और कारीगरी करते हैं।

यहाँ से और आगे चलकर एक विच्छिन्न देश पड़ता है जिसे ‘कजमकरान’ (सम्भवतः कच्छ) कहते हैं। यहाँ के निवासी ग्रामः मुसलमान हैं। वे व्यापार करते और चावल, दूध तथा गोश्त से अपना निर्वाह करते हैं। यहाँ पर भारतवर्ष की सीमा का अन्त हो जाता है।

सकोत्रा^१ और मेडागस्कर^२

‘कजा मकरान’ से चलकर दो द्वीप मिलते हैं। इन दोनों द्वीपों में लगभग तीस मील का अन्तर है। यहाँ के निवासी इसाई हैं। इन दोनों द्वीपों की विचित्र बात यह है कि एक में बिलकुल पुरुष ही पुरुष हैं और दूसरे में लियाँ। पुरुष प्रति वर्ष मार्च के महीने में दूसरे द्वीप में चले जाते हैं और तीन मास तक अपनी लियों के साथ रहते हैं। तीन महीने के बाद वे फिर अपने द्वीप को लौट जाते हैं और खेती तथा व्यापार करते हैं। वे मछली और चावल खाते हैं। समुद्र में जाल ढाल कर बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं। इनमें कोई राजा नहीं हैं।

लियाँ, लड़कों को केवल चौदह वर्ष तक अपने पास रखती हैं। इसके पश्चात् वे, उन्हें उनके पिता के पास भेज देती हैं। लड़कियाँ सब दिन लियों ही के यहाँ रहती हैं।

इन द्वीपों से दक्षिण की ओर पाँच सौ मील की यात्रा करने पर ‘सकोत्रा’ द्वीप मिलता है। यहाँ इसाई बसते हैं। ये लोग चावल मछली और मांस खाते हैं।

१—सकोत्रा (Socotra)—अरब के दक्षिण ओर अद्दन के पूर्व में एक छोटा-सा द्वीप है।

२—मेडागास्कर (Madagascar) अफ्रीका—‘पोर्त्युगेज् पूर्वी अफ्रीका’ (Portuguese East Africa) के पूर्व हिन्द महासागर में यह बड़ा भारी द्वीप है।

यहाँ के लोग 'हेल' मछली का शिकार करके उसकी चरबी निकाल लेते हैं। इस चरबी का खूब व्यापार होता है।

इन इसाइयों का धार्मिक नेता (ड्वामाक), रोम के पोप से कोई सम्बन्ध नहीं रखता किन्तु वह एक दूसरे धर्माध्यक्ष के अधीन है जो 'रोडस' द्वीप में रहता है और जिसके अधीन और भी बहुत से छोटे-छोटे इमाम हैं।

समुद्री डाकू लोग यहाँ अपना माल बेचने को लाते हैं और लोग उनकी चीजें प्रसन्नतापूर्वक खरीदते हैं।

इस देश में जादूगर भी हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं। यदि कोई जहाज़-समुद्र में चला जा रहा हो और हवा उसके अनुसार चल रही हो तो वे जादू के बल से हवा का जोर उलट देते हैं। केवल इतना ही नहीं वरन् आँधी भी पैदा कर देते हैं।

'सकोत्रा' से लगभग एक हजार मील दक्षिण मेडागास्कर द्वीप कुछ दूर तक समुद्र में फैला हुआ है। यहाँ के निवासी मुसलमान हैं। इस द्वीप में चार शेख (मुसलमानों की एक उपजाति) राज्य करते हैं। यह द्वीप बहुत सुन्दर और दुनिया भर के द्वीपों से बड़ा है। क्योंकि इसका घेरा लगभग बीस हजार मील है। निवासी व्यापारी और कारीगर हैं। इस द्वीप में हाथी बहुत पैदा होते हैं। हाथीदाँत का व्यापार बड़े जोरों पर है। लाल चन्दन के वृक्ष भी पाये जाते हैं।

यहाँ के रहने वाले ऊँट का मास खाते हैं जिसे वे स्वास्थ्यप्रद और अत्यंत स्वादिष्ट बताते हैं। ये लोग हेल मछली का शिकार बड़ी चालाकी से करते हैं। इस देश में तेंदुए, रीछ, शेर, तथा अन्यान्य जंगली जन्तुओं की अधिकता है। बिदेशी व्यापारी लाकर जरदोजी के कपड़े बेचते हैं।

‘मेडागास्कर’ इतनी दूर दक्षिण में स्थित है कि जहाज उसके उत्तर के एक द्वीप तक—जिसका नाम ‘जंगवार’ है जाते हैं। इसका कारण यह है कि समुद्र की लहरें दक्षिण की ओर इतने जोर से हिलोरे लेती हैं कि जहाज उभी में बह जाते हैं, लौट नहीं सकते।

‘मेडागास्कर’ के दक्षिण में जो द्वीप है उसमें एक पक्षी पाया जाता है जिसे ‘रुख’ कहते हैं। वह बहुत बड़ा होता है और बड़े बड़े जानवरों को पंजां में दबाकर ऊपर ले जाता है और फिर गिरा देता है जिससे वे मर जाते हैं और फिर वह उन्हें बैठकर खाता है। लोगों में यह किम्बदन्ति प्रचलित है कि वह हाथियों को भी इसी भाँति मारकर खाता है। एक रुक्ष के बाजू तीस क्रदम चौड़े थे और पर बारह क्रदम लम्बे।

‘खां आज़म’ ने इस पक्षी का ठीक ठीक हाल मालूम करने और अपने एक दूत को मुक्त कराने के लिये (जो वहाँ झैद था) कुछ आदमियों को बहाँ भेजा था। लौटने पर वे ‘रुख’ का एक पर लाये थे जो पैतालीस हाथ लम्बा था। हन द्वीपों में भैंसे के बराबर बड़े सूअर पाये जाते हैं। जिराफ और जंगली गधों की भी कमी नहीं है।

‘जंगवार’ एक बड़ा द्वीप है। यहाँ के निवासी मूर्तिपूजक हैं। वे बिलकुल स्वतंत्र हैं, उनमें कोई राजा नहीं है। ये लोग लम्बे, चौड़े और बलवान होते हैं। वे चार चार आदमियों को आकेले उठा ले जा सकते हैं। पाँच पाँच आदमियों के बराबर खाते हैं।

१—‘अकाश’ से मतलब है किन्तु यह गलती है कि वह हाथी को पंजां में दाढ़ कर ले जाता है।

इनका रंग काला है और प्रायः नंगे रहते हैं। बाल कड़े और मोटे होते हैं। मुँह चौड़ा, नाक ऊपर को चढ़ी हुई, होंठ मोटे, आँखें बड़ी तथा खूनी होती हैं। देखने ही से डर लगता है।

इस द्वीप में हाथी बहुत पाये जाते हैं। शेर काले होते हैं। भेड़ों का सम्पूर्ण शरीर स्वेत और सर काला होता है। जिराफ नाम का एक सुन्दर पशु भी यहाँ होता है। उसका धड़ छोटा और पीछे की ओर को ढालुवाँ होता है। पिछली टांगें छोटी होती हैं किन्तु अगली टांगें और गर्दन लम्बी होती हैं। सर छोटा होता है। यह जानवर किसी को दुःख नहीं पहुँचाता। उसका रंग लाल होता है।

इस द्वीप की खियाँ बड़ी भद्दी होती हैं। मुँह चौड़ा, आँखें बड़ी और नाक मोटी।

यहाँ के निवासी मांस, मछली, चावल और छुहारे खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। चावल, खजूर और मसाले के मिश्रण से एक प्रकार की शराब तैयार की जाती है। यहाँ व्यापार खूब होता है। अधिक व्यापार हाथीदाँत और हेल मछली की चरबी का होता है।

यहाँ के निवासी निर्भय और बीर सिपाही होते हैं। वे युद्ध में जी तोड़कर लड़ते हैं। यहाँ घोड़े नहीं होते अतएव वे लड़ाई में झटों और हाथियों पर चढ़कर जाते हैं। हाथियों पर परदे करके होते हैं और उन पर दस से सोलह आदमी तक बैठ सकते हैं। युद्ध के समय वे हाथियों को शराब पिला देते हैं जिससे वे लड़ाई में खूब छटकर लड़ते हैं। ये लोग बरछियों, तलवारों और पथरों से लड़ते हैं और मृत्यु से नहीं डरते।

‘दांगवार’ के पश्चात् ‘अबीसोनिया’ देश है। इसमें अधि-

कांशतः हवशी रहते हैं। इस देश में छः बादशाहों का राज है। उनमें से तीन इसाई हैं और तीन मुहम्मदी। सब से बड़ा बादशाह इसाई है। शोप पाँच उसे कर देने हैं।

सब से बड़ा इसाई बादशाह, इस देश के बीच में राज करता है और मुहम्मदी बादशाह अदन को ओर के हिस्से में राज करते हैं। इस देश में इसाई धर्म 'मेट टाम्स' के धर्मापदेश से प्रतिष्ठित हुआ था।

इस देश के निवासी अच्छे घुड़सवार हैं। इस देश में घोड़े अधिकता से पाये जाते हैं। ये लोग प्रायः सुलतान अदन तथा दूसरे राजाओं से लड़ाई कराएँ में लगे रहते हैं।

स० १२८८ई० में इस देश के सब से बड़े इसाई बादशाह ने 'बेतुलमक्कदस' जाकर उसका दर्शन करने का विचार किया किन्तु उसके साथियों ने सम्मति दी कि "आपका जाना ठीक नहीं है, खतरे में पड़ जाने की सम्भावना है।" अतएव बादशाह ने अपनी राय बदल दी और एक इसाई पादरी को यहाँ भेजा। इस इसाई पादरी के द्वारा बादशाह ने उपहार में सुलतान अदन को अच्छी अच्छी चीजों भेजी थीं। वह पादरी लम्बी यात्रा समाप्त करके सुलतान अदन के यहाँ पहुँचा। अदन के निवासी मुसलमान, इसाईयों से शत्रता रखते थे। जब सुलतान को ज्ञात हुआ कि वह इसाई और 'हवश' देश के बादशाह का दूत है तो उससे कहा कि "तू मुहम्मदी धर्म स्वीकार कर ले अन्यथा तेरो बड़ी बेइज्जती की जायगी।" किन्तु उसने उत्तर दिया कि "चाहे मैं मार डाला जाऊँ परन्तु इसाई धर्म छोड़ नहीं सकता।" इस पर सुलतान अदन ने 'जबरदस्ती उसका खतना' करवा दिया।

१— ज्ञतना मुसलमानों का एक आर्मिक संस्कार है।

जब वह अच्छा हो गया तो वहाँ से चलकर एक बड़ी यात्रा के बाद फिर अपने देश में लौट आया और बादशाह के दरबार में जा पहुँचा । उसने 'बेनुलमक्कदस' का सब हाल बताकर सुलतान अदन के अत्याजारों का वर्णन किया जिसे सुनते ही बादशाह क्रोध से पागल हो गया और उसने प्रतिज्ञा की कि "जब तक इस अपमान का बदला न ले लूँगा, ताज सर पर न रखवूँगा ।"

अपनी पूरी करने के लिये उसने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और सुलतान अदन के ऊपर आक्रमण कर दिया । सुलतान ने भी अन्य तीन मुसलमानी राज्यों को मिलाकर उसका समर्जना किया किन्तु विजय इसाई बादशाह की हुई । अब उसने हजारों मुहम्मदियों को क्रत्ति कराया और बदला लेकर अपने देश को लौट गया ।

'हबश' (अबीसीनिया) देश में खाने-पीने की चीजें मिल जाती हैं । प्रायः लोग गोशत, मछली और दूध पर निर्वाह करते हैं । जिराफ़, रीछ, तेंदुँवे, शेर आदि जङ्घली जानवरों की अधिकता है । जंगली गधे, मुरगों, बत्तख, तोते और भाँति भाँति के बन्दर भी पाये जाते हैं । निवासी व्यापारी हैं । कुछ लोग कारी-गरी भी करते हैं ।

अदन देश

‘अदन’ का बादशाह ‘सुलतान’ कहलाता है। निवासी मुहम्मदी हैं जो इसाइयों से धृणा करते हैं। ‘अदन’ एक बन्दरगाह है जहाँ भारतवर्ष के जहाज़ आते हैं। इस बन्दरगाह से सौदागर, छोटी छोटी नौकाओं में माल लाद कर सात दिन में एक स्थान पर पहुँचते हैं और वहाँ से ऊटों के द्वारा तीस दिन में नील नदी के तट पर पहुँच कर क़ाहिरा और अस्कंदरिया को माल ले जाते हैं।

‘सुलतान अदन’ को इस बन्दरगाह से बड़ी आय होती है। जब सुलतान बाबुज़ ने ‘अकरा’ पर चढ़ाई की थी तो ‘सुलतान अदन’ ने उसकी सहायता के लिये तीस हज़ार मवार और चालीस हज़ार ऊंट भेजे थे।

‘अदन’ बन्दर से उत्तर पश्चिम लगभग चार सौ मील पर ‘उशाहर’ है। यहाँ का बादशाह सुलतान अदन को कर देता है। वह न्याय के साथ राज करता है।

नगर निवासी मुहम्मदी हैं। यह नगर बड़ा सुन्दर है। उसमें एक बन्दरगाह भी है, जहाँ भारतवर्ष के जहाज़ आकर ठहरते हैं और घोड़े भरकर ले जाते हैं। इस देश में स्वेत लोहबान बहुत पैदा होता है जिससे यहाँ के बादशाह को बड़ी आय होती है क्योंकि उसके अतिरिक्त और किसी को लोहबान बेचने का अधिकार नहीं है।

इस देश में खजूर बहुत होता है। थोड़ा चावल भी होता है किन्तु बाहर से बहुत आता है और महँगा बिकता है। मछलियाँ सस्ती बिकती हैं। गोश्त, मछली और चावल खाकर लोग निर्वाह करते हैं। शकर, चावल और खजूर के संमिश्रण से एक प्रकार की शाराब बनाते हैं। यहाँ की भेड़ों के कान नहीं होते। कान के स्थान पर छोटे छोटे सींग निरुलते हैं।

इस देश के पालतू पशु (घोड़े, ऊँट, बैल) छोटी छोटी मछलियाँ खाकर निर्वाह करते हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और चीज खाने को मिलती ही नहीं। यह देश, दुनिया के सम्पूर्ण देशों से अधिक शुष्क है। इसमें चारा पैदा नहीं होता। छोटी छोटी, मछलियाँ मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में पकड़ कर सुखा लो जाती हैं और साल भर तक मवेशियों को खिलाई जाती हैं। यहाँ के निवासी भी अपने खाने के लिये बड़ी बड़ी मछलियों के टुकड़े करके सुखा लेते हैं और साल भर तक खाते हैं।

इससे ५०० गील उत्तर और कुच पश्चिम की ओर 'ज़फ़ार' पड़ता है। यहाँ का बादशाह भी सुलतान अद्दन को कर देता है। यह नगर समुद्र के किनारे बसा है और एक अच्छा बन्दरगाह है। यहाँ भी भारतवर्ष के जहाज थोड़े लादने आते हैं। सफेद लोहबान भी पैदा होता है। लोहबान के बृहों में जगह जगह चाकू से छाल काट दिये जाते हैं। छाल काटने से रबर की भाँति रस ऊपर निकल कर जम जाता है जो सूख कर गोंद की तरह हो जाता है। यही लोहबान है।

'ज़फ़ार' से आगे बढ़ कर छः सौ मील उत्तर की ओर 'किलात' आता है। यह एक बड़ा शहर है और समुद्र तट पर बसा है। यहाँ के निवासी मुहम्मदी और शाह हुरमुज़ की प्रजा हैं। जब शाह हुरमुज़ की राजधानी पर कोई चढ़ाई करता है तो

बह इस शहर में चला आता है क्योंकि यहाँ का किला बहुत मज़बूत और अजेय है।

इस देश में अनाज पैदा नहीं होता; बाहर से आता है। यहाँ का बन्दरगाह बहुत बड़ा और सुन्दर है जिसमें भारतवर्ष के सैकड़ों जहाज अनाज और मसालों से भरे पड़े रहते हैं और अपना माल बेच कर अरबी धोड़े भारतवर्ष को ले जाते हैं।

यह नगर एक म्बाड़ी के मुहाने पर बसा हुआ है इससे कोई जहाज बादशाह की आज्ञा के बिना उधर से उधर नहीं जा सकता। शाह हुरमुज, सुलतान किरमान को कर देता है। जब उसे सुलतान की ओर से किसी बात का खटका या डर होता है तो वह जाहाजों में सवार होकर और सामान लाद कर इस शहर में चला आता है जिससे सुलतान को बहुत हैरान होना पड़ता है और अन्त में उसे शाह हुरमुज की बात मानना पड़ती है अन्यथा उसकी आय में बड़ी छति पहुँचती है।

इस देश में मछली खूब पैदा होती है। लोग मछली और खजूर खाकर पेट पालते हैं। बड़े बड़े धनी भी यही खाते हैं।

‘किलात’ से लगभग ३०० मील पर ‘हुरमुज’ बसा है जो समुद्र के किनारे एक वैभवसम्पन्न नगर है। निवासी मुहम्मदी हैं। यहाँ गरमी बहुत ज्यादा पड़ती है अतएव मकानों में हवादान अधिक लगाये जाते हैं अन्यथा गर्मी बरबास नहीं हो सकती। इसके पश्चात् टर्की का देश है।

टर्की साम्राज्य का हाल

टर्की का बादशाह 'कीदू खां' है जो 'खां आजम' का सम्बन्धी और चराताई खां के वंश में है। उसकी प्रजा तातारी हैं। तातारी अच्छे सिपाही होते हैं क्योंकि वे सर्वदा मारकाट में लगे रहते हैं।

'कीदू खां' और 'खां आजम' (किबलाई खां) में सर्वदा युद्ध हुआ करता है। कीदू खां ने अपने पिता का हिस्सा किबलाई खां से माँगा था। उसके बाप के हिस्से में 'खता' और 'इण्डोचीन' दो देश आते थे। किबलाई खां ने कहा कि "थे देश तुम्हे अवश्य दिये जायेगे किन्तु पहले तुम मेरे दरबार में उपस्थित होकर मेरी अधीनता स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करो।" कीदू खां को किबलाई खां का विश्वास नहीं था अतएव उसने कहला भेजा कि मैं यहां से यह शर्त पूरी कर दूँगा, आपके यहाँ उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। इसी बात पर दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उस समय से लेकर अब तक दोनों में लड़ाई जारी है। किबलाई खां ने अपनी सीमा पर एक बड़ी सेना नियंत कर दी है कि कीदू खां हाथ पैर न फैला सके।

कीदू खां के अधिकार में चंगेजा खां के वंश के कई छोटे छोटे बादशाह हैं। उनकी सक्षमता से उसने बहुत से देश विजय कर लिये हैं और वह युद्धस्थल में एक लाल सवार प्रत्येक समय ला सकता है।

टर्की राज्य की सीमा, हुरमुजा के उत्तर पश्चिम 'जीहून' नदी के किनारे से आरम्भ होती है। १२६६ई० में कीदू खां और उसके एक और सहायक बादशाह ने मिलकर 'खां आजम' के दो सहायक बादशाहों पर चढ़ाई की किन्तु 'खां आजम' ने एक सेना तैयार करके दोनों को हराया। दोनों और के बहुत से सैनिक मारे गये किन्तु दोनों बादशाह (कीदू खां और उसका सहायक) बचकर निकल गये। इस युद्ध के दो वर्ष बाद कीदू खां ने एक भारी और सुशिक्षित सेना तैयार की और 'कुराकुरम' पर चढ़ाई कर दी जहाँ किबलाई खां का लड़का राज्य करता था। दोनों और को सेनायें भिड़ गईं। लाखों आदमी मारे गये। संध्या के पश्चात् दोनों की सेनायें अपने अपने स्थान पर चली गईं।

रात को 'कोदू खां' को यह समाचार भिला कि 'खां आजम' ने एक बड़ी सेना अपने बेटे की सहायता के लिये रवाना कर दी है जो अब आया ही चाहती है तो उसने रात को वहाँ से कूच कर दिया और वापस चला आया। सबेरे 'खां आजम' के बेटे को उसके चले जाने की स्वर लगी किन्तु उसने कीदू खां का पीछा करना व्यर्थ समझा क्योंकि उसकी सेना भी थकी माँदी थी।

कीदू खां के कई बेटे हैं किन्तु वह अपनो इफलौती बेटी 'एयारल्स' को सबसे अधिक प्यार करता है। वह बड़ी सुन्दर है किन्तु साथ ही इतनी बलवान है कि कीदू खां के राज्य में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो उसका सामना कर सके।

२—'एयारल्स'—यह शब्द ताहारी भाषा का है जिसका अर्थ 'चन्द्रमुखी' है।

जब वह जवान हुई तो कीदू खां ने उसकी शादी कर देने का विचार किया किन्तु उसने यह स्वीकार न किया बरम् प्रतिज्ञा की कि “मैं उसी पुरुष से विवाह करूँगी जो गुम्फे हरा है।” कीदू खां ने कहा कि जब और जिससे चाहे तू शादी कर ले।

शाहजादी ‘एयारख’ ने अपने पिता कीदू खां के साम्राज्य भर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो पुरुष उससे लड़ने आये, वह यदि हार जाय तो सौ घोड़े दे और यदि जीत जाय तो उससे शादी कर ले। यह बात जानकर बहुत से शाहजादे और वीर पुरुष उससे सामना करने आये किन्तु उसने सबको नीचा दिखाया। यहाँ तक कि धीरे धीरे, बस हजार घोड़े उसने जीत लिये पर कोई उसे हरा न सका। सन् १२८० ई० में एक शाहजादा उसका सामना करने आया। वह अच्छे डीलदौल वाला, वीर और बलवान था। ‘कीदू खा’ और उसकी मलका दोनों उस सुन्दर युवक को देखते ही लट्ठू हो गये और बेटी से कहने लगे कि “उससे हार खा जाना क्योंकि वह एक बड़े बादशाह का लड़का और तेरा पति बनने योग्य है,” किन्तु शाहजादी ‘एयारख’ ने उत्तर दिया कि “यों तो मैं उससे विवाह नहीं कर सकती, हाँ यदि वह गुम्फे हरा देगा तो मैं सैयार हूँ।”

दोनों का सामना होने के लिये एक दिन नियत हुआ। उस दिन वहाँ बड़ी जनता जुटी थी। बादशाह और मलका दोनों नमाशा देखने गये थे। दोनों में देर तक कुरती होती रही, अन्त में शाहजादी ने उसे उठाकर जामीन पर चित दे भारा। शाहजादा बहुत लजित हुआ और हजार घोड़े देकर चुपचाप अपने घर चला गया।

इस बात से कीदू खां और उसकी मलका को बड़ा दुःख हुआ क्योंकि उसे वह अपना दामाद बनाना चाहते थे।

इसके पश्चात् कीदू खां ने अपने शत्रुओं के साथ जितनी लड़ाइयाँ लड़ीं, उन सब में शाहजादी को भी सम्मिलित किया। वह बड़ी ही निःडर और वीर थी। शत्रुओं की सेनाओं पर बिजली की भाँति जाकर गिरती तो उनमें खलबली पैदा हो जाती थी। वह दो दो मर्दों को बगाल में दाबकर ले आती थी और तल-वार तथा अन्यान्य हथियारों के चलाने में बड़ी निपुण थी।

‘कीदू खां’ के राज्य से ‘अया खां’ के राज्य की सीमा मिली हुई है। ‘कीदू खां’ के लोग उसकी प्रजा को सताते और उनपर अत्याचार करते थे अतएव ‘अया खां’ ने अपने बेटे ‘अररोन’ को उन्हें हटाने के लिये नियत किया। जब ‘कीदू खां’ को यह समाचार मिला तो उसने अपने एक भाई ‘बारक खां’ को एक सेना के साथ रवाना किया किन्तु इस सेना को ‘अररोन’ ने नाश कर दिया।

बिजय के बाद ही ‘अररोन’ को अपने पिता के मर जाने का समाचार मिला अतएव उसने शीघ्र राजधानी की ओर सेना-सहित कूच किया किन्तु उसका एक चचा ‘अहमद सुलतान’ अररोन से पहले ही ‘अया खां’ की मृत्यु की खबर पाकर सेना सहित वहाँ पहुँच गया और खजाने पर अधिकार करके अपने को वहाँ का बादशाह प्रसिद्ध कर दिया। उसने सब सरदारों और मुसाहिबों को धन देकर अपनी ओर मिला लिया।

थोड़े ही दिन बाद ‘अररोन’ ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और ‘अहमद सुलतान’ को कहला भेजा कि “राजगद्दी मुझे लौटा दे”, किन्तु उसने इन्कार कर दिया। अन्ततः दोनों में घमासान लड़ाई हुई जिसमें ‘अहमद सुलतान’ की विजय हुई और ‘अररोन’ बन्दी कर लिया गया। थोड़े दिन बाद ‘अहमद सुलतान’ अपने देश को छला गया और ‘अररोन’ तथा ‘अया खां’ के राज्य को एक सरदार के हाथ में छोड़ गया।

जब 'अरगोन' कैद में पड़ा सड़ रहा था तो एक तातारी सरदार (जिसका नाम 'बोका' था) को उस पर बड़ी दया आई । वह और सरदारों के पास गया और उनसे कहने लगा कि "हम लोगों ने न्याय का खून किया है । हमारा बादशाह और इस राज्य का स्वामी वास्तव में अरगोन है । मेरी इच्छा है कि 'अहमद सुलतान' को दूर करके 'अरगोन' को गही पर बिठाया जाय ।" 'बोका' सब सरदारों से बृद्ध और बुद्धिमान था अतएव सब सरदारों ने उसकी बात मानली और सब मिलकर 'अरगोन' के पास गये और उससे अपनी इच्छा प्रकट की ।

पहले तो 'अरोगन' उनकी बातों को व्यंग समझ कर अप्रसन्न हुआ किन्तु पीछे शपथ खाने पर उसे विश्वास हुआ । इसके बाद सरदार ने उसकी बेड़ियाँ काट डालीं और उसे अपना बादशाह स्वीकार कर लिया । कैद से छूट कर अरगोन ने सरदारों को उस सरदार का क़ल्ल करने की आज्ञा दी जो 'अहमद सुलतान' की ओर से वहाँ राज्य करता था । सरदारों ने उसकी आज्ञा मानकर उसे क़ल्ल कर दिया और 'अरगोन' को गही पर बैठाया ।

इन बातों की खबर एक दूत से 'अहमद सुलतान' को लगी अतएव वह डर के मारे 'शाह बाबुल' की शरण में भागा किन्तु रात्से में एक अफसर ने उसे कैद कर लिया और 'अरगोन' के दरबार में (जो उस समय 'तबरेज़' में था) उपस्थित किया । जब 'अरगोन' ने 'अहमद सुलतान' को अपने सामने देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसे क़ल्ल करा दिया ।

इसके बाद बहुतेरे सरदारों, जो भिन्न भिन्न सूबों के हाकिम थे, आये और सब ने उसे अपना बादशाह स्वीकार किया ।

‘अरणोन’ ने अपने बेटे ‘शाजन’ को तीस हजार सवारों की सशस्त्र सेना के साथ अपनी सीमा की रक्षा के लिये नियम किया। इसके बाद अरणोन छः वर्ष राज्य करके परलोच सिधारा। ‘अरणोन’ के मरते ही उसके भाई ‘कीखातू’ ने राज्य पर अधिकार कर लिया। उस समय ‘शाजन’ सीमा पर था जब वह माल्हम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह वहीं रह गया और मौके की ताक में लगा रहा। ‘कीखातू’ बड़ा विश्वर्य था उसने ‘अरणोन’ की मलका को अपनी बीबी बना लिया। चार साल राज्य करने के बाद वह जहर देकर मार डाला गया।

‘कीखातू’ के मरते ही ‘बीदू’ ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। जब शाजन को ‘कीखातू’ की मृत्यु और ‘बीदू’ के सिंहासन नासीन होने का समाचार मिला तो उसे और भी दुःख हुआ क्योंकि वह ‘कीखातू’ से बदला भी न ले सका और राज्य भी न पासका। अब उसने ‘बीदू’ से बदला लेने की ठानकर उसपर एक बड़ी सेना के साथ चढ़ाई कर दी।

‘बीदू’ ने भी एक बड़ी सेना इकट्ठी करके उसका सामन किया किन्तु युद्ध के समय ‘बीदू’ की सेना का एक बड़ा अंश ‘शाजन’ की सेना से जा मिला। ‘बीदू’ पकड़ कर कँटल कर दिय गया। इसके बाद ‘शाजन’ सीधा राजधानी में पहुँचा और गहर पर अधिकार कर लिया। सब सरदारों ने उसे अपना बादशाह स्वीकार किया। यह घटना १२५४ई० की है।

टर्की से आगे उत्तर की ओर शाह किवाँची का देश है। यह बादशाह किसी के आधीन नहीं है। उसके राज्य में न शहर है न किले। उसकी प्रजा खुले मैदानों और पहाड़ी घाटियों में रहती

१—साइरिया का वह भाग जो काला सागर और कास्पियन सागर

है। इस देश में अनाज पैदा नहीं होता। लोग मवेशियों के दूध और मांस से अपना निर्बाह करते हैं। ये लोग किसी से लड़ाई भगड़ा नहीं करते और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस देश में डैंट, घोड़े इत्यादि अधिकता से पाये जाते हैं।

यह देश उजाइ और जंगलों से पटा पड़ा है। इसमें सड़कें नहीं हैं। सफेद रीछ, काली लोमड़ियाँ और जङ्गली गधे बहुत मिलते हैं। देश का एक भाग अवश्य हराभरा है उसमें सोतों और भीलों की अधिकता है। बर्फ खूब गिरती है। चारों ओर दलदल हैं अतएव घोड़े नहीं चल सकते। इस हिस्से को पार करने में तेरह दिन लगते हैं। १३ दिन की इस यात्रा में एक दिन की यात्रा पर एक सराय है जिसमें छोटे-छोटे कुत्ते हैं। ये कुत्ते गाड़ियाँ खींचते हैं। ये गाड़ियाँ बर्फ पर चलाई जाती हैं। इसमें पहिये नहीं होते। इस हिस्से के निवासी अच्छे शिकारी हैं।

इस देश में इतनी ज्यादा सरदी पड़ती है कि लोग पृथ्वी के भीतर मकान बनाकर रहते हैं। ये ऊदबिलाव और ऐसे जानवरों को फंदा डालकर पकड़ते हैं जिनके समूर (बाल, रोयें) से ओढ़ने के लिए कपड़े बनाये जा सकते हैं।

इस देश के आगे एक और देश पड़ता है जिसे 'अंधकार का देश' कहते हैं। यहाँ न तो सूर्य निकलता है और न चांद तथा के मध्य में है और जिसमें बालगा, नीपर तथा ढान नदियाँ नहती हैं। शाह किवांची भी चंगेज खां के ही बंश का था। इस देश के लोग भी वही धर्म मानते हैं जो तातारों मानते हैं।

१—'अंधकार का देश'—साइबेरिया के उत्तर का वह भाग जो उत्तरी ग्रीष्म से निला हुआ है और जहाँ ६ महीने की रात तथा ६ महीने का दिन होता है।

सितारे ही दिखाई पड़ते हैं। सर्वदा अधेरा छाया रहता है। इस देश के लोग ज़ज़ली हैं और पशुओं की भाँति रहते हैं। उनका कोई राजा नहीं है।

इस देश के लोग शिकारी हैं। वे प्रायः उन जानवरों का शिकार करते हैं जिनकी समूर बहुमूल्य होती है। इस समूर को वे अपने पढ़ोसियों के हाथ बेच देते हैं। तातारी कभी-कभी इस समूर को लूटने के लिये उनपर घदाई करते हैं। इस देश के निवासी सुन्दर और मज़बूत होते हैं। उनका रँग पीला होता है। इस देश की सीमा खम से मिली हुई है।

रूस का वर्णन

रूस एक बड़ा देश है और उत्तर की ओर फैला हुआ है। इसके निवासी इसाई हैं और 'श्रीक चर्च' से सम्बन्ध रखते हैं। इस देश में कई बादशाह हैं। उन सब की भाषा एक ही है। लोग पुरुष दोनों सुन्दर होते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। इन लोगों का रंग सफेद है। बाल लम्बे होते हैं। वे 'चराताई खाँ' के वंशजों को कर देते हैं।

यथापि इस देश में समूर बहुत होता है किन्तु लोग व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते। यत्र तत्र चाँदी की खाने भी पाई जाती है।

यहाँ सरदी बहुत पड़ती है जो बरदाशत नहीं की जा सकती। इस देश से मिला हुआ एक देश है जिसे बालाशिया कहते हैं। उसमें कोई बादशाह नहीं है। निवासी इसाई हैं। यहाँ भी समूर बाले जानवर पाये जाते हैं। यहाँ के लोग समूर का व्यापार करते हैं।

इसके पूर्व बहुत दूर तातार के पश्चिमी भाग में 'पोनेरट' नामक देश है। यहाँ का बादशाह 'सीन जान' के नाम से प्रसिद्ध था किन्तु उसका असली नाम 'धातू खाँ' था। उसने रूस, रूमानिया, अलानिया, बालाशिया, सरकाशिया, गोमथा, और करारिया इत्यादि अनेक देशों को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया।

‘चातू खाँ’ के पश्चात् उसके बंश में कई बादशाह हुए और इस समय जो बादशाह राज्य करता है उसका नाम ‘बरहा’^{५५} है। उसमें और उसके एक सम्बन्धी में (जिसका नाम हलाकू खाँ है और जो ‘लीबाएट’ देश का बादशाह है) १२६१ ई० में एक बड़ी लड़ाई हुई थी।†

‘हलाकू खाँ’ और ‘बरहा’ को सीमा में मिली हुई हैं। १२६१ ई० वाली लड़ाई ‘सराय’ के मैदान में हुई थी। हलाकू खाँ ने एक बड़ी सेना लेकर बहाँ अपना डेरा जमाया, उधर से ‘बरहा’ अथवा ‘बारक खाँ’ भी उसका सामना करने के लिए तीन लाख पचास हजार सेना लेकर आया और उसने हलाकू खाँ की सेना से १० मील के अन्तर पर अपना डेरा डाल दिया।‡

तीन दिन विश्राम करने के बाद दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध आरम्भ हुआ। हलाकू खाँ की नियंत्रण हुई।

तातारियों के पश्चिमी राज्य का एक बादशाह ‘तुराय मंगो खाँ’ था। उस निकाल कर ‘तुलाबग खाँ’ ने राज्य पर अधिकार कर लिया, किन्तु मंगो खाँ ने अपने भिन्न ‘नौगाय खाँ’ की सहायता से ‘तुलाबग खाँ’ को क़त्ल करके राज्य ले लिया। थोड़े ही दिन राज करके वह भर गया। उसके मरने पर ‘तकतो खाँ’ बादशाह हुआ।

‘तुलाबग खाँ’ के दो छोटे बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो ‘तकतो खाँ’ के पास पहुँचे। ‘तकतो खाँ’ ने जब उनसे उनके आने का चहेश्य पूछा तो उन्होंने कहा:—

^{५५} ‘बरहा’ अथवा ‘बारक खाँ’ का वर्णन पुस्तक के आरम्भ में ही चुका है।

† पुस्तक के आरम्भ में इसका वर्णन ही चुका है।

“आपको मालूम है कि मेरे बाबू ‘तुलाबरा खां’ को ‘मंगो खां’ और ‘नौगाय खां’ ने मिल कर कल्प कर डाला था। ‘मंगो खां’ तो मर गया किन्तु ‘नौगाय खां’ जीवित है, अब हम चाहते हैं कि आप उससे बदला लें।”

‘तकतो खां’ ने ‘नौगाय खां’ के पास दूत भेज कर उसे तुलाबरा किन्तु उसने कुछ ध्यान न दिया। अन्त में दोनों में लड़ाई हुई जिसमें ‘तकतो खां’ की हार हुई और वह, ‘तुलाबरा खां’ के दोनों लड़कों के साथ भाग गया।^{१०}

^{१०} इसके पश्चात् मार्कोपोलो बैनिस लौट गया। जिसके पश्चात् १२६८ई० में उसे युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा और उसमें वह बहुत दिनों तक अन्दरी रहा। इसका वर्णन हो सकता है।